वनकेमांझेविधिसोंवांधिवनावत।२।नाजननरिनरिदेकुंडवारोतवह
ताहिपवावत।चत्रभुजप्रभुगिरधरफिरिपाछेधोरीधेनखिलावत।३।रा
ग।सारंग।षेलनकोंधोरीअकुलांनी।डांडमेलिआतुरसनमुखह्वैस्यांम
सुंदरकीसुनीमृदुवांनी।१।वडेडेगोपचकितभयेगदेपहअवलोंदेखी
नकहांनी।नांचतगायजैनौतनदृजवरसोंवरसकुसलयहजांनी।२।नंद
कुमारअंचलमारिमुखजैजैसव्कहतकलगांनी।चत्रभुजप्रभुगिरधर
लालकीसदारहोऐसीरजधांनी।३।१०।सारंग।खेलीवहोखेलीगांगवु
सांहीक्षुमरिधोरी।वछरापरिठपरैनांफेरतडांडमेलिकैदोरी।१।आपगु
पालक्कमारतहेगोसुतकोंनरिकोंरी।थेंथेंकरतलकुटीकरलीनेंमु
खपरडारिपिछोरी।२।आंनंदमुदितगुपालग्वालसवटेरिकरतइकंगे
री।चत्रभुजप्रभुगिरधरनसदाइहदृजसुखजुगजुगराजकरोरी।३।रा
सारंग।गुरकेगृंजापुंजासुलारीगोधनपूजेंदृजकीनारी।१।घरघरगोमेंथ
तिमांधारीवाजतरुचिरपखावजथारी।२।गोदलीयेंमंगलगुननगावत।

वालकृसकोंपापलगावत।हरदूवरोचनकेटीके।इहिविधिसुरपुरला
गतफीके।४।अरुनपीतरंगगायसिंगारीखेलतगोपदेदेकिलकारी।५।ह
रीयदासप्रभुकोंरविहारीसुखमांनतरितुवररवदिवारी।६।रागसारंग
गोधनपूजिकैंघरआये।जननीजसोदाकरतआरतीमोतिनचौकपुराये
।१।मंगलकलसविराजतद्वारेवंदरवारिवनाए।लालदासगिरधरगिर
पूजेपानएजगतनमनभाए।२।राग सारंग।तारोतारोरीबृजजनलोचनहीं
कोंतारो।सुनिजसुमतित्वसतसश्तअलिकुलदीपकउजियारो।१।धे
नचरांवनजातिइहिजवहोतनवनअतिनारो।घोरवसोंजीवनिभूरिहम
रीहूनिनंमतहतउतटारो।२।सातद्योसगिरराजधस्यौकरसातवरसके
वारो।गोविंदप्रभुचिरजीरांनीत्वसतगोपवंसरखवारो।३।रागमलार।व
दरांनअंवरछायो।आजुदूनंदकोलालछवीलोमोहनतापरइंद्रच
ढिआयो।१।मेरेरीमोहनबुद्धिउपाईनखकरिसैलउगये।रखेसरनस
कलगोपीजनकुंभनदासजसुगायो।२।राग मलार।गिरवरनीकोधस्यो

कन्हैया॥ देखेंवेरहोइरे जिननखतेनुजातनकसीनैया॥१॥ जवहीगाढपरतब्र
जलोगनतवहीकरतसहैया॥ जननीजसोदाकरलेचांपतअतिश्रमहोतक
न्हैया॥२॥ देखतअगटधरेगोवर्द्धनगोपनधरतलवैया॥ पितादेषिव्याकुलगि
रिवरधरतवएकवुध्यउपैया॥३॥ आवऊतातगहोगोवर्द्धनगोपनसहत
गहवैया॥४॥ तहांतहांसवहिनगिरिटेक्योकांन्हहिओतकरईया॥४॥ सरदा
सप्रभुअंतरजांमीनंदहिहरखवढैया॥५॥ रा॥न॥ कहोमेरेवारेलालगोव
र्द्धनकैसेउवायकरलीनों॥ एकहिहाथअकेलेहीगढेमुदेखोवतिदाकनें
कुनलीनों॥१॥ सुंदरकरचांपतत्रूंवतफूंकतउरलावतअंचलडेमजल
नीनों॥ गोविंदप्रभुसप्रतलरिकालरिकाईतेंव्रजजनमनसुखदीनों॥२॥ रा॥न॥
टा॥ अपनेंअपनेंटोलकहतव्रजवासीयांसरदकहूंनिसिजांनिदीपमालि
काजुआई॥ घोरवनमनआंनंदफिरतउनमतअधिकाई॥ टेक॥ एनथापेदी
जिएघरघरमंगलचार॥ सातवरसकोसांवरोखेलेनंददुवारकहतव्रजवा
सियां॥१॥ वैठेनंदउपनंदवोलिहरखझांनवुलाए॥ वारवारहाहाकहेकहो॥

वावायहवात।घरघरभोजनहोतहेसोकौंनदेवकी॥जातिकहतब्रजवासियं
२स्याम तुम्हारीकुसलजांनिएकमंत्रउपैहैंखटरसविंजनसाजिभोगसुर
पतिकोंदैहैंटे०।कह्योनंदचुचकारिकैंजायदामोदरसोय।वरसद्यौसकोद्यौ
सहेसोमहामहोछोहोयकहतब्रजवासियां।३तवहसिवोलेलालमंत्रवोह
सौफिरिकीनो।आदिपुरसनिजजांनियनसुपनोमोहिदीनौंटेक।सवदेव
नकोदेवतागिरिगोवर्द्धनराजताहिभोगकिनिदीजियेसुरपतिकोकहा।
काजकहतब्रजवासियां।४वदिहैगोधनहूंदरूधदधिकोकहालेखोयह
परचोब्रजमांझनैनअपनोंकरिरेखो।टेक।तुमदेखतवलिखायगोमोहिमं
गेफलदेयगोपकुसलजोचाहहोतोगिरगोवर्द्धनसेयकहतब्रजवासियां।
५गोपनकीयोविचारसवेमिलिसकटजुसाजेवऊविधिकरिपकवांनच
लेतहांवाजतवाजेटेक।एकवनहीवनतेंचलेएकनदीसरनीरएकनपेंडो
पावहीसोफूलेफिरतअहीरकहतब्रजवासियां।६।एककंवटव्हैचलेएक
वनहीवनछाएगोवैंगुनगोविंदप्रेमउमगेनसमाएटेक।सव

सांवरो देखिवेसवनिमुंभारी कौतिकनलेदेवतासोआएहे लोकविसारीक
हतव्रजवासियां ७ व्रजचौरासीकोसपरेगोपनकेफेरा लांवेचौवनकोसतहां
व्रजवासवसेरा टेक गोपनकोसागरभयोगिरभयेमंगलचाररतनलैसवगो
पिकातहांकोन्हविलोवनहार कहतव्रजवासियां ८ तवहरिवोलेविप्रज
ग्यआरंभनकीनों सुरपतिपूजामेटीराजराजगोवर्द्धनदीनों टेक देवदिख
रीसांमहीसवमिलिपूजनजांहि नंदजतीतजोचाहतहोत्तौतुमदेषतवलि
जाउ कहतव्रजवासियां ९ प्रथमहृक्षन्हवाय वजरिगंगाजलदास्यौ वडे
देवताजांनियांन्हकोमततोस्यो टेक जेसेहेगिरिराजतैसेअनकेकोटम
गनभयेपूजाकरैसवनरनारीवडभाग कहतव्रजवासियां १० वजवि
धिविंजनसाजिकहांलोनांवषांनौं भयोजातकोकोटऔरगिरराजछिपांनें
टेक वराविराजेमातपरचंदहिपटंतरसोय जगपुरुषभोजनकरैतहांसव
देवनसुषहोय कहतव्रजवासियां ११ सहसभुजाकरधारिकरैभोजनअधि
काई नखसिखलोंअनुहारिमानौंदूसरोकन्हाई टेक ललिताराधासोंक

हैतेरेऊदयसमाय।गहेअंगुरीयानंदकीढोटा।भ्रजापाय।कहतव्रजवासियं
१२।पीतउमालोवन्योंकंठमोतिनकीमाला।सुंदरसुभगश्रीरझलमलेनै
नविसाला।टेक।स्यांमकोंसोभागिरिनजोगिरिकोंसोभा।स्यांम।जैसेंपर
वतअंन्नकेदिगनैयावलिरांमकहतव्रजवासियां।१३।जैसीकंचनपुरी
दिव्यरतननसोंछाई।वलिदीनीहीप्रातछांहचलिभ्रूरवआई।वूंदरोलाव्र
रवनांनकोरहीविलोवनहार।तिनिकीवलिइनदेवताहोलीनीजापसारि
सवसामग्रीअर्पिगोपगोपिनकरजोरे।अगिनितकीनेंस्वादकहावरनों
मतिथोरे।टेक।इहिविधिभ्रजाकीजियेकह्यौसवनसमुझाय।सूरस्यांमममो
सोंयोंकह्यौमेरीलीलासुखवनायकहतव्रजवासियां।१४।रागसोरठ।दे
खोमाईवादरकीवरियाई।कमलनैंनगिरभारधस्यौकरइनअुअधिकअ
रलाई।रजाकैगांववाजवलवसियेतासोंकहावडाई।वाकुरसोंसेवकस
रिनरिकैइनवातनपतिजाई।२।सूरदासप्रभुकोंनइसरेजिदिवनकुव
रकन्हाई।अववाजूजोरकरतहैपाछेंफिरिपछिताई।३।रागसोरठ।वारी

मेरे कांन्ह प्यारे अवही दिननु बारे ॥ कैसैं अति जास्यौ गिर राख्यौ धरि क
र परि को मत्सु जातु म्हारी या तें हों वें नय नीत स्मारी ॥ देखि देखि करत हे
रू दो धर धर ॥ स्यो मम महावल कीनों गिरि छिन क मैं उगायली नौं ॥ आयो
गाय ग्वाल सब सतरन मे घके डर नी को करो हे ॥ उपाव मिलि करि हें सह
य ले हे ॥ वो लि व ल्ति राम संग जैया हलधर ॥ र नैं क रूवी चन पास्यो आगें
जोम अंधियारे ॥ बरखत हे घन सात दिन एक ज्ञर ॥ चत्र भुज प्रभु गिरधारी
रा रिवलीयो ॥ इंद्र पिस्पाय आय पस्यो चरनन तर ॥ रा ॥ मा ॥ द गौड ॥ जेजे
लाल गोवर्द्धन धारी ॥ इंद्र मां न भंग कीनों ॥ वांम वाऊ राख्यो गि रिनायक नन्द
न कों सुख दीनों ॥ र सात दिवस सुरपति पचिहास्यो गो सुत श्री गनन्दी नों ॥
कृष्णदास प्रभु गिरधर पियके पाय पस्यो मद हीनौं ॥ रा ॥ रा ॥ श्री ॥ जयति ज
यति श्री हरिदास सर्व धरणे ॥ वारि हष्टि निवारि घोर अरति टारि देवपति
अभिमांन भंग करणे ॥ जयति पट पीत चारु दामिनी रुचिर वर मंडल अं
गस्याम जलद वरणे कर अधर वेणु धरे गांन कर खरे सहज हंजनु वती ॥ १५

चितहरणे।२।जयतिवृंदाविपिननो मिले लनी अखिलगोपवंदनअमलतू
स्मरणे।तरणितनयाविहारनंदगोपकुमारतयकुंभनदासतवसिचरणे।३।रा
गकेदारो।नंदलालगोवर्द्धनधास्यो।वृजपतिप्रलयकरनकोंसुरपतिपठये।
केपिशलयमेघघास्यों।सातद्यौसमूसलधारावरसतएकोछिनुनवच
पास्यो।गोपगायंबालकआयवलराषिगर्वटास्यो।२।छांड्यौसबअभिमान
अमरपतिअपनोविगास्तजियमेंविचास्यो।कुंभनदासप्रभुसैलधरनके।
आयपस्यौपायनिहास्यो।३।रागआडाणो।सुरराजआयपायनपस्योरी।।गि
रिधरनिआपनोंकस्योरी।तजिगजवृजरजलोटतआयोवदनदेखतमग
नभयो।सुरभीउपहारलयोकनकदंडज्यौंधरनीगिस्योरी।१।तवगोपालअ
एकृपालपीतांवरपहरायो।कांन्हअपनैकरसिरधस्योरी।हरिनरायणस्यां

रागमारू।करषाजा
यांछतनांकीयोलोकतिऊंमांहप्रभुईवडाई।१।इंद्रमं

लीयो इंद्रवलमेटि गिरिकोंवलिरववाई॥सदाईयहदरनीगिरधरनगो
वकीनीरमेंधारधरिहैंकन्हाई॥२॥लीजियेसरन व्रजनाथव्रजमव्रनको
होंजिनिइहिंवारकहाविलमुलाई॥आईयेवजरिउजलाडिलेमारिये
करउनकूसहाई॥३॥मारियोकंसजैसैंजवनसंघारियोसदाइहिंचलम
वलीजुआई॥कृस्नदासविनतीकरीसुनऊगिरधरहरिसदाईरहियेन
होतसदाई॥४॥

श्रीगोपीजनवल्लभायनमः॥ अथभाईदूजिकेपद॥ राग बिलावल॥ आजि
दूजिभैयाकीकहियतभरिभरिकंचनथालके॥ करऊतिलकतुमबहन
सुभद्रावलऔरुश्रीगोपालके॥१॥ आरतीकरतदेतनौछावरिवारतिमु
क्तामालके॥ आसकरनप्रभुमोहननागरखेमपुंजब्रजबालके॥२॥२॥ राग बिला
वल॥ कातिगसुदिद्वितीयाकेदिनहरिहलधरसहितसुभद्राघरआएतिल
कवराईवैठेदोऊजेंवनविविधभांतिकेभोगलगाए॥१॥ बीरादेकरकरत
आरतीतवजुवतीजनमंगलगाए॥ ब्रजपतिप्रभुपरिकरिनौछावरिदेतस
वनिकोंअतिहरखाए॥२॥

प्रथमगोचारनकेपद॥राग विलास॥खेलतवनहिंचलेहूजराई॥खेलन॥
नमहि॥करतलवेंनिलकुटियाकोधेकटिमेखलावनाई॥१॥वारवारप्रति
खाबुलाएवछराठिलओनाई॥जोरनएअवतुमकहासोरतजागऊनें
उहाई॥२॥अपनीअपनीछाकलेऊतुमवऊतजांतिघृतसांनीपरमांनें
स्वांमीकीलीलायाविधिकिनिऊंनजांनी॥३॥राग॥देवगंधार॥हुमवदिकों
हटेरतलगैयां॥हरिगैधापूमातसवनतेंआगेंजेटखवांनदई॥१॥घेरीनघि
ततुमहीविनमाधोमिलतनसंगनई॥विडरतफिरतसकलवनमहिंपें
कएकनई॥२॥छांडऊखेलद्वेहरिजातहैंवोल्योजोसिखईसूरदासप्रभु
मिसमुझिकैंमुरलीसुनतनई॥३॥राग॥सारंग॥टेरतऊंचीटेरगुपाल॥हु
जातगैयांगैयाहोसवमिलिघेरऊग्वाल॥लेलेनांमधूमरीधौरीमुरलीम
ुररसाल॥चटिकदंवचढघांहेरतअंबुजनैंनविसाल॥२॥सुनतसवदसु
नीसमुहांनीउलटीपिछोडीवाल॥चत्रभुजप्रभुपीतांवरफेस्योगोवर्द्ध
धरलाल॥३॥राग॥सारंग॥प्रथमगोचारणचलेगुपाल॥जननीजसोधा

करतआरतीमोतिनभरीथाल।१।मंगलआवृहोतहीऔसरगावतमिलि
व्रजबाल।विविधभांतिपटभूखनपहेरेंरोरीतिलकुदीयोभाल।२।सबसं
माजलेचलेवृंदावनआगेंलीनेंगाय।राईलौंनउतारतजननीगोविंदवलि
वलिवलिजाय।३।राग सारंग।प्रथमगोचारनकोदिनआज।प्रातकालउ
ठिजसोदामैयाकीनोंहेसवसाज।१।विविधभांतिवाजनवाजतहेरसौघोख
सवगाजि।गावतगीतमनोहरवांनीतजिगुरजनकीलाज।२।लरिकासक
लसंगसंकरखनचैंनिवजायरसाल।आगेंधेनुदेचलेमोहनप्रभुनमनल गो
योगोपाल।३।राग सारंग।गायचरावनुकोविसनुराधामुखलायाराखो
नैंननिकोटसनु।१।कवहूघरकवहूवनखेलनकोजमुना।परमांनंदस्वा
मीकोंनावेतेरोमुखहसनु।२।राग सारंग।मैयाहोंनचरैहौंगायसवेग्वा
लघिरावतमोपैंमेरेदूखतपाय।१।जोवरूंघेरनजातनांहीकहतनिवेरि
वराय मोहिनपसायतोवूझिवलिदाऊअपनीसोंहदिवाय।२।होंजांन
तमेरेकवरकन्हैयालीयेंउदेतगाय।परमांनंददासकोजीवनिग्वालनप

रिअधिकरिसाय।३।रा।सा।रं।ग।मैयामैंकैसींगायचराई।हूकिदेखिवलिजइ
ददासूंकैसीमैंटेरिवुलाई।१।विडरिचलीसघनवनमांहिंयांहेरीदेवहरांनी
ग्वालनकेलरिकापचिहारेद्वैसवमेरीदोई।२।जनलोजनलोकरिमहरहस
तहेफूलीअंगनमाई।परमानंदप्रभुवीरवचनसुनिजसुमतिदेतवधाई
३।रा।सा।रं।ग।गोविंदचलतदेखियतनीकेमध्यगुपालमंडलीमोहनकों
धनधरिलीनेछीके।१।वछरावेंदघेरिआगैंदेजनजनअंगवजाएमांनअ
कमलसरोवरतजिकैंमधुपउनीदेआए।२।वृंदावनप्रवेसअघमर्दनवा
लकेलीलागावे।प्रेमसमुद्रलोकत्रैपांवनजनपरमानंदगावे।३।रा।सा।रंग
गोविंदचलेचरांवनगैयां।दीनोंहेकरखिआ।जिनलोकस्योहेजसोदामैया।
१।उवटिन्हवायवसनभूखनसजि।विप्रनदेतवधैया।करिसिंगाररतिल।
कआरतीवारतिफिरफिरलेतवलैया।२।चत्रभुजदासछाकछींकेसजिस
खानसहितलीनेंचलिभैया।गिरधरगवनदेखिअंकजरिमुखचूंम्योनं
दरैया।३।६।गोचारणकेपदसंपूरणं। २

श्रीगोपीजनवल्लभायनमः॥अथप्रबोधनीकेपदलिष्यते॥राग विलावल॥
आजप्रबोधनीसुनदिननीको॥अमलपक्षएकादसीआय॥वेजितउरकुं
जरचेमरवीचऊंओरदीपकसुहाय॥१॥घरघरगोपीबोकश्रतसबवंघस
वाराद्वारवंधाय॥सिंघासनगादीतकियाधारेकरेउथापनगोकुलराय॥२॥
हरेभरेसबतेरमेवाधरिसांमग्रीसबभोगलगाय॥च्यारिजांमजागरनजा
गिनिसिजागेदेवगोवर्द्धनराय॥३॥मंगलआरतीकरिउजमंगलप्रेमम्रु
गनआनंदनसमाय॥रसिकप्रभुमंगलनिधिमंगलरूपराधासुखदांम
॥४॥राग सारंग॥आजप्रबोधनीपरममोदकरिचलिप्यारीपियपैंलेजाऊं
वऊतईषरसकुंजपुंजरचिचऊंओरदीपकसुहाऊं॥१॥चित्रविचित्रअ
भिअतिचीतीकरिउथापनहरिहेजगाऊं॥तालकांझिसंषमृदंगधुनिव
जेधरैवंधनवारवंधाऊं॥२॥च्यारउजांमजागरनजागिनिसिच्यारयोंभोग
अधरअमृतपाऊं॥रसिकप्रभुकेरहस्यसिंधुमैंनैनमीनकरिन्हवाऊं
॥३॥राग कांन्हरो॥जागेजगजीवनजगनायककीयोप्रबोधदेवगनजय

हीउवैजगतसुखदायक १ जाप्रभुअच्युताकुंनारीसिरझुंसादिकपायक
कमलादासीपायपलोटैनिपुननिगमसेगायक २ जहांजहांभीरपरैंभ
क्तनकोंतहांतहांहोतसहायक परमानंदप्रभुभक्तवछलहरिजिनकेम
नवचकायक ३ अथ रतन देव जू के पद राग सारंग बलदाऊकीवर
सगांठिआजिफूलतलालऔरबृजराय वैठीगोदलीयैंदोऊढोटनजसु
मतिऔररोहणीमाय १ वंदनवारचौकमोतिनकेनंदनेंवाजेकुलसबजा
ए पहलैंन्हएसुलछेणवलतपेअपनीपीठपरलाललपाए २ आगैह्वैअ
नंदवैठिकरिभांतिभांतिकेवेदपढाए एसीदेऊअसीसईनहीएदोऊसु
तहमउएपनपाए सोनेंरूपेवजतवसनलेविप्रनकोंगोदानदिवाए लेले
नामबुवादोटनकोंगायगायकेंसबनमल्हाए ४ तिलककरतलसनए
सबफूरीऔरआरतीविविधिसंवारी इनकोंसोहिलोइनकेवीरकोंइनें
सुखमांनतब्रजनारी ५ पहलैंहीपहराएजांनसबफिरिकरिवालगोप
पहिराए अरुपहिराईसबब्रजसुंदरिजैसेचीरजाहिमिनभाए ६ आदर ३

लेरांनीकहती सबनसोंऐसेईमेरेविन दिनआए श्रीवीठलगिरधरनलाल
एप्टरीवाहकेसदासुहाए॥३॥ अथवसंत राग राग कल्हरिजस
गावतीचलीसुंदरी॥श्रीजमुनांकेतीर॥लोचनलोंनेंवोदजोटीकरिश्रवन॥
निफलकतवीर॥१॥वेणीसुथिरचारुकांधेपरकटितटअंवरलाल॥हाथ॥
नफूलनीयेंडलियांजरिऔरमनिमुक्ता॥ माल॥२॥जलप्रवेसकरिमंज
नकीनोंप्रथमहेमंतकेमास॥एहवरहोऊमेरेव्रतगन्यो ईहआस॥३॥तव
हीचीरहरेहरिनागरचढेकदमकीडार॥परमांनंदप्रभुवरदेवेकोउद्यम
कीयोमुरारि॥४॥रा॥राग कजी॥हेमोहनहोंहारीतुमजीते॥नागरनटप
टदेजहमारेकांपतहेतनसीते॥१॥रसिकगोपाललालअवलिनपरएती
कहाअनीते॥परमांनंदप्रभुहमसवजांनततुमगालवजावतरीते॥२॥
इतिवेहरएकेपदसंपूरणं॥अथमनसिक्षालिष्यते॥अरेमनश्रीहरिवंश
नजिजोचाहतविश्रांम जिहिरससवव्रजसुंदरीनिछाडिदीयोसुखधांम॥१॥
निगमनीरमिलिएकवयो नजन्हधसमसेत हरिवंसहंसन्यारोकीयोप्रगट
जगतकेहेत॥२॥एकसोचमनमेंरहे अरुआवतजियलाज॥

रिकीयोनए कै काज ३ रेमन चंचलता तजि विषै दौरै हि जन रस मांहि श्रीराधा
रि वदन्न नाम बिन तेरो कोऊ नांहि ४ मन गजत जिकै विषै मन चलहि जनको
और छाडि कुमति अव सुमति गहि भजि लै नवल किसोर ५ अवलग मनकी
नों सोई जो ईकस्यो तैं मोहि अव तू मेरा कस्यो करि जुगल चरन छवि जो हि ६ हा
हा मन तू छाडि कै जो अटकै इक ठौर वृंदावन घन कुंज मैं जहां रसिक सिरमौर
७ रेमन अलि तू छुवहि जिनि विषै सुमन सुठि मंद जुगल चरन अरविंद को
करहि पांन मकरंद ८ मन पंछी अव तरहि जिन जगत मोह के जाल तव तो कूं
द्वै है कठिन वदि है उरख विसाल ९ विषै चुगो जिन चुगहि मन चुगत परै उप
फंद फिरि पीछे पछिताइगो क्यौं न भजै ह्रजिचंद १० रेमन कवहू जाय जिनि
कूलि विषै वनरंग मनमथ उग मारत जहां लीयें वऊत ठग संग ११ जव लग मन
छाडत नहीं सव वातन को लोभ तव लग हिय उपजै न ही जुगल प्रेम की गोभ
१२ सव पापन को छत्रु है लोभ तैं मन हि घटाय निस ऐही संतोष गहि रहै जन
चितु लाय १३ मन तौ चंचल सवनि तैं कीजे कौं न उपाय साधन कै हरि जन
न है कै सत संग सहाय १४ कांम कांमना वासना मन तैं सव करि दूरि श्रीरा
धा वदन्न लाल ज जिरसिकन जीवनि मूरि १५ रस वल छुटै न जो विषै सुष
न हि पावै कोय तन छाडै मन गहि रहै ऐनों जहां उरख होय १६ रसवल छूटै

जो विषै तवहिलहै सुषमूल जैसें आतपको तप्यो पावै सरिता कूल १७ विवेक रत
वय वीति गई विपति भयो तक नांहि नैंन अछित है दीपक रिपारत कूप तम मांहि
१८ जद्यपि तन जीरण भयो छुटी न मन की रीति विषरि पस्यो सिमटै नही इंद्रिनि
नौं जीति १९ परनिंदा कै करत ही आवत नहि कछु हाथि मूरिष परदुत पाप को
लै चल्यो अपनें हाथ २० नरून निंदा अति बुरी भूलि करो जिनि कोय की ए सु
तन५ कृत सब निके छिन मैं डारै पोय २१ मत्सर को धनस्यौ रहै और सु हिय अनिमा
न विन पावक जरिवो करै महामूढ अग्यांन २२ अवसु निजन की रीति कछु
होय महा दृढ धीर को कथा हन पाइहै जहां नीर गंभीर २३ जाको जैसो गुन कस्यौ
ना रहै मन मैं धरि विस्वास कर्म धर्म अर लोक कुल तारी सब की आस २४ जक्त
आहि व जांति के तिन मैं व जत कभेद विनि विवेक मिलिवो तहां मन पावै
अति खेद २५ सब कों मिलिवो एकसो यह ग्यांनी की रीति भजनी सोई जांनिये
करै समुझि करि प्रीति २६ खांनपांन तहां कीजिये रसिक मंडली मांहि जिनि
कै और उपासना तहां उचित कछु नांहि २७ रसिक रंगे जे जुगल रस तिनि की जू
ठनि षाय जहां तहां के पावनें भजन तेज उडि जाय २८ इष्ट मिलै अरु मन मिलै
मिलै भजन रस रीति मिलिये जहां निसंक ह्वै कीजे तिन सों प्रीति २९ गल
प्रेमरस मगन जे तेई अपनें जांनि सब विधि अंतरपो तिकैंति


नि त्र ग यह रस परस्यौ नांहि जिन ॥ तू जिनि परसै ताहि ॥ तासौं नां तौ नांहि कछु
यह रस रूचै न ताहि ॥ ३१ ॥ संग सो ही जा कै मिलै ॥ तू लै यह व्यौहार ॥ तिहि छिन ऋा
वै हीय मैं ॥ अद्भुत जुगल विहार ॥ ३२ ॥ जिन कै देषै पुलकत न रोमो चित्त द्रवै जाय ॥
सुनत वचन तिन के मधुर ॥ नैंन नरैं जल आय ॥ ३३ ॥ जिन को सहज सुभाव पस्यौ
जुगल रंग की वात ॥ निसि दिन वीतै भजन मैं ॥ औरन कछू सुहात ॥ ३४ ॥ ऐसे न
रून के मिलैं ॥ हीयो नैंन सिरात ॥ मन दैं नीकैं समझिकैं ॥ सुनिए तिन की वात
३५ ॥ जिन कै जुगल विहार की ॥ वात चलै दिन रैंनि ॥ तिन ही को संग कीजिये ॥
छाडि और सब गैंन ॥ ३६ ॥ वजत मिलै सो संग नहीं ॥ न्यारी न्यारी भांति ॥ जुगल
प्रेम मैं रस पगे जे ॥ ते ही अपनी पांति ॥ ३७ ॥ वजत नां ति के मत जहां ॥ तिन नु हिस
मझ्यौ संग ॥ नव किसोर रस माधुरी ॥ विनां न अपनौं रंग ॥ ३८ ॥ देष्यौ प्रेम विला
स वृंदावन घन कुंज मैं ॥ जिन कै रहै उपास ॥ तिन को संग जु कीजिये ॥ ३९ ॥ न
व किसोर सुकवार ॥ तन रंगे प्रेम के रंग ॥ जिन के हिय मैं वसत ए ॥ तिन सौं क
रिझ्व संग ॥ ४० ॥ कठिन है रसिक उपासना ॥ रहत न मन इक ठौर ॥ राई कैसे ५

भचलनतहीहोतऔरकीऔर।४१।भजननहोतसतसंग।बिनभजबदिनदै-
हिप्रेम।तिनसुंभजननछाडियेधरियेध्रुवयहनेम।४२।महामधुररसप्रेमको
जिनकेलाग्योरंग।ऐसेरसिकअनन्यजेकीजेतिनकोसंग।४३।औरनसोंसुदि
नकैनहीजुगलविहारउपास।सुनिध्रुवमननक्रमवचनकैरहैतिनको
दास।४४।धर्मऐसेचाहिएजौंसूरारनमांहि।षंडषंडहोइजाततनफिरिकै
चितवैनांहि।४५।कबहूतोथोरोभजनकबहूहोतविसाल।मनकोधीरज
छुटैनहीजुगलविहारउपास।४६।कहीआचारअपरसकहाकहासंज गहैन
मव्रतनेमकहाभजनविधिसोंवंध्यौजौनहिपरस्योप्रेम।४७।भजनकरे चाल=
निमत्तिलैपरीसहजरसदारजैसेरोकीरुकतनहिप्रवलनदीकीधार।४८।
नरूपऐसोचाहियेमनधीरजछुटिजायसुषपायेंफूलेअधिकदुखपा
येंबिलखाय।४९।रहैधीररसभजनमेंयातेनहिकछुऔर
जोरवज्रगिरतहिअडैगैर।५०।सूरसोंईरनभूमिकों
भजनीऐसोचाहियेजरनहिआनेआनपरमहाम
परसतनहीकछुआर।जैसेरसिकअनन्यजेतेई

हानहोयसतसंगतैंदेषोतिलकेंअरुतेलमोलतोलसवफिरियोपायोना
मफुलेलपर ५३ औरधर्मसाधनजजनफीकेविनअनुरागजैसैंवागोवनतमहि
जोनहोयसिरपाग ५४ प्रेमविनांजोकछुकरैसोसवहीलागैफीकविविधि नी
भांतिविंजनकरैलौंनविनांसवफीक ५५ नवलकिसोरीकुवरिकीसहचरी
ऐसीवांनितांकोसंगनछांडहीनेंकसरनगहिआंनि ५६ प्रीतमरूचैपनय
हैरीतिकेवसिहैंजोंहि कोटिधर्मजोकरैकोऊतिनतनचितवतनांहि ५७ ए
कप्रांणमनदोयतनआंषिनकीसीरीति जिहिपैंन्यारीरहतहैदेषतएकहीरी
तिपनवांहांजोरीफिरतदोउरसिकलाउलीलालन देषेऐसीभांतिछविचितव
तनैंनविसाल ५८ औगुनकरैसमुद्रसमगिनतनअपनौंजांनि राईकेसमग
जनकरैमांनतमेरसमांन ५९ ऐसेप्रभुत्रैलोकमेंजिनतनमनजेचितलाय १
मुपंक्तितांकोसवैमांनतअपनोंराइ ६० तियसुतनांतीनांतनीतिनहीतनचि
तदीन श्रीराधावल्लभलालजीनैंकानआंनैंहीय ६१ पत्योविषैकेस्वादमैं
ऐसोरस्योनुजाय यहरसमैंवसवीतिगैनरयोकालनैंआय ६२ अद्भुतजुग
लविहारकोतिनकोरहैविचार सुनिश्चवतिनकोवरनसुलैलेसिरपरिधारि ६३
मनसितांकेदोहे दोहासागिरचारिजुगलचरनअरविंदपदपलपलप्रतिहिसंभा

साई

॥श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः॥ अथ श्रीगुसांईजी के सेवकेपद लिख्यते
॥श्रीगोपीजनवल्लभायनमः॥अथश्रीगुसांईजीदेतसेवकेपदलिख्यते॥ पतितपावनजनअघ
रागभैरौं॥सदाश्रीवीठलनाथजीकेचरणसरणं॥पतितपावनजनअघ
हरणं॥श्रीवल्लभनंदनजगतदयानिधिभक्तवछलकरुणाकरणं॥अ
गनितगुनगायजसजाकोदीनदुखितपोखतभरणं॥२॥प्रगटरविनाते
तिमरनासनसोभासिंधुकहांलौंवरनौं॥मुकुंददासप्रभुनिसदिनविहरत
सिकलालगिरवरधरणं॥३॥रागभैरौं॥जयजयश्रीवल्लभनंदनश्रीवि
ठ्ठलनाथसकलजगवंदा॥१॥सुमरतनाममोचतभवफंदविस्वकीजीवनि
गोकुलचंदा॥२॥मुनिजनसुगावैंस्रुतिछंदप्रेमभक्तिरसआनंदकंदा॥३॥क
सिंधुवचनमकरंदा॥अतिउदारसुखसुसकनिमंदा॥४॥कलिसागर
नौपदअरिविंदप्रभुगिरवरधरदासमुकुंदा॥५॥रागभैरौं॥जैजैजैश्रीवल्लभ
नंदनसुरनरमुनिजाकीपदरजवंदना॥१॥मायावादकीयोजुनिकंदन
मलीयैकाटतभवफंदन॥२॥प्रगटपुरुषोत्तमवस्वजगवंदनक्लमद
॥रागभैरौं॥



॥श्रीवल्लभनंदन सुजस संतति निगम गाऊं॥ मन क्रम वचन छांडि एक न बिस
राऊं मन क्रम वचन छांडि एक न बिसराऊं॥१॥ पुरुषोत्तम अवतार सकल
कल कलित जगत वंदन श्री विठलेश उर लाऊं॥ परम पद कमल निरखि
सौंदर्य निधि प्रेम पुलकित कलह कोटि नमाऊं॥२॥ श्री गिरिधरन देवपति
मान मर्दन कुंवर घोष ब्रज सुखदनीला सुनाऊं॥ श्री गोविंद ग्वाल सं
ग गाय निवृत बन रसिक रवना निरखि नैन सिराऊं॥३॥ श्री बालकृष्ण
सदा सहज बालक स्मा कमल लोचन सों हार खित रुचिवदाऊं म स्त
मारग सुदृढ करन गुसांई जन मंगल श्री गोकुलनाथ हिं लडाऊं॥४॥
श्री रघुनाथ धर्म धुरि धार सो नाम सिंधु रूप लछीन उर वद रिवदाऊं॥ प
तित उधारन महाराज श्री जदुनाथ विप्र दत्त ब्रजदास सिर सिपरसाऊं
त्रिकर टांऊं॥ ब्रजभुजदास पसो घाटे पर एप्रत्स करें सकल कुलेवरा
णं मत्त मोर उधि पाऊं॥६॥ राग भैरूं तिताल

श्रीविठ्ठलनाथसकलजगवंदन॥३॥निगमपुकारेंनलहेंपार॥सोठाकुर
आकाजीकेघर॥४॥लीलाललितगोवर्धननाथ॥५॥राग भैरुं॥चर्चरी॥
श्रीविठ्ठलनाजूथेकेचरनसरन॥श्रीवल्लभनंदनंकलिकलुकलिखंड
नेपरमपुरसंत्रैतापहरनं॥१॥सकलदुखदाफणंभवसिंधुतारणंभवसिं
धुतारणंभवसिंधुतारणं॥जनहेतलीलादेहधरनंकन्हडदासप्रभुसव
सुखवीसांगरंकृतलेउद्धरनंप्रगटकरनं॥२॥राग भैरुं॥ताल चर्चरी॥प्रातस
मेंश्रीमुखदेखनकूंसेवकजनठाढेहेंघारजैजैजैश्रीवल्लभनंदनदर
सनदीजेपरमउदार॥१॥सुंदरस्यांमसुभगतासोंवामेघगंभीरगिराम
धुधार॥नेंननिरखिहोतपरमसुखश्रवनसुनावतवचनसुधार॥२॥नयन
मंगलतनश्रवनमंगलजसपुरुषोत्तमलीलाअवतार॥भगवांनदासजा
यवलिहारीअगनितमहमावरननअपार॥३॥राग भैरुं॥चर्चरी॥विमद
जसश्रीवल्लभसुतकोगानउठतअनदिनगुनगांऊं॥कलिमलहरन
चरणचितधरिउरहूंतपाजिपरमसुखविसरांऊं॥१॥सकलवरतम्रसमत

कोरसजानेंमानेंमन जिनसों तिनसूं रूंबोकें।छीतस्वामीश्रीविठलगि
धारीकोसुमरनअष्टसदासिधिनवनिधियांकें॥२॥रागभैरूं॥चर्चरी॥
सुमेंश्रीवल्लभसुतकोमतहीरसनांलाल जेनांम।आनंदकारीमंग
कारीअसुरहरनजनपुरनकाम॥१॥यहलोकपरलोकके बं
दिनसकेतुम्हारेगुनग्राम।नंददासप्रभुरसिकसिरोमनिराजकरोगो
कुलसुषधांम॥२॥रागभैरूं॥चर्चरी॥न्यारीन्यारीकृपान्यारीन्यारी
॥एककीएकनजातिसेवक।न्यारेन्यारेरसफिरतसबजन्मदसुग
टप्रतापश्रीविठलदेवक॥१॥कृपादृष्टिसोंअनेकप्रकारनिरखनवंद
सुधावरखेवरखे।जनंकन्हैडश्रीवल्लभनंदनगोकुलकोजीवनिठ
छेवका॥२॥रागभैरूं॥विलास॥मेरेंवलश्रीगोवर्धनधारीकों-
नदीखेलरहूं।सबविधिसरवतीहोंसबविधिजवनवरंगसरखदेरहूं।थ
वहत्वनजसुगांकुंभकलआपदानलेरहूं।कृष्णदासप्रभुराधावरसि
भूतलजनमबिसेरहूं॥२५॥रागविलास॥ ॥श्रीहरिकृष्ण

नअगटे॥ श्री विठलनाथ पद मारे॥ द्वापुर वसुधा नारहस्यो दरिकल जु। गजीव नधारे॥ ५ ॥ तब वसुदेव गृह अगट होय कें कंस आदिक रिपु मारे॥ अब श्री वल्लभ गृह अगट होय कें मायावाद निवारे॥ ६ ॥ ऐसो कवि को है जग महीं पावर नें गुन जु तुम्हारे॥ मानिकचंद प्रभु कों सिव खोजत गावत वेद पुकारे॥ ३ ॥ राग भैरव चर्ची॥ जे श्री वल्लभ राजकुमार। पर पाखंड कप ट खंडन करि सकल वेद धुनि धार॥ १ ॥ परम पुनीत तपोनिधि पावन तनमोजा जित मार॥ निज मुख कथित कृष्ण लीलामृत सकजीव निस्तार॥ २ ॥ निज मत सुद्द्रट सुकृत कृत हरिपद नव विधि भजन प्रकार॥ ३ ॥ दुरित दु रिक्षुवेत पेत गति हित पतित धार॥ ३ ॥ नहीं मति नाथ कहां लों वरन् गीन तगुन विस्तार॥ छीतस्वामी गिरिधरन श्री विठल प्रगट कृष्ण अवतार॥ ४ ॥ राग भैरव चर्ची॥ श्री गोकुल जुग जुगराज करो॥ यह सुख नजन नप्रताप तें कव हूं छिनु ट्तनु तन टरो॥ १ ॥ पांवन रूप दिखाय ज्ञानपति पतित नु पाप हरो॥ विस्व व दित दीनों प्रेत न गति क्यों न जगत

उधरो॥२॥श्रीवल्लभकुलमरदाइंडीवरजयमकरंदभरो॥नंददास
अनुरवठगुनसंपानश्रीविठलेसवरो॥३॥रागभैरूं॥चर्चरी॥जयतिज
यतिश्रीवल्लभसुवन॥उधरनत्रीयजुवनफेरिनंदकेभक्तनकीकेलि
वंनी॥जयगिरिधरधरनसदासेवतचरणदास्यासोंवरणभरतयां
नी॥३॥वेदपथव्याससेहनूसमदामसेज्ञानकुंकपिलसेकर्मजोगी॥
साधतत्त्वगनिपुनमनहूहजराजखगटसुखरासिमनुइंद्रभोगी॥२
सिंधुसमगंभीरमिलनरंगनीरखीतिकोंनलखीरहजउपासी॥ध्यां
नकोमनकसेनक्किकोफनिगसेंयाहेंतिवसकीयेवद्दरासी॥३॥म
नहूंइंद्रीजुजितिकृष्णसोंकरिप्रीतिनिगमकीचलिनातिश्रद्विवि
विकीरहितअभिमानतेंवडेसनमानकेसीलश्रसदांनगोविंदटे
की॥४॥सदानिर्मलबुधिश्रेष्टसिधिनवनिधिदासेवतजहांन
दासी॥रामरायगिरिधरनजांनिआयोसरनदीनकेडरवहरनघोर
वासी॥५॥रागभैरूं॥तालचर्चरीजयतिराधिकारमणजुगवर

श्रीवल्लनाधीसमुतविठलेसे॥दासजनलौकिकोलौकिकेसर्वथा॥
बचिंतोदयतिह्रदयदेसे॥१॥थापयतिमांनसंसततकातलासमं
हजसकुमारूचिररूपवेसे॥नालगतितिलकमुजादिमोलासरस
...कावधसिरवकलकेसे॥२॥सहजहीमादियुतवदनपंकजसरस
वनस्वनापरापतसुदेसे॥रहतमाधवनरवरनरेंनुधनदोषयनदासह
वासकृतनिजवलिसे॥३॥रागभैरौसांवनदी॥परममनोहरश्रीगोकु
गांव॥प्रगटेपुरुषोतमश्रीविठलपतितपावनविरदवदेनांव॥१॥नं
नंदनश्री॥वल्लभनंदन॥स्तुतिनागवतमुखवणआसिराम॥चौदलोक
आधिकअधिकछविनितविहारव्रजवैकुंठधांम॥२॥आनंदकेहि
मलजसगावतदासासदासकलसुखकांम॥मनोहरदासप्रभुश्री
सांईमनक्रमवचनचरनछिश्रांम॥३॥रागभैरौसंवदी॥विसदसुजस
।वल्लनसुतकोगानउगतअनुदिननितगांऊं॥कलिमिखहरनच
गुचितधरिरारवुंउपजेपरमसुखदुरवविसरांऊं॥१॥नकृवरसज

निकोरसजांनोंमांनेंमनजिनसूं तिनहीकुं धांऊं॥छीतस्वामी श्रीविठ्ठल गिरिधरकोसुमरतमहाअष्टसिधिपांऊं॥२॥रागजैरू॥तालचर्चरीकोंन आदिगोकुलजनममता॥द्विजअवतारनरसरूजपतपधांनधुमतम दनमता॥५॥जयकोटितोहोयपरिहरनरूपियवल्लभनश्रीहरिजमता गुरूप्रसादपामवानेंसिवब्रह्माइंद्रपक्षीहोयनमता॥२॥रविससिको टिप्रकासवृंदावनसरदनिसागोपीसंगरमता॥त्रिभुवनमहाहृतजनलो कवंदनीश्रीवल्लभदासवरनदासहोयनमता॥३॥रागजैरू॥ १॥ श्रीवल्लभनंदनदीनवंधुआनंदकंद॥मायावादनिवारनकारनप्रग टनिजद्विजवरश्रीवृंदावनचंद॥५॥आनंदानंदनिकुंजनिवासीरसबि लासीपरमांनंद॥विष्णुदासप्रभुअगिनितमहमांयारनपावतनेतनेत श्रु॥ कृतेछंद॥२॥रागजैरू॥चर्चरी॥श्रीविठ्ठलजूकेचरनकवलमलप रसदारहेमनमेरो॥श्रीमलमुनागसकलसुखदायकभवसागरको वेरो॥१॥रसनांरटतरहूंनिसवासरप्रभुपावनजसतेरो॥सगुनदासस

नोंमांगतदेऽतनृतकोवेरो॥२॥राग बिलावल॥ गोवर्द्धनगिरिपरठा
ढसत॥ वत्संद्रिसधेंनधरनीआवतजेनवमुरलीमुखरसत॥१॥मोरमुक
टवनमालसरगजीकछुककुसमसिरखसन॥नवनुपहारलीयेंवल्ल
भीयसिरवडांवलहरतसं॥२॥छीतस्वांमीवसकीयोवाहतहेंस्यो
स्वासवंगथत॥ जेठमिसहलउतफिरिआवतश्रीविठलजीयवसत
॥राग भैरव॥ व्याद्व६ ॥श्रीविठलनाथमेंननन्नरिदिखें॥ छूरनऩएमनोरथ
सवकवहतीजुजीयऋपेखें॥१॥श्रावहननमुतसरन विनांपाछेंते
हिनगएश्रेतेखें॥दासचतुर्भुजप्रभुसबसुखनिधिश्रवखीयेकृपा
दृसेखें॥२॥ राग भैरव॥ व्या६ ॥भजिपदवल्लभसुवनसुजांन॥गुनप्रताप
कनांहुविनिधिनिधिनहीउपमांकोंआंन॥१॥तिलंपुरअष्टदिसाज
सगोगावतवेदपुरांन॥मायावादखंडनकूंकेसरीयहतोप्रगटप्रमां
न॥२॥श्रीगिरिधरद्विजरूपदिखावतकलिजायविनुवलजांनि॥बि
दृसम्रनुजनदिखावतविश्वस्वांमीमतवांनि॥२॥रागभैरौ॥दृदी

जयतिश्रीवल्लभनंदनमहालक्ष्मीगर्भरत्नविप्रकुलनंनउद्योतकर
ता॥भुवनपावनचरनमकुमारत्रैतापहरननखमनिचंद्रकेति
रहर्ता॥१॥जयतिश्रीगोपीनाथअग्रजविस्वउधाकरसक्त
तीआदिकर्ता।दासगोपालप्रभुस्वरूपजुगराजहीश्रीविठ्ठलना
गिरिराजधर्ता॥२॥राग सारंग॥प्रगटव्रजहीमेंकरतविहारलवके
गोपनेरवकअवकेद्विजवरअवतार।१।तबगोकुलमेंनंदसुवनअब
वल्लभराजकुमार।आपनवरविदिरवावतओरेउउमतिसवासार
२।जुगलरूपगिरिधरनश्रीविठ्ठललीलाएकअनुसार।चत्रभुजप्रभु
सुखमेंलनिवासीकरुनकृपाउदार।३॥राग सारंग॥श्रीवल्लभ
गृहप्रगटभएश्रीविठ्ठलनाथहमारे।श्रीवल्लभकुलदीपकसिरो
मनिकलिकोवतितनधारे।१।नंदनंदनआनंदकंदजीवनधनप्रा
नहमारे।मनक्रमबचनकापिंकहतहोंवोहतअधमकुलतारे।
गवारतिथिनौमीधनिसुनदिनव्रजमें

रमाधोकोप्रभुसरवसुख हमारे॥३॥रा॥ग॥सा॥रंग॥जयतीरुक्मीणी
नाथपद्मावतीप्राणपती विप्रकुलछत्र॥आनंदकारी दीपवल्लभ
वसंजगत हितकरनकूंकोटिउडराजसमतापहारी॥१॥जयतिजक्त
जनन्नक्रुपसिंधुपतितपावनकरनकामजनूंकामनांपूरनसारी॥भ
क्तकाजजननमुक्तदायकप्रभुसर्वसामर्थ्यगुनगननिनारी॥२॥जय
तिअखिलतीर्थफलनामस्मरनमात्रवासव्रज नित्तगोकुलविहा
री॥नंददासनिनाथपतिगिरिधरप्रगटअवतारगिरिराजधारी॥३॥
॥रा॥सा॥रंग॥गोपनसोरतिगोकुलसोरतिगोवर्द्धनसोंप्रीतिनिवारी
गोपालचरनसेवारतिगोपसखासबअमनत्रघाई॥१॥गोवांवेदकुवे
दकीकहीयतश्रीभागवतसबेंअवगाही॥नीतस्वामीगिरिधरन
श्रीविठलगोवर्द्धनकीरखुरेरेनमहरानी॥२॥रा॥सा॥रंग॥॥एसो
प्रीतक हूंनहींदेखी जसुमतिसुतश्रीवल्लभसुतजेसीप्रेमसहस
मुखवज्रातनवलेखी॥१॥चितवतरहतसदागोकुलतनव्रजकिकोंवि

फरोखनिपेखी। कहीयतकथाजलदखानकरसौकुमदनोवंद
३विसेखी।२। इनकोकीयोमवेजीयमावतकरतसिंगारविचित्र
खीगोविंदोवर्द्धनमोगंतविहरह्जिनिपलक्षुर्धनमेखी॥३॥रा
रंग॥ ॥श्रीविठ्ठलमंगलरूपनिधांन।कोटिसूरसमहसि
वोलनिमवहाकोंहोतकल्यांन।१। करुणासिंधुकृपालकृपावि
देतश्रनेपददांन।मरनआएकोलजवहंजुगवाजेपगटनिसांन
उहरेवरनकमलमकरंदहि।मनुमधुकरलपटांवविछुरसघो
सगावतसुवतनहीकछूआंन।२। ॥राग सारंग॥ ॥श्रीवल्लभके
लफिरिआए।वेरूपवेइफिरिकोडाकरआयमनभाए।१।वेफि
वासकरतश्रीगोकुलवेइरितप्रगटाए।वेइसिंगारभोगछिनछिनके
वेइलीलागाए।२।जेजसुमतिकेआनदकीनेंसोफिरिव्रजमेंपाए
श्रीविठ्ठलगिरिधरयदनंदव्रजगोविंदरमेंवाए।३॥
वेदेश्रीविठ्ठलेसवरनानखसिखविठे

मदविक्लवकरनं ।१। ध्वजवज्रांकुसचापवेंजनानाउरवाकुलसज्ञावान
रनं ।युक्केरोससमंगलमाहडिष्ठिआनंमववारिवतरन ।२। जवहोसक
लकोमनोंहरकनिधिनावयर एनगतामरनें तेकुलवंतवचसोमसवे
तसिगोविंदपगुगिरिवरधरन ।३। राम श्री राम ।स्मरेंश्रीवल्लभनंद
ननायक ।यहनोचि [illegible] को यहकनु दूसरोनाहिनेंम नवकका
युक ।१। जाकीकृपातेंकालडरनांही नवसिंधुनयोसुखदायक ।२।
सदासजनचरनकमलकोसदासरननौतनजसुगाई ।१। राम श्री राम
जाकेसिरछत्रगुसांई श्रीवल्लभगुनरहस्य विचारतचित्त वनदत्तनवा
ई ।१। दितसंबोधनस्त्रुतिमडवांई श्रीविसव [illegible] मे कानोंई स्वंसीस
पनोंविरदनिवाहनतरसपोरवतकेतांई ।२। कालस्त्रकालरहितपुरु
सोत्तमकलिफंदाउत्तरतिरैनजांई ।सगुनदासकहे घरकोलोंडानुज
कुलपंकजदाई ।३। राम श्री राम ।जोपेंश्रीविठ्ठलरूपनधरते तोकेसे
याघोरकलिजुगकेमहापतितनिस्तरते ।१। सेवाप्रीतिरीतिहूजजनकी

श्रीमुखतेंबिस्तरतें।श्रीविठलनांमअम्रत
लतें।१।कीरतविसदमुनीजिनश्रवननिंविस्वविस्वैयरहरते।गोविंदब
लिदरसनजिनिपायोसोउमगिउमगिरसभरते।।३।।रागश्रीराग।।
भवनाथअनाथकेतारन।श्रीवल्लभगृहप्रगटस्वरूपयहधर्योभक्तहि
तकारन।।१।।दीनबंधुकृपासिंधुसहजहींजगतभक्तविस्तारन।
चतुर्भुजप्रभुकेनितमनचलतलालगिरिधरन।।२।।रागश्रीराग।।
प्रगटव्हेश्रीविठलनांमकहायोकलिसिंधुन्नवतार
१।धर्महीनदीनदेखिद्विजरूपधरायो।।पाखंडखंडकपटतजिनजन
भेददिखायो।।२।।नरनकरमसरमसकलविकलतेंवछिडायो
तत्रैलोकमजनसजनगोपालेगायो।।३।।रागश्रीराग।। ।।प्रभुताप्रग
श्रीविठलनाथकी।।ज्ञांनध्यानसबधांनवाममतिहहिवि
त्रकाथकी।।१।।भक्तभावप्रगट्योयहमारगकलिजुग
मरनजांतहीकरतकृतारथकरगहिसहस्त्रन।

दासआसपरिहरनछायाअंबुजहाथकी ।कृपांविसेखविराजितनि
सदिनजोरीश्रीगिरिधरसाथकी ॥२॥ रागश्रीराग ॥ प्रकटकरिवे
कूंकेवलश्रीविठलअवतार ।भजनविकुरवअज्ञानमतकैवह्योजात
संसार ॥१॥ करिकृपानिजुनांमवतायोभवनचतुर्दशसार ॥२॥ लोकवेद
मर्यादराषीवरनवरनव्योहार ॥२॥ कारनवापुधरतलीलावपुजगगु
ग प्रतिअधिकार ।अवअनुरूपधर्मश्रीवल्लभनंदनअवलोकनिनित
विहार ॥३॥ रागश्रीराग ॥ नारायणगायोब्रह्मागायोनारदगायोव्यां
सगायो ।सारदगायो ॥ ननकजूथमनिवंदनगायोदेवलोकनृपलोक
रसातललोकसिवसुरवरप्रमोदयसगायो ॥१॥ श्रीवामासेअनुचरगायो श्री
वृंदावनकेमधुपनिगायो ।सेषागायोमहेसगायो ॥ श्रीराधाजूकोमह
चरीगायो ।श्रीवल्लभनंदनसुतापते गिरिधरजसुसूरदासगायो ॥२॥
॥ रागश्रीराग ॥ श्रीवल्लभराजकुमार ।अपकेंकृपाकीजेंवलिजाऊं
मेरेंतोनांहीअनतकोहंसनचरकमलविनुवांके ॥१॥ हौंअसवाअक

तम्रपराधीसनमुखहोतलजांऊं।हमकृपालकरुणामयहोअनुग्र
धमअधारनतांऊं।२।कलूखजटितमनमलीनलौहज्योंस्पेतह्लेंना
विकांऊं।माधोहोंपतिततवपावनपदपारससपरसांऊं।३।।रागश्री
राग।। गुनगांऊंरीवालगोपालकेमोंहनलालकेगुनगांऊं।मधुरी
मधुरीमूरतिदेखतआनंदमदनमदनमोंहननेंननिरखंननि पांऊं।।४।
श्रीवल्लभनंदनजगतवंदनसीतलचंदनतापहरनसोंरमहाप्रभुदृष्ट
करिखरनचितलांऊं श्रीतस्वांमीमनवचकरियरसोंधर्मएइमेरेंश्रीव
ल्लभलाडिलेलडांऊं।५।रा गश्रीराग।। ।परमकृपालश्रीवल्लभनं
दनकरतकृपानिजहाथदेमाथेंजेतनसरनआयअनुसरिहेंगहि
सोंपतिश्रीगोवर्धननाथे।
रावहेनाथे।कहेकृष्णदाससकाजसवसरिहेंजोजानेंश्रीविठलना
१।रागश्रीराग।। चतुरकीचतुराईफवीजुअवे।मनमुषजाश्रीव
ल्लभनंदनविहसिकह्योतआयोरेकवे।परहीनसाधसाधनकोअब


कछुफलपापोवतुराधिसवे।यातेंश्रीरिकह्यावाकूंअनुश्रपनेंमांकरसं
गमोजवे॥२॥ राग श्रीराग॥ ॥गांऊंश्रीवल्लभनंदनकेगुनगांऊं॥
नांऊंसदाश्रनश्रंधश्रीराजनपांऊंप्रेमप्रसादपतत्त्वना॥१॥नांऊंसीसल
डांऊंलालहित्राकसरनयहीजुपरोजन।छीतस्वामीगिरिधरनश्री॥
विठ्ठलकपरवारोंकोटमनोज॥२॥ राग श्रीराग॥ ॥जयतिसुरवल्लभन
राजकुमारमेरेमनवसें॥श्रीजानजुजडेडकरिखंडमायावादडंडीवादी
मुखवश्रसुधश्रसुरकपनिनसे॥१॥सकलविद्यासारश्रुतिभागवततु
चारदिसाविजेधनुधर्योश्रसुरदेखवतन सें॥गोविंदजनश्रादिकलि
गहसतजीवजेसिरूश्रनेकरकमलश्रृउनसुसकानिदसें॥२॥राग श्री
राग॥ ॥श्रीवल्लभलाडिलेहोतुम्हारेचरनकमलसरन॥नामले
तपापहरतब्रह्मादिकस्तुतिकरतसुनीयतहैं [illegible] सपतितपा
वनकरन॥१॥सुरनरमुनिनागदेनकरतहेंदिनरेंनसेवविमलवचन
वदतवेदप्रगटहेंश्रारतिहरनगिरिराजधरनवतिहारीश्रीविठ्ठलगि

रिधारि सकल जग तहे सब सिंधु [illegible]
भूके दरसन देखत होत सकल सुख [illegible]
कारन सकल कला छंदा वनचंद्र [illegible]
रसिसिरोमनि आनंद कंदा [illegible]
स्यांनत निज जन छंदा ॥१॥ राग गौरी ॥ [illegible]
क नेम धर्म व्रत हीन जे कलि के पतित [illegible]
गमन बूडत को कान्ह जन गिरिधारी ॥ [illegible]
सब कलहित कारी ॥ अनुपम [illegible]
दिखाए दनी संतन अब करे लीला [illegible]
ग॥ सुनि निधि श्री गिरिधरन नाति [illegible]
तिनावे। विनिर्न करि सिरधारि विग्र [illegible]
स्वछंद हरिजन निज मुख नवि [illegible]

श्रीराग ॥ प्रकारें वादे यो जमराज डंड फांसी प्रभु धरो नडारें मवनरकूं
कहा काज ॥ १ ॥ श्री विठलवदन मजू के नंदन न विधा नक प्रकास ॥ पावन
पतित कीये कलिजुग के तासों न परें जमकांस ॥ २ ॥ घर घर सजन श्री विठ्ठल
भागवत हरिजस अहर्निस वैभ को फ्रमावे ॥ श्री कृष्ण नाम गुन वेद करन ॥
विधि सो गुरु होय सिखावें ॥ ३ ॥ जहां जहां हत जात ममपेर कतहां तहांते
फिरि आवें ॥ प्रगटी अताप प्रगटित द्विजवर को कितहूं न फांरव न पांवें ॥
सत्स्वरूप प्रगटित वसुधा पर श्री विठलनाम कहाए ॥ नाममहा स्करि
अधम उधारे अघ उःख हरि पलाए ॥ ५ ॥ सुमिलवचन जानि निजजीय में मन
कम वचन सुख कीजे ॥ जे हस्विरनन ते विमुख रह तहें जाहि डंड तुम दी
जे ॥ ६ ॥ जितने यह कुल प्रगट रूप हे सो मोकों कहि जानें ॥ कामराज
निवासी आन भेद जे आनें ॥ ७ ॥ राग मालव गौड ॥ श्री विठ्ठल चरन सरन मे
रें निजजन यो खनकालि के रें रूप नाम गुन परम सुपावन प्रगट मए
धरन ते रे ॥ जन मजन मजा के करत साधन चितवत नांहिनें फेरे ॥ श्रीव

त्वनमुतगोविंददासप्रभुजसगावतवेदविमलतेरे २





श्रीराधावल्लभायनमः।अथवसंतकेपद लिख्यते।राग वसंत।राधेदेखि
नकीवात।रितुवसंतअनंतमुकलितकुसुमअरुफलपात।वैनिधुनिनंद
लालबोलीसुनिअवैकौंअलसात।करतकतवैविलंबभामिनिवृथाअ
सरजात।लालमर्कतमनिछबीलोतुमजुकंचनगात।वनीश्रीहितहरि
वंशजोरीउभैगुनगनमात।१।रागवसंत।श्रीराधेवनविनोदवसंत।अनि
लत्रिविधिसुगंधहाटकषचितसुधालसंत।विविधअंकचप्रसूनपल्लव
नूतकोकिलकीरनिरखिदंपतिमुदितनिर्तितभवनवरहिअधारमत्तअ
लिचलगुंजमधुरवैपुलकिषगमृगवृंदगानजुवतीकदंबकिंकिनिनुपर
नूपुरमंद।मलयसारसुगंधचंदनचरचिजुगवरअंगजैश्रीदासवनमा
लीकपिसपटुकूतपंअरुनमयरंग।२।रागवसंतदेषोवृंदावनकुसुमित
वसंत।नंदितकीरकोकिलसंतजायजुहीमल्लीरसालअमितमुदित
अतिउमंगमाल कलकूलकेकीनवमराल।वनविहरतदोउरसिकल
ला।ललिताविकसवसखीसंगजहांतहांवाटेअगनितअनंगप्रीति

मसुषसहतअंग॥हसतपरसपरजरतरंग॥२॥डारतचंदनवुजरंगअबीर
साषअरगजारंगहैचीर॥षेलमचौअतिनईहैनीरउमगिचल्योआनंद
नीर॥३॥कुंजसदनचलेकरतकेलि॥वज़विधिवाढीरतिरंगवेलि॥जैश्रीह
मोदरहितसुखसिंधुकेलि॥नितविलसोसुखसिंधुभुजकंठमेलि॥४॥
रागवसंत॥आईब्रजकीवसंतमनलईउमंग॥षेलैहृजिकीवालनवलाल
संग॥सुंदरवरमनमोहनसुजांन॥धरैअधरमुरलीकरैमधुरगांन॥मुनि
मुनिमनतैंटर्यौगपांनध्यांन॥सुरगगनमगनछकेरसीलीतांन॥१॥वन
पीतअरुनद्रुमकुसुमपात॥फूलीलतामधुपजुतअतिसुहात॥पिकमो
रकोकिलाकुहूकुहात॥वहैत्रिविधिपवनहृउकहीनजात॥२॥आईनवत
रुनीसजिसजिसिंगार॥वरकुसुमगैंदउरकुसुमहार॥उमावतगुलाल
गावैरंगीलीगारि॥चलिदेषिपरस्परअतिउदार॥३॥चढेंवौरअलीसंग
करतगांन॥मध्यमोहनप्यारीसंगसुजांन॥लषिरूपलालहितहियसि
रांनवारततनमनधनकोटिप्रांन॥४॥रागवसंत॥राजैवृंदावनश्रीनव

निकुंज।तहांमधुपकरतअनुरागगुंज।गौरस्यामछविनवलरासि।रितु
वसंतनयोहियजलासत्वंदनवंदनमथिसुवासछिरकतहसिहसिकं
रिविलास।राजैनवलनवलसषीजूथसंग।करएकनवीनाडफमृदंग
लीयेंएकगुलालसुरंगरंग।जसुरंगितवसनसुदेसअंग।२।नित्ततिर
किसोरजोर।छविनिरषिछकेचकोरमोर।वंसीरवनसुनिश्रवन
घोर।जहांखगकुरंगवांधेप्रेमडोरि।३।कुंमकुंमफलकततनसुदेस
विरहेकुवितरूचिरकेस।हितध्रुवनिरषिअनूपवेसकछुकहन
कतछविछटालेस।४।राग वसंत।राजैवृंदावनमधुरितुविलास
रंगीलोप्रेमसंपतिउलास।रंगीलेअमरतरूफूलपात।रंगीलेविहंग
वोलैरंगीलीजात।रंगीलोपवनरंगरंगपराग।छायोजहांतहांरंगीलोराग।१।
रंगीलेवसनभूषनअनंत।वनेंरंगीलेजूथदोऊकुवरकंत।रंगीलेतानव
जैरंगीलेनाद।रंगीलीनित्तविनातिरंगीलेवाद।२।रंगीलीनारिदेतरंगीलीगारि
रंगीलेचलैरंगरंगधारि।रंगीलोउडैरंगरंगअवीर।रंगीलेचपलचरवनाव

नीर व रंगीलीजरतिउमगनिअनंग विलसैवसंतरंगीलीतरंगरसिव
सिरसरसिएह अनुदिनवाढौयहरंगीलोनेह ४ रा व त देषिसषी
आजुवन्यौरी वृंदाविपुनवसंत आनंदितहजिलोगजोगसुखसदास्यां
राज राधारवनवसंतनचायोपंचमधुनिसुनिकांन धरनिगिरतसुर
रकंन्याविथकितगगनविमांन रंगीलेवसनभूषनअनंतवनेरंगी
धदोऊकुंवरिकंत रंगीलीतांनवाजैरंगीलेगाईरंगीली पुलकतको
लकुंजनउपासिगुंजतमधुकरपुंज वाजतमजवरवैनकांफिडफताल
वजरुंज केसरिजरिजरिलैपिचकारी छिरकतस्यामहिधाई छिरकि
वरिवृकाजरिचोवालईकंठलपटाय मुकलितविविधिविटपकुलव
षतपावतपवनपराग तनमनधननौछावरिकीनौ निरखिव्यासबड
ग ७ रा व त कुंजविहारीप्यारीकैसंगवसंतखेलतवृंदावनमैगौ
मसोभाहरषसागरमोदविनोदसमातनतनमैंनमैंतनमुषकोसारी
मकुमरंगभीजिरहीनदेषियततनमैंउरजउघारेसेअनियारेचूंजि

नागरके लोचन।धाइ धरि श्रीकौन रिनी मिनिहियलसतज्योंदामिनिघनमे
व्यासस्वामिनी की छवि छीटैश्रति विदित मोहन श्रीननमे।७॥राग वसंत॥प्र
थमसमाजश्राजिवृंदावनविहरतलाल विहारी।पंचमी नवलवसंतवं
नउमगिचली हृजनारी।कंचनथारलीयेंजुवतीजनमधिहृरवंगो
फलदलजवनवनुनमंजरीकनककलसमुनकारी।गावतगीतवजाव
तवाजेमैनसैनउनहारी।दरसपरसमनमोदवढावतराजतवरछवि
री।चोवाचंदनश्रगरकुमकुमांनरिलीनीपिकारी।छिरकतफिरतछवी
लीगातनिरंगश्रनूपश्रपारी।विपुलविलासहासरसवरषतउतशीतमइ
तप्यारी।हितहरिवंशनिरषिथकसोनाश्रेपियाटरतनटारी।।८॥राग वसंत
नवलवसंतनवलवृंदावननवललाल षेलेहोरी।नवसतसाजिनएरंगप
हरेनऊतमकेसरिघोरी।नवनवसापिजवादिकुमकुमाश्रवीरभरेभरि
कोरी।नईनईसरवीनईछविपावतनवलनवलवनीजोरी।नईसहनाईन
एउफवाजतनईमुरलीधुंनिथोरी।नवलसरवीमिलिचांचरिगावे

तः राधिकागोरीकालिंदीतटनवतनश्रीमानवलचकोरचकोरी हितहरि
३ सप्रेमरसभीउतनवलकिसोरकिसोरी ॥९॥ रा व त आईआईबसंति
तुअनंतकंतनृतमोरै बोलतकलकोकिलाकुहूकुहूरमटोरै फूलीव
जाइराईकुंजकुसुमझोरै मधुआगेमधुपानैमधुपफिरतदोरै चलियेवि
जहांतहांकुंजमहलचोरै गोविंदप्रभुनं पेलतइकठोरै ॥१॥ रा
त वसंतवंधावोचनौहरिजिकोवाजनैरी पौ रागि राध
इनगावंजावलि तमुसीलै रधि
अवमोरजौलीलै कस जि
नईनईकेलिकरैमो लक
वंदनउडतगुलाल
ररि तालमृदंगभां
रनागरभीउतरति
जपंचमीसुजदिनप्रजी

रतपरसपरकरिनानारंगगावतरागहिंडोलप्रियापियछ्वाइरस्योसुखसअंगहितवह्लभलषिनिरषिनिरखिवलिलक्षितकोटिअनंग॥इतिरागवसंतसंपूर्ण॥अथचांदिनीकेपद लिष्यते॥रागकांन्हरो॥राजतमोनीकानिसिप्यारीजगमगातगोरतनकीउतितैसीयेमंजुलउज्जलसारी॥भूषनभूषितउडगनसोभाअंगअंगराजतसुंदरतारी॥चारुवदनससिसंपूरनससिकेलिरही निर्मलउजियारी॥प्रीतमनैनचकोरसोपीवतहसनिसुधारसकीवरषारी॥दामोदरहितआनंदसागरवाढ्यो॥श्रीतालनउरसंहचारी॥रागकांन्हरो॥निकसिकुंजतेंगढेसरदउजियारीरीनीकीलागे॥फूलनकेआभूषनअंगअंगसोंथेनीनेंवागे॥अतिअनुरागभरेपियप्यारीगावतकेदारोरागेंजनजगवांनआजुवनदूलतकछुरजनीदोकलागे॥इतिचांनीकेपद संपूर्ण॥अथचंदनरचनाकेपदलिष्यते॥राग सारंग॥चंदनचि

निरागनिसरससमाजै ॥२॥ गौ॰ मल्हार हरिकेअंगकोचंदनलपटानोरी ॥
तेरेतनदेखियतहैजैसैंपीतचोली मरगजेआनरनवदनछिपावतछिपै
नछिपायेंकसचोली कऊअंजनकऊअलकरहीछुटिसुरतरंगकीपोट
बोली श्रीहरीदासकेस्वांमीस्यांमोकुंजविहारीमिलतविहारनिहारनर
ह्यौकंचविचओली ॥२॥ कन्यौंसषीचारुचंदनकोवागोसुजगमनोहरअंग रूप
सुधासागरमैंमांनौंछविकेउठततरंग अतिगंभीरवदतछिनछिनउति ड
तितनसंगमप्यारीसंगदामोदरहितसहचरिजनमनमीनफिरतनरेरंग ॥
रा॰ सारंग॥ चंदनवंदनकीतनसोभा मनऊनिसनछिदेउगटेघनविमन
वसनविचओभा करिसिंगारसहचरिलैआईसुखदेखनकेलोभा श्रीवि
हारीदासस्वांमिनीमुखनिरखतकांमविवसचितचोभा ॥२॥ ई॰ न॰ लपा
चंदनचित्रविचित्रकिसअंगअंगकीयेंवटोरीमनमोहनोंजवतैंदृष्टिपरयो
रीतवतैंकछुनसुहातऊमोहिकांमधांमआछेसोहनलातपाघसिरदे
टीराजतसषीयनितिरिछीकरिकरिजोहनहितवह्नमकटिपीतपिछो
वेलाग्योरीमनमोहन ॥२॥ वृति चंदनरचनाकेपद॥

अथजलविहारकेपदलिख्यतेरागसूरवी॥मनमोहेकरिमानसरोवररवे
लतग्रीषमरितुरजनीसजनीसंगविहरेंतापपगपेलत।वुडकीलेजलहीज
लआयेहरिसरुचरिकोवपुधरिथाहलेतहीकुंवरिराधिकाधाईधरीआके
नरि परिरंजनचुंवनपहचांन्योंनागरिजांन्योंनागर।इहिविधिजलचेपल
विहरतछलवलव्यासप्रभुसुखसागर।१।रागमारवोसूरवी।जलविहारस
मयोमननायो।वसनभीजिलागेअंगअंगसोंछिरकतजलछींटनिफर
लायो।वुडकीलेतचलतमीननज्योंपरसतिअंगअनंगजगायो।जलक्री
डाकरिकमलनैनहितवसनपहरिउपवनसरसायो।२।रागविलासाक
होयहकाकीवेटी कहोधोंकहायाकोनांऊ।तुमसवरहोरीऊंउररदेंग
चलेकिनिजाऊंठोटावाउवावरीगांऊ।सवसषीमिलिछिरकाजुपेल
नलागीतोलौतुमरहोरीजौलौंऊंन्हांऊं।श्रीहरिदासकेस्वांमीस्यांमा
कुंजविहारीलैवुडकीगरेलागेचौकिंपरीकहांजांऊं।३।रागमलार॥
विहरतजमुनांजलजुगराज।श्रीवृंदाविपिनविनोदसहितनंदजुव

तीन ब्रजभूप समाज। छिरकत छैल परस्पर साजै सषी संपति रति राज नव
ल नागरीदास श्री नागर मेल तन लै मिलि आज।४८। राग पंचम। सेज सरे
वर राजत है जलमादिक कल्प नरे चतुराई अंग निआत रंग उठै तहां मीन
कदा छिन की चपलाई प्यारी सषी नरि अंजुलि नैंन पीयै तैं गिरा उपमो
जलपाई। प्रेम गयंद नै डोरै तोरि कैं कंचन कंज चहूं दिस माई।४९। इति जल
विहार के पद संपूर्णं। अथ षट सावन की स्तुति। पद राग आसावरी। हालरोज
लरा है मात। बलि बलि जांऊ घोष सुखदाता अति लोयत कर चरन
सरोज जे ते ब्रह्मादिक मन सा। कै जसुमति अपनौ सुनि रविचारै बार बा
र मुष कमल निहारै। अषिल भुवनपति गरुडगामी नंद भुवन पर मं
नंद स्वामी।१। राग आसावरी। हंदा पनसां चोधन मैया। कनक कुंद को [illegible]
कलगि तसि [illegible] न जिए कुंवर रकन्हैया। जहां श्री राधा चरन रैं तिकी
कुमल नाले [illegible] तिहि संग गोपी नांचत गावत मोहन बैंन बजैया
[illegible] भुवतजि [illegible] नंद की गैया। [illegible]

वैगवंसांवोभुकदेवकहैया।व्यासयोंमुक्तिकहतसै [illegible]
या।आरतिव्यासप्रभुकारतदनमैंघोरोलोभसुनैया २ राग [illegible]
मनवृंदावनसूंहेतनिसदिनछिनछायाजिवडोररि [illegible]
हांश्रीराधामोहनविहरतकरिकुंजनसंकेतप्रभु [illegible]
गधहोतअचेतविपुनतजैहैजेसुखचाहततेहि [illegible]
वैगेमोहनकहककहदेत।३।राग [illegible]
मराधिकारानीतीनपदारथकरतमजूरी [illegible]
दतजेवरीघरछादतडलनपांनीजोपतजपीत [illegible]
परियावेदपुरानगुनियाकथततनु [illegible]
हिमायोंकहिव्यासवषांनी।४।ताल [illegible]
रोकिरंकरवाकोंथेपरिकांमरिकुं [illegible]
मैंघरघरछाछिनलेगोलुधा [illegible]
रासविलासविहिकिरिपांऊनांनै [illegible]

वृंदावन
६

रिजनकौचेरो॥५॥ राग गौरी॥ माई वाजै वंसीवट वैंनदा वसंतररहत
न पुलिन पवित्र सुजग जमुनातट अटित कीट मकराकृत कुंडल मु
सवर मांनों लटदसन कुंदकली छवि लाजत छाजत कनकसमां
पट॥ मुनिमन ध्यांन धरत नहि पावैं तकरत विनोद संग वालिकन
अनन्य जनरसकारिनी हितहरिवंश प्रगट लीला नट॥६॥ राग
गिरधरलाल सरनि तेरी आयो॥ सरनि तेरी आयो महासुष पायो
धनि धनि मात पिता सुत वंधु धनि जननी जिनि गोयैं षिलायो॥ ध
चरनकमल तरीरथ कौं धनि जिगुरु हरिनांम सुनायो॥२॥ धनि धनि
न व्रत संतन कौं धनि रसना जिनि गोविंद गायो॥ माला तिलक कम
बांनों काग कर्मत जिहंस कहायो॥ जो नर विमुख भये गोविंद से
अनेक महा दुष पायो॥ श्रीभट के प्रभु दीयो है अभैपद जम उरप
दास कहायो॥७॥

।श्रीराधावल्लभायनमः॥रागदेवगंधार॥फूलतवेनंदलकिसोरएदोऊफार
नीजनितरंगसुपसुचतअंगअंगउमिनोर।अतिअनुरागभरेमिलिगावत
सुरमंदिरकलोलघोर॥वीचिवीचप्रीतमचितचोरतप्रियानैंनकीकोरांअ
ला।अतिसुकवारिडरतमनवरहिंडोरझकोर॥पुलकिपुलकिप्रीतमउ
रलागतिदैनवउरजअकोरांअरुझीविमलमालकंकनसोंकुंडलसोंकच
डोरवेपथजुतक्योंवनैंविवेचितआनंदवढ्योनथोरांनिरषिनिरषिफूलल
लितादिकविविमुखचंदचकोर।५।देअसीसहरिवंसप्रसंसितकरिअंचल
छोर।५।रागमलार॥हिंडोरेफूलनआईनईरितुसांवनतीजसुहाई।
कुंजकुंजतेंनिकसिहरीभूमिअरुनवरनमोनोंचंदवधूश्रीस्यामाजू
षिकैंलाई।अपनेअपनेमेरमिलीअनुरागमलारहिगावततांननिरू
चिउपजाई।श्रीविहारीदासस्वांमिनीस्यांमकैसंगवढ्योरंगअंगअंगरी
झिरिजाई।६।रागसोरठमलार॥हिंडोरनांमाईफूलतगोकुलचंदा।हेंव
कंचनकेमनोहररतनजटितसुरंगाटेक।जाकीचारडां

रतिरषिलजतअनंग। पटुली पिरोजा लाल लटकत जूमिका वहो रंग। मरवै
तौ मां निकचुंनी लागी विविधि विधि हीरा सुरंग॥१॥ कलपद्रुम जहां छांह सीतल
त्रिविधि मंद समीर। लता लटकत भार कुसुमनि परसि जमुना नीर हंस मो
र चकोर चात्रिक कोकिला अलि कीर। नवनेह नवल किसोर राधे नवसं
गिरधर पीय॥२॥ ललिता विसाषा देत कोटा फूली अंग न मात जहां ला डिली
सुकवारि डरपत स्यांम कुरल पटात। गौर स्यांम अंग मिलि दोऊ नये एकै भं
ते नील पीत डकूल राधे दामिन डरि डरि जात॥३॥ नवकुंज कुंज फुलाय फुल
वतसहचरी चहुं ओर। मनों कमोदनि कमल फूले निरषि जुगल किसो
र॥ बुजिवधू त्रिन तोरि डारत देत प्रांन अकोर। कृष्णदास कौं हजे वास दीजे
नागर नवल किसोर॥ ॥ राग सोरठ मल्हार ॥ आली री झूलत नंदकुवार॥
हरन नैंनी मंद गवनी सजै सकल सिंगार। सुरंग षंभ कदंब के जहां मलयम
रव सुढार॥१॥ जा की चार डांडी डहडही पचि रचि है सुतधार। कनक पटुली ज
टित की लै गादी सरस सुदार। चहुं ओर तरुनी अरु नवसन निकिंकनी क १

।१।रंगभरेउतंगगरजनिउरनिउरमेहाउच्चलतचपफहरातअंच
लसंतलेवेवार।मृगमदअगरकपूरकुमकुमवासकेउदगारमुखभरै
पांननिस्यामस्यामादोउपरमउदार।गीतगावैंसुकविकेरसरीतिकीटकः
।ग्रांमसुरघटगांससाधैतालतालअपार।रीझिरीझेजलहिंभीजेजम्यों
मलार।४।पीकमोरकूकहकेकोकिलनिकीसुरनिपरीहवतार।मेघवरसै
भरेजलफुहीवारंवार।पालाजतजिलपटातलालहितज्योंलोकविचार
छविफवीमदसूदनवलिहारीकोटिकमार।चिरजीवोपरवतधांनपति
निधांनअधार।६।रागमलार।फूलतदोउसुंदररंगहिंडोरैस्यांमव
रनतनरसिकसिरोमनिकुंवरिवरनतनगोरैं।नीलांवरपीतांवरअंचल
घनचपलाकैभोरैं।श्रीहरीदासकेस्वांमीस्यांमांकुंजविहारीकीमृदुमुसक
निथोरैथोरैं।७।रागजैजैवंती॥माईरीफूलतनवललालफुलावतहंजवा
लकालिंदीकेतीरमाईरच्योहैहिंडोरनो।पतेसेईवोलेरीमोरकीडाकरैच
कोरतैसोईमधुरधुनिलाग्योघनघोरनो।२।तैसीहिफूलेरीफूलमेटतम

नकीसूल। अलीनकीगुंजमांनौंमदकीमरोरनां।३।नंददासवलिहारीजे
री अद्भुतमारीदेषिवोहीकीजेजैसैंचंदकोंचकोरनां।४।रागमलार।।
गोकुलरायकीपौरीरच्यो हैहिंडोरनां। कंचनषंभवनायेचितकेचोरनां।१
चितचोरनांविविषंभवांनिकरतनडांडीसोहनीचौकीकनककीतिहिवन
ककीवनीमनकीमोहनी। आईसकलब्रजवधूफूलनसकैंछैएकवना
इकी। चलिनंदवनौंहिंडोरोपौरिगोकलराइकी।२। गावतिचढीहिंडोरैंमारी है
हहीसोहै। कोहैसरदससिमुषरहैलसिचपलनैंनांसोहनै। चपलकोंनैंकछु
लजैानांमैंनमनकेमोहनै।३। सीतलमधुरिधुनिगांनसुनिजघरेसघनघुरि
अंवही। चलिनंदअतिआनंदवाढ्यौचढिहिंडोरैंगांवही।४। आएतहांनं
दलालापहरेंफूलमालाचढिगयेहिंडोरैंकहारीकहैंतिहिकालौंतिहिक।
लटजचरवालमदनगुपालदुतिपरतिनगनीसिंगारसुंदरतरुकेढिगढिगम
नऊछविवेलीवनी।५। कहतनवनैंदेषतवनैंजएजगनमनकेजाएवलि
नंददासविलासनिधिनंदलालततवतहांआए।६।रागमलार।। चलीहेबडी २

फूलैफलकेचंदागोरके।।बिसतसिरनतैंफूलैदियेजकजोरके।।५जकजोरफ
पटसुगंधलपटैजगतकछुघनघोरसेफरकैते।।अंचलऔरदंचलदांमिनी
केछोरकें।।वारतिजसोमतिनूपननिअदलोकिउतिसोजानली।।बलिनंदश्री
गोविंदचंदकीफूलैजुबेवडडीचली।।६।।रागधनाश्री।।नवलहिंडोराहोफूल
तजुगलकिसोर।।वरजांनिनरसमरेमनमोहनदूसतलमतचितचोर।।१।।स्यो
तमाललालरसलंपटगांनकरतकलघोर।।पुलकिपुलकितनअंसव
सिनिरपतमुपनहींथोर।।नीलांबरपीतांबरअंचलचंचलचलतकि
कोरजेश्रीदामोदरहितप्रीतमकोछबिसदाबसोमनमोर।।२।।रागधना
सरी।।माईरीहोबलिबलियारमकूनिरषी।।सरसहिंडोरेकुलावतलाल।।नवल
लीप्रतिअभिरामसोहनसारीसुहीवाम।।फरकतउरमकनामनिदाम
कलकपटिकग्रीवांछबिधांम।।१।।गूंहिवेनीछबिशुकरसुहांति।।नानारंगक
समनिकीपांति।।मोमिलपाछोआछीनांति।।रूपलतामनोंफूलिजाति
गमेद्वरश्रीमंता।।स्वादिसवारिमनोहरकंता।।सीसफूलकल

देस । सुषराजतलाजतराकेस । ३ । षंजनसेंजैनजूतसेन । बिसदबिसाल
पदरसस्रैनै । चितवनवरषतसुधा । सुसाई । निरषतलाललनपलुनस्रधाइ
झ्रूविकूंडलगंडलझलके । झलतझूलझरैअलके । पीयदिवनुपज
नईललके । देषतलैंइगनलगैपलके । ५ । जैश्रीदामोदरहितसरि
रंग । अंगअंगछबिकीनवततरंग । बसहनिरंतरएमनमोर । रसिक
वरवरजुगलकिसोर । [illegible] देषिएघनसोभाराधेजू
षियेवनसोला । जहांतहांप्रफुलितवनजूही । मांनोफूलनिअलक
ही । पीतअरुनवनफूलेफूल । मांनोमनितअंगदुकूल । पवनगव
अतिचंचलपात । पीतहरितअरुरागबुवात । हालतलतालतापे
ात । हिलिमिलिकहेतसिहारीवात । फूलीडरियांमधुपदुलावे । उ
कंवासोंहुमहिदिलावे । ललतामाननीमधुपमनावे । बोलतडोलतथे
वढावे । श्रीदा विपनजुमिहमहरी । चंदवफडोलतरंगभरी । मांनोंव ३
कांमकेवीज । दुमफलोसुषसांवनतीज । वरिषाविरंअतिकूंजपु

हाईजहांतहांकोकिलकुनिछाईमोरपपइयारवोलेवोलदेषनको
ध्यैनमलोल।राधा३तियोंकहेतगुपाल।वसीयैआनकुंजदंजवा
सूरदासमदनमोहनस्याम।करोकेलिमेरेमनअभिराम।।५।।७।।रा
नासरी।। ।।झूलहिकुंवरैगोपरायनकी।।मधिराधेसुंदरसुकुंवा
थमहिरितुपावसआरंभ।श्रीवृंदावनमगाएथंभ।कादिनवनसोंरत
मोल।रचिपचिविरुचिरच्यौहैहिंडोल।।२।।वरनवरनवंवरिसुरंग।फवी
नैसौनैमेअंग।।३।।जलमनिअमरनरवनी।जूहीगूहीकवरीकवनी।।
एकतेएकसुंदरिसुकुंवारि।मनहुंरचीविधिविकुमकुमगारि।।जग
तनवजोवनजोति।निरषिनैनचकचौधीहोति।।५।।गावतिसुघरस
सुरगीत।दुलरावतमनमोहनमीत।प्रेमविवसनईअकतनगाय।।
मग्योआनंदउरनसमाय।।६।।दुरिदेषतगोकुलकुलराय।मोनानि
तमननअघाय।।मुदितगदाधरनंदकिशोर।।लोचनअयेनरेकेवे
पा।।९।।रागमल्लार।। ।।झूलतहिंडोरनामाईदहमिरच्योसुघरासि

सघनघनवनकुंमिआयोरहेजितकितछाय।वनीसरसकदंबषंडीप्रेम
सरझरलाई।जूहीजातीमाधवीअकुलितवकुंदसिआई।पचरंगडोरीहेम
झूंतनितिरषिहीयोसिराई।तापरेविराजततलाडलीपीयमुरिमुरिदेतझुला
ई।१।पिकमोरकोकिलमधुरबोलेकरैदादुरसोर।घटनिमेबगपांतिक्ष
लके।दांमिनिचहूंओर।हरषिकूकिकूकिगीतगावैसषीतांनमरोर।।
तालवीनमृदंगउपजेमिलचलेचितचोर।जुगलचंदविलोकिफूलेकुंमु
दनैनचकोर।।२।।छविरासिरसिकविचित्रविविपहैरेकसुंभीसुभीफाहू
ल।अंगअंगभूषनविविछिराजेहीयआनंदफूल।।रसिकिकिकसिकिफूल
यफूलेप्रेमवलीमूल।।चितेमृडमुसकांनिमोवतरानदंपतिमूल।।जेश्री
रूपलालनिहारिहितचितनयोहेअनकूल।।३।।रागगौंडमलार।।तुरापि
लेरीकोटातरलमंऐ।।ईतनवकुंजद्वारकदंवपरसिजातततजमुनालो
गये।।आवतजाततपटाततनतनिसंअकर्तपरडुमआंनिछूए।कल्पान ६
केप्रभुसिरधरसुषसारकूलततनयेनये।।१।।रागगौंडमलार।।रसकिम्फम

किझूमैंलननमैकम किमेहञ्चायोहोनहीसुरझूतवातनितै।जव
पछ्वमझूलितझूलफलननवलनवलडुंमतिनतरेझूलतनयो
हेवचावपातनितै।मंदमंदझूलतथंननलागेअंवरओदेजल
ननतेंछीतस्वामीगिरधारीईतै॥नजेवागोमारीनवरनकीनीर
रीनटरतक्यांहूंछुटाहेछवीलीछुटानिजगाननतै॥१३॥रागमला
रतौंउ।स्वामिनीमेराझूलतरंगीलेहिंडोरै।संगरंगनीनांस्या
वतोंअंमगुजनिवरजोरै।आतिअनुतरमकनिरसवाक्यो।छवि
धिरूपहिल्लोरै।हितवछनमतिहिओसरिसद्धवरिवलिवेननोरे
२४

श्रीहरि

५

अथपवित्राकेपद॥रागसारंग॥पवित्रापहरैंगिरधरलाल तीनोंलोकप
वित्रभयेहैंसुंदरनैंनविसाल॥कहाकहौअंगअंगकीसोभाउरराजतवन
माल॥कृस्नदासस्वांमीगोकुलमेंविहरतवालगुपाल॥१॥रागसारंग॥वरव
नेंपवित्रापाटके॥उरउदारभोंहचापमदनसरकुंमकुंमतिलकलिलाट
के॥१॥निरखतनवलकिसोरजोरतन॥मिलतनपलककपाटके॥कृस्नदास
मनतरनमनोहरसुषसमूहसषीगटके॥२॥राग विलावल॥पवित्रापहरत॥
गिरधरलाल तीनूंलोकपवित्रभएहैंश्रीवीठलनैंनविसाल॥१॥कहाक
होंअंगअंगकीसोभाउरराजतवनमाल॥चत्रभुजप्रभुसुखसैलनिवा
सीभक्तनकोप्रतिपाल॥३॥राग विलावल॥पवित्रापहरतराजकुमार॥ती
नोंलोकपवित्रकीयेहैंश्रीवीठलगिरवरधार॥१॥अतिविचित्रपिय
वक्रविलसत॥निरखिमगनभयेमार॥परमानंदपवित्रकीयेहैंगोकु
लकेनरनार॥४॥राग विलावल॥पवित्रापहरतगिरधरलाल वांमभाग
राजतनंदनीवो

ना॰
मांनोंऊकमलअलिमालकुंभनदासप्रभुत्रिभुवनमोहननंदनंदनव्रज
वाल २ रा॰ सा॰ ग॰ पवित्रा१ हरेश्रीगिरिवरधारि श्रीवृखभांनसुतासंगर
जतअंगअंगछविन्यारी १ हाटकपटपपाटपचरंगकोमणिमालादिग
सोहै निरखितनैंननमैंनगतिथाकीजोजोहैसोमोहै २ सोभासोईसकलसु
खसागरमांगेगोदपसारि परमानंदप्रभुरतिनहिपलकेअपनोंतनमनवा
रि ३ रा॰ सा॰ ग॰ पवित्रापहरतश्रीवीठलनाथ श्रीगिरधरआदिग्वाल
सबवैठेसोभितहेसबसाथ १ अपनेंजनकोंनेंपवित्रलेदियेपवित्राहाथ
गोविंदप्रभुकरुणामयवरखतधरतकमलमयश्रीमाथ २ रा॰ सा॰ ग॰ पवि
त्राश्रीविठलपहरावतव्रजनरेसगिरधरनवंदकोनिरखिनिरखिसुख
पावत १ कुंकुंमतिलकलिलाटदीयेंव्रजजनमंगलजसगावत वाजेताल
परवावजवीनासुरसुनिचऊदिसतेसवधावत २ हरखिहरखिअवलोकि
वदनछविनीराजनउतारत गोविंदप्रभुगोवर्द्धनवासीचरनकमलउरला
वत ३ रा॰ सा॰ ग॰

KUMBHAN DAS.
PADA

२७

।द्विजराषीवांधतश्रांनि
तवेदमंगैगलधुनिहरषि
गा।२जिजनजीवनप्रांनि
गोविंदप्रभुगिरधरपदश्रं
लौनेंमंगलमाईसांवन
जसुमतिदेवीबलिराम

अस्तुकुवरकन्हाइरच्चा [illegible] तश्रसीसमुहाइ।चिरजीवे
दोटातेरो।परिवारसहितव्रजराई।गोविंदप्रभुगिरधरमुषनिरषतनैननिके
फलमाई।३।राग।सारंग।।करोमिलिरछ्यावालगुपाल।आजिश्रांवणश्रो
वणसुनदिनजीवनिधाननंदलाल।१।अछितसाजिधस्योमेवाकुकरलि
येंकंचनथार।।नंदसदनआईव्रजसुंदरिजहांबलमोहनगोपाल।२।श्रीमु
खनिरखिनईआनंदितदियोतिलककस्मालां।रारवीकनकबांधिश्री
हरिवलकेमिटैजगतकेसाल।३।राग।सारंग।।बहनसुभद्रारारवीबांधत

१० बलिओर श्रीगोपालके कनकथारभरि अछितकुमकुमतिलककरतनं
दलालकौ आरतीकरतदेतनवछावरि वारतमुक्तामालके कनकथारभ
रि आसकरनप्रभुमोहननागरप्रेमपुंजव्रजवालके [illegible] गरछु
वांधतजसोधामैया सकलसिंगारविचित्रविराजतसंगसोहतवलभैया १
कनकरुचिरसिंघासनवैठेतहांमिलेगोपनकेछैया तालमृदंगसंख
धुनिवाजतसुनतव्रजवधूधैया २ करलेथारलि[illegible]कुंकुमति
लकबनैया दे अछितकरराखीवांधतउरआनंदवढैया ३ नाजनभरि
पकवांनमिठाईमेवा बजतमगैया अतिसुगंधवासितवीरालेदेतआनि
नंदनैया ४ ईडरिपीडुरीवारतश्रीमुखपरजननीलेतवलैया लेआर
रविः तीउतारतश्रीमुखगोविंदवलिवलिजैया ५ [illegible] के [illegible]

॥अथडोलकेपद॥रागदेवगंधार॥मनमोहनझूलतडोलवनी॥तुगक्रो
ऊहरखफुलांकावृंदावनचंदधानी॥१॥परमविचित्ररचिविस्वकर्मीहितमना
लमणिचत्रभुजदाससलालगिरधरकीछविकापैजातगणी॥२॥रागदेवगं
धार॥मोहनझूलतवडौआनंद॥एकओरवृखभांननंदनी॥एकओरव्रजचंद
ललिताविसाषाफुलवतंगदीकरगहिकंचनडोरि॥निरखिनिरखिश्रीस
पियप्यारीविहसकहतवोलीं॥१॥उडतगुलालकुमकुमकेसरपरसतचारु
कपोल॥छिरकततरुनिमदनगुपालेआंनंदऊदेकपोल॥२॥कहूंकहूंर
सवाढ्यौपरसपरत्रिभुवनवरन्योंनजाई॥कुंभनदासलालगिरधरचंद
निकपरवलिजाई॥३॥रागदेवगंधार॥झूलतडोलनंदकिसोर॥मनओं
वृखभांननंदनीपहरेंपीतपटोल॥१॥बाजततालपखावजआवजमा
लरिमुरलीघोर॥उडतगुलालअवीरअरगजा॥कुंमकुमभनककरओर
॥२॥वृंदावनफुलीनववेलिकुंजीतकोकिलकीरकलनतपांनकुलकलकां॥
पीआनंदवढौनथोर॥३॥अतिअनुरागभरीसववधुंदरदनचंदकीकी॥

रा कमलनैंन मुख परस चंद्र मांनु वजन नैंन चकोर ॥४॥ सुर विमांन विनस व
कौतिग भूले वरखे कुसम निजोर ॥ सूरदास प्रभु आनंद सागर गिरवरधर
सिरमोर ॥५॥ राग देवगंधार ॥ मदनगुपाल झूलत डोल ॥ वांम नागरा धिका विराज
त पहिरें नील निचोल ॥१॥ गोरी राग अलापत गावत कहत आंवते वोल ॥ नंदला
ल कों झलो मनावत जासों प्रीत अतोल ॥२॥ नीको नेरख वन्यौ नंदनंदन आजु
लई हम मोल ॥ वलिहारी या वांनिक उपर जगत देऊं सब ओल ॥३॥ हिलिमि
लि रंग उठत दिसि वाढौ आनंद हृदय कलोल ॥ परमांनंददास तिहि औसर उ
उत होलिका डोल ॥४॥ राग देवगंधार ॥ आज माई झूलत हैं नंदलाल संग राज
त ब्रखभांन नंदनी जोरी परम रसाल ॥१॥ श्रीगोवर्द्धन सुभग सिखर पर रचौ
झुडोल विसाल ॥ कदलीकर निकेत का कुंज ओ वकुलमालती जाल ॥२॥ नुतन नु
तन प्रवाह रहे लसि माधुरी सों उरझाय ॥ कमल प्रसून पराग पुंज नख हंसमी त
र सुहाय ॥३॥ मधुप कीर कोकिल कूजित रस मकरंद लुनाय ॥ सुनि सुनि श्री
वनू पुलक पिय प्यारी हरत कंवलपरागम ॥४॥ निर्झर करत सुवासित अंगंछे १

रंगराजतजलकलोल अन्यकुलकलहंसमंडली कूजितकरतकलोल।५॥ जुवतीजनसमूहमिलिगावतप्रमुदितलोचनलोल। बाजतताल मृदंगहो गविहसतचारुकपोल। इत्योवाचंदनछिरकतनां मिनि। अवलोकितरसगा य। श्रीवीठलनाथ आरतीउतारतदासनिरखिवलिजाय।७॥राग जैतश्री। सोनासकलसिरोमनिहो दंपतिझूलेडोल। मोहनरायझूलेहि। कनकरवंभ मरकतमनिहीं हीराखचितअमोल। चोकीपंननां पांतिपिरोजा रवीरतन की पांति। मुक्तामालसुहावनीहो कहावरनोंवजनांति।२॥ झूलहिझूलहनिरा धिका झूलहनंदकुमार। रतिरसकेलिविराजहीं वाढ्यौ रंगअपार।३॥ ताल रवावजआवजझांझ मकमहनाई। वीनावेनरवावकिंनरी मधुमुरली की नाय।४॥सरवामंडलीसोभिता गावेफागधमारि। इतसुंदरीगावतमीठ गारि।५॥ ककोरेपिचकाचलेकहा वरनोंयहवांनि। चोवाचंदन छिर कहीं गोपी गोपसुजांन।६॥ लषिकर्दममरिमंडिता उडतगुलाल अवीर। करतविनोदकुतहला राजत अतिसैनीर।७॥ खेलेवृंदावनवहनविश्रति

जना

प्रतिछिनुनवअनुराग।कमलखंडकेआएमधुपगनराजततिपरांग
सिथलवसनकटिमेखलारहीअलकलटछूटि एकएकपरधावहीगई
तिनलरटूटिए।चिरजीवोसुंदरवरप्यारोसकलघोखसिरताज।नंदजसो
कोसुकृतफलप्रगटभयोहैआज।ए।सुरकुसुमनिवरखाकरत।लील
देखतआय।आसकरनअनुमोहनकोजसरस्योसकलजगछाय।११।
राहेदेवगंधार।।फूलतजुगलकवनिकिसोरसपीसवैचऊंओरफुलावत
रंगहिकंचनडोरू।ऊंचीधुंनिसुनिचकृतहोतमनजवमिलिगावतराग
डोल।१।एक।।।।।एकवयसिंधनवसतनिजगलोल।भांतिभांति
चुकिकसेतनवरनवरनपहरैंवनिचोल।२।नवबनपवनडुंमवलिप्रफु
तअंवमोरपिकनिकरतकलोल।तीहींसुरगावतव्रजवनिताकुमकदे
लेतमोल।३।सकलसुगंधसवारिअरगजाआईअपनेंअपनेंडोलएव
ताकपिचकारीछिरकतएकजरेंगेरकनककचोल।४।कवजस्पांमपि
उतरिडोलतेकौतिकदेतदेतछकछोर।सवपियडरपिजरिस्वातकंपित

विरमिविरमिवोलतमूडवोल।५गिरततेरानांगस्यौस्यांमकरश्रवनदेनमि
सच्छुरतकपोलत्तवपियईषदमुसिकमंदहसिवक्रचितेकरिन्नोंहसलोल
दान्नेरीफ्रंग्निडंदुन्निपरवावजाश्रस्तउफवाजतश्रावजदोल।श्राएहारस
मूहसरवाजुरिहो।होहारीवोलतवोल।७रतनजटितश्रामूरवनदीनेंश्रो
रदीयेमुक्ताहारश्रमोल।स्रदासमदनमोहनप्यारेफगुवादेरावोमन।
श्रोल।७।राग सारंग।डोलफूलतविहारीविहारनिपुप्पवृष्टिहोहोति
सुरपुरश्रोरगंधर्वश्रोरपुरतिनकीनारिवारतिलरमोति।१।योएाकरत
परस्परसवमिलिनहिंदेषिजुवतिश्रेसीजोति।हरीदासकेस्वांमीस्यामांकुंजवि
हारीसदाचुरीखुलिपोति।८।रागकल्पएा।हरिजूकोडोलदेरवव्रजवासीफू
विं॰ लोगोपीफुलांवैगोद्फूले।१नंदनंदनगोकुलमैंसोहेमुरली मनोहरमन
मथमोहे।२।कमलनैनकोलाडलडावेप्रमुदितगीतमनोहरगावे।३।रसि
कसिरोमनिश्रानंदसागररामदासप्रभुमोहननागर।४।राग कल्याएा.

निमाला। सकलसिंगारअनूपविराजतकूजतवेनुरसाला। माधोदासनि
रखिगोपीजनप्रमुदितश्रीगोपाला। २। राग नट। खेलतफागफूलवैवेफूल
नडोल उ३३ हेनागरीनागरनैंनकमल। १। वजतदिननकेअयेसमितसुष
सखीनिसंगलियेराधाकूलरसमरासजमल। गावतरागरागिनीसोंमिलि
तानतरंगकंठकोकिलाहूतेअमल। २। कल्पानकेप्रभुगिरधारीजूकोंके
टादेतहियेडरपतिगिरतकुसुमासरगोरेगाद। छुटेछविसोधेमल। ३। अ
फागहोलीकेपद। राग विलावल। आनंदरायखेलेफागुहोहोहोरीआईगि
रधरलालकेकाजग्रहतैंन्पांतवुलाईजू। १। कोयाकोंआदरदेतेहैकोयाकूंवै
वनदेहा कासोंहेराचीआनिकोंनकेसंगरवेले। २। जसोमतिआदरदेलेहे फू
लनदेवैवनीदेहै। गिरधरसोंराचीआनंदवलदाऊकेसंगरवेलेहो। ३। उं
ऊरोपनन्चलेवजचंदओरगिरधारी। वाजेसंगवजावतअरूपरवावजया
री। १। वजराणीओरसवगोपकुमारी। गावतीसुछंदनदेतभांवतीगारी। ५।
नदीजमुनाकैतीरजायरोपीयहोरी। कुवरधरीसेवनायसवकेसापाछेंजो

री।६।विछनवेरपढायवेठीसवसवाधीहेक्तीनीस्जाकरिपायलगाईओरप
रिकर्मादीनी।७।खेलतहेनंदलालकमलहाथिनीलीनेंसवसुंदरीलीनी
हेवुलाईरहसजनकेकरदीदीनें।८।केसरिनीनीसोंधेनीनीपहरेंफूमकस
री।गिरधरपीयासंगखेलतहेंखसकलव्रजनारी।९।ओवीरघुलालनउड
वतव्रजरांनीकोलाला।सुंदरमुखफलकतपहिरेंमोतिनरमाला।१०।हेरी
घरिघरआयेनंदरायजीव्रजवासी।रागगोरीनीपैंग्वालसवगामेंओरुला
लनसुखरासी।११।रांनीजूदेरवहिहातकरतनैछावरिसारी।धनिजतुमक
रवांमानतिवारतिनैछावरिसारी।१२।चंद्रावलीओरराधाजूनीजिरही
रसहीये।एकोपलनांहीछांडतडोलतलाहिलीये।१३।सगरेव्रजओंनंद
वढ़तअहेरी।मांनोंदोऊकुवरसंगखेलतरातिदोसनजाने।१४।यहरुव
डोसौंहारस्यौं।नित्यनित्यतुमआवो।सकलघोखकेरायनंदगिरधारीक
हावो।१५।चितविरुजीवोव्रजराजदेखढोटनसुखपायो।श्रीवीठलगिरध
रकोहरिफागुलायो।१६।रागविलावल।प।

तगोपिनसंगा॥ तालमुरजडफवाजऔरअनेकुमुरवचंगा॥१॥ डोलतडोल
कछविरवेंनमृदंगउपंगा॥ मुरजमुरवडंदनीऔरझालरतरसरंगा॥२॥ विवि
धपरवावजआवजझांझिपनवडफजोरें॥ विचविचिगोमुषसुनियतवीचमुर
लीकीघोरें॥३॥ ग्वालवालपरसपरराजेमैंनमंजरीहाथ॥ कनकपिच
कारियांभरिभरिछिरकतगाथा॥४॥ चलौसरवीदेरवनकौजैएविहरतसिंघ
द्वार॥ सुनीमनैमनहरखसवैजुवतीलागीसिंगार॥५॥ नीलवरनसारीलं
हगालाल[illegible] कंचुकीलालकुचनपरिगुंडरहैमांनोंअनंग॥६॥ सोहेस
ससरसकरिदेणीसरससंवारी॥ मांनोंकनकखंभलगफूमतपनन्यारी॥
७॥ सीसफूलरच्यो तिलकभृकुटीविचवंदनरोप्यो मांनोंसरासनस्यांवीके
वांनमैंथमांनूंकोप्यो॥८॥ वदंनमांगमध्यअतिराजतकंजनसुदारे॥ मांनोंसे
ससीसपरदाडिमअधीतडारे॥९॥ नैंनकुरंगअवनजुगचारुचकविच
राजे - - - - - - - - - - - - - - - - ॥१०॥ नखसिखलोंजेनीवनाग
ईसवैसिंघडेवार॥ हमारेफगुवादेउमोहननंदकुवार॥११॥ काहेमोंहन

रायजाजे। कहिओ ले लेऊं कुमुदवृंद ज्यों विकसित नैंकु दिखाई देऊं।। २।। फ
गुवा कैं के मिस फ्वो हरि दरसन की आस। देखन को जियं उपरकुं तरसे लोच
न मरत पियास।। ३।। सुन मनहर खजु सो मति ओंन कु आदर दीनो। कुं मकुं मज
ल सों घो रि सब न मुख मंजन कीनो।। ४।। वरन वरन पट दीने गोद न रिज रिझु
मि वाई। इहि विधि नंद घरन ब्रज की तरुनी पहराई।। ५।। गांन करत मनहरत
मुदित मन देत असीस। तुम्हारो कुंवर जसोदा जी जीवो कोटि वरीस।। ६।। राग वि

वाईज्ञ३

रसवनकेवोरेजू प्रगटभैमंदअरगजाघेरिकैंनरिनरिगडुआसिरढोरे
जू ६ इहिविधिसाजसबैलीयेंचलीरायजूकीपौरीजू श्रीराधाकोंलैंनकों
हसिकवीव्रजनारीजू ७ सोंधोसुरंगगुलालसोंवउसारवीजवादिमिलाई
जू दैरिआवांनकलामहीहसिमहरिवदनलपटाईजू ८ छिरकैपासवैमि
लिजांनिकैंनवलछलवलसोंउगिदैरीजू जांनीकुंवरिव्रखभांनकीतव
महरिलईभरिकोंरीजू ९ चूंवततचाहतप्रेमसौंफुनिफुनिकंठलगाईजू जे
कछुआनंदजीयेकोसुखकहतकह्यौनहिजाईजू १० तवमनमैंनानाभां
तिसौं वजनूखनवसनमंगाएजू तवहमइननंनांहीलेकोंहेंगिरधरक
हाउराएजू ११ कछुकऊंचेचमुचाहिकैंमहरिवदनमुसिक्यानीजू १२
सवजुवतीधाइकैंआईचदीचत्रसारीजू आदेंवदनउरायेंकैंजायगहेगिरि
रीजू १३ इहघेरिलीयेचऊंओरतैंअवकैंछुटोकैसैंफलांनेजू तुमक्योंजुवति
नकेवसपरेतुमहोअधिककसयांनेजू १४ कोउकवातैंप्रेमभेदकीकहिकं
ननमैंउविदैरीजू तवएकअचानकआयकैंलालनलीयेभरिकोंरीजू १५ ७

काह्रूगहिगूंथीवेंनीरुचिमो तिनमांगसंवारीजू।तनसुखकीसोंधेसुनीसी
सारीसरसतिवारीजू॥१६॥काह्रूनैंनीकीभांतिसुरंगचित्रकपोलनिकीनेंजू
काह्रूनमरवटमांडिकैंमुखरोरीविदादीनेंजू॥१७॥काह्रूनानाभांतिसौंअ
ली॰ तिअेतिअंजननैंनवनाएजू।ब्योंहीचंपककोरंगसेंओरकोननलोंटरत्रा
एजू॥१८॥चंपकलताचलीआयकैंतवचिवुककंठगेनोंदीनोदेजु।मोहीलु
जसु रीउजरूपमोहनीकोकीयेजू॥१९॥नानवरनअवीरलेमनमोहन
वदनलगायेजू।श्वरनचंदमांनोघनमैंनवईघनमैंछायेजू॥२०॥स्तनमुखसु
खहीनिहारिकैंसुखनिरखतनांअघायेजू।गारीदेतसुहांवनीअतिरस
सोंलपटांनीजू॥२१॥केसरिदोरीसीसतैंवहिचलेधारपनारेजू।सोंधेसुरंगगु
लालसोंसवअरेघरकेद्वारेजू॥२२॥तवआगेंदेसर्वमोहनीहसतिहसतिस
वआईजू।ऽघ्रसौंमुखढांपिकेंपगनिमहरिजूकेलाईजू॥२३॥इहकंन्या
काह्रूगोपकीतीनेंआयसमर्प्पणकीनोंजू॥२४॥
हरषितसुनआनंदसुंतुमवांदोवजतवधाईविधिते

कांन्हा नवदुलैआईजू २५ वेशहि विधुकोनामसुमनमहरिगोदवैग
रीजू हर खितमन आनंदमूंकछु विछोलपसारीजू २६ ऊटपटतता
रिकैं तवचुंवतिमुरवमुसिकानीजू हसीपरस्परसुंदरीतवदेतमहरिन
जांनीजू २७ तवहोहोरीवोलेहीनांचतदेकरतारीजू प्रमुदितकरेकुहैल
नांचतगावतमारीजू २८ आवुजहोरीखेलतैंसवसुखतैंसुखन्यारोजू
श्रेहसमाज नितमाधुरीकौंहटरौनहिटारेजू २९ राग विलावल नंदगांम
कोपांडेव्रजवरषांनेआयो अतिदारवरखजांनमांनसनमांनकरायो १
पांडेजूकेपाइनकोंहसिहसिसीसनवायो पायधुवायन्हवायषट्रसभो
जनकरवायो २ आयआईव्रजनारीजिनन्यहिसोधोपायो वरक्जांन
नवनमईजोरफागुकोषेलमचायो ३ सीसीसिरतैंकुलेलसकलअंगन
फैलायो हनमांनकीप्रतिमामांनैतेलसीसतैंछिटकायो ४ काजरमु
खेमुरवमांड्यावदनवैंदिवनायो गजगांमिनगोछेवकोंपिकीवकल
सहिस्रवनतैंमांरूवपराखपकायो ५ गजगांमिनगोछेवकेंतकमईत्रा
सो

नएलयोदेहधरेमानूंफागखेलनब्रजमैंआयो।६।कारूगूलरीमालका
रूनैंजुगापहरायो।मांनोंगजपटानविचजेगजगाहबनायो।७।काल्वंद
नवंदनकारूनैंचोवालेचरचायो।रितुवसंतजोकुसुमफूलेफूलनुछायो।८।
रंगुरसौचकूटीयनरंगरातोहोयआयो।गुंजनकोगहनोमानोंसोहितपहर
यो।९।मांप्पेतैंमोहनीनछाछकोमोंटारायो।मांनोंकाचेइधैस्यांमैंगीरवर
हीनहवायो।१०।चोरवोरतेनईलागतेंजलदरिरायो।महादेवकीजटांनच
रवरनोदिकआयो।११।लगतदंतसोंदंतडिगडिगाअंगलगायो।मांनेंसु
घरसंगीततालकँवतालवजायो।१२।श्रीराधाराधाकहिआपुनेंवोलसु
नायो।अरीमांनकीकुवरिचरणरूतेरीआयो।१३।सुनिकैंवचनजुगरोहें
राधारादेनरिआयो।वावाजूकोदगनलोलेजोद्वितपहरायो।१४।कीरति
जूपाइलागिलागितातेंपेहर्पयो।तांल्योंखेलतहोरीब्रजपतिउलैहोआये।
१५।सांवेसवांगनसाजिसवैसमूहजोसोहायो।तव्याप्याव्यासुकोश्तस्तउ

यो। रंग घूमत आयो ईहत्र पांमई जिनै मेमंत्रन चायो। १७ ब्रज की वीथनि वीच
की चमैं लोटलुटायो। १८ चारे वदन को स्वांग चतुर चतुरायो नैंननि लायो।
१९ पंचानन पांचों मुख सों संगीत वाजे बजायो। हरिको करह वाम बावरो सो।
नारद नचत वेचायो। २० देखि नंद को लाल सुनि जन धरि गाल बजायो। मह
देव पटतार देते पेह पटषट मुमन नायो। २१ होहो होहो होरी हरि हो सो नेहसा
माया त्रिगुन कै नारद लहरायो। २२ कोमकोमिनी नयो सवनि को चित चु
रायो। गठजोरो उरवसी नान राय सों जाय करायो। २३ ललिता गो ढिंजोरी ल
लितक्रं लाल को विहार रचायो नवलऔंवको मारे हो रलै मोरी मोहो रव
नायो। २४ पीतपिछौरा तांनि छवी लो मंडप छायो। होरी की आगपारीक
रिकैं डलहो परनायो। २५ फागुन की गारिन की साषी चार पढ़ायो। हो
री को पकवांन जरि केरी खायो। २६ फूल फूल की फाग फवो रस जि
यह गायो। जन हरिया द्यन रूप नाम वास वर सानै पायो। २७ रा [illegible] मू [illegible] वि
[illegible] व [illegible] फगुआ वेसि [illegible] सचलोवलि लाल कुरंग नैंन रंग मगे की जे ओ

हश्रैममरहोरीकोगोरीसुखलेसुखक्योंनदीजे॥ ५करतसैंनकोसोचसकु
चजियइनसकुचनकहिधोकाहालीजे।घरकोछाडिघरधायअधरमधुप
निधरककेक्योंनपीजे॥२॥राग॥विलावल॥श्रीलछिमनकुंवर ईयेमनमोहने
॥श्रीवल्लभसुवनसुजांन॥लालमनमोहनोंहो॥गुणनिधिश्रीगोपीनाथ
जूमननिरगुणतेजनिधांन॥ला०॥१॥श्रीपुरुषोत्तमआनंदमैंमनश्रीविठ
लइजकेजूपोलालमन॥कोटिकमनविधवारणेमन॥सुखिसोनासुख
रूपलालमनमोहनों॥२॥श्रीगिरधरगुनआगरेमनमोहनो॥सूरनपरमां
नंदलालमनमोहनों॥राजसिरोमनिलाडिलो मनमोहनों॥करुणामयगो
विंदलालमनमोहनो॥३॥श्रीवालकृष्णमुखचंद्रमांगमनमोहनों॥पंक
जनैनबिसाललालमनमोहनों॥श्रीव्रजवल्लभगोकुलनाथजूमनमो
हनों॥प्रियानवनितप्रियस्परमदियाललालमनमोहनों॥४॥श्रीपति
श्रीरघुनाथजूमनमोहनों॥जगजीवनअभिरामलालमनमोहनों॥रू
परासजदुनाथजूमनमोहनों॥कमलापूरनकामलालमनमोहनो॥

५ नवकिसोरघनस्यांमलालमनमोहनां अंगो अंगसुखदाईलालम
नमोहनां ब्रलसवैसुखेंजांनियेमनमोहनां जाहि विमलजसुगाइला
लमनमोहनां ६ श्रीवृंदाविपुनसुहांवनोंमनमोहनां व्रजलीलासुख
सारलालमनमोहनां मांनिकचंदप्रभुसर्वदागमनमोहनां श्रीगोकुल
करोविहारलालमनमोहनांहो ७ रा रां कु होहोरीखेलैनंदको
कारअंबुजरमकरंदको तनसुखपाघवनीकसूंजीसिरमोरधरेमुकर
दको १ एकओरखगगुंातरुनीमधिअंकुरवाकुरपरमांनंदको एकओ
रखंजनचकोरमधिउदैजयोमानोंचंदको २ लेलेसुरंगगुलालदोऊक
रखेलजयोमांनूंफंदको तिहीओसरप्यारीसुखपरसिमांनगयोअरू
नादको ३ नांतिनांतिकेवाजेवाजतसुनिछूटिगयोमदछंदको चोवाचं
दनअगरकुमकुमांमृगमदसुनगसौरंनसुगंधको ४ इहिविधिनिराखि
मेघवरषायोसुरसवमिलिवृंदको तिहिऔसरमुरलीवनवाजीऊलसा
मनआंनंदकोगाऊरपरमांनंदको ५ रा ध श्री यागोकुलकेचौह

टेरंगराचीग्वालीमोहनखेलेफागुनैंनसलोंनेरीरंगराचीग्वालि।न
आनंदजयोरंगराचीग्वालिंस्यामवलिकेअनुरागनैंनसलोंने।।२।।उ
वाजेगहगहेरंगराचीग्वालिनगरकुलाहलहोयनैंनसलोंने।७मग्पो
१घोरवकोरंगभीनेंहोभुवनरस्योनहिकोयनैंनसलोंनें।।२।।उफवांसु
हनीरंगभीनेंहो तालमृदंगउपंगनैंनसलोंनें।फां फिफालरिकिंनरी
नेहो।।आवजवरमुरवचंगनैंनसलोंने।।३।।उतन्हीसमाजगोपालको
भीनेंहो।।अंवुवलजनंदकुमारनैंनसलोंनें।।इतगोपीनवजोवनारंग
हो।।अंवुजलोचनचारुनैंनसलोंने।।४।।गारीदेतसुहावनीरंगभीनेंहो।
दितगोपीवृंदनैंनसलोंनें।।रतनखचितपिचकारियांरंगभीनेंहो।।
लीयेगोकुलनाथनैंनसलोंने।।५।।कितकिछिरकतवृंदकोरंगभीने
जेराधाकोसाथनैंनसलोंनेहो।।६।।केसरकुसुमनिचोरिकेंरंगभीने
नरतपरसपरआनिनैंनसलोंनेहो।।मृगमदचोवाअरगजारंगभी
कुमकुमानोंतनरससांनिनैंनसलोंनें।।७।।सुरंगगु ग

ली॰ ८

नैंहो॥ रुकावंदन धूरि नैंन सलोंनें॥ चंदि विमांन सव देवता रंग भीनें हो॥ देही द
साग ईन्नूलि नैंन सलोंनें॥८॥ खेल मच्यो अतिरंग रस्यौ रंग भीनें हो॥ चितवत
कुंज वधू आइ नैंन सलोंनें॥ राधा रसिक श्री स्वामिनी रंग भीनें हो॥ आसकरन
वलि जाय नैंन सलोंनें रंग॰॥९॥ राग धनाश्री॥ खेलत फाग संग मिलि दोऊ अ
आनंद भरे पिया प्यारी हो॥ नव किसोर वे नंदनंदन इत वृखभांन दुलारी हे
॥ नव रितराज लता द्रुम फूले वरन वरन छवि न्यारी हो॥ खेलत॰ तैसेई सु
भग गवर सांवर अवनी है जोर इकसारी हो॥ कमल नैंन पर वूका मेलत
हसि सकुचित सुकुवारी हो॥२॥ खेल॰ भरी अरगजा कनक पिचकारी धा
ई सकल व्रजनारी हो॥ भरति गांवति मदनगोपालै ही वाढ्यौ रंग रस भारी
हो॥३॥ खेलत॰ वहुरि मिलत दस पांच सखिन गोविंद भरे अंगवारी हो॥
चोवा सा खिजवा दिकुमकुमां दीयो है सीसतें ढोरी हो॥४॥ खेलत॰ प्रेम
मगन मोहन मुख निरखत वदन विसारी हो॥ चतुर्भुज प्रभु सुरनर मु
नि मोहे गुन निधांन गिरधारी हो॥ खेलत॰॥६॥ राग धनाश्री॥ माई मेरो म

नमोह्जोस्पांमरे।अवघरकमोपैंरह्योनजाय।चपलतिरछीनोंहसोंसर्व।
सुहीमेरोलीयोहेतुरा१।मेरोमन॰।होंगोरसलेनिकसीवृंदावनहेयुंफ्रा
रआईअचांनकऔचकांमटकीवजमेरीदेईफार।२।मेरोमन॰।लईनहे
तुमटकीतिकमोल।कनकखुनीकेव्याजमैंपरसेरीमैंमेरोपांनकेपोला।३।
मनमे॰।कंचुकीपटनवीगही।गहिअंचरामोहियोंकह्योकहे।वोतुमका।
कीनारि।केईविरियांयामघगईदांनहमारोमारिहो।४।मनमे॰।हसिवारीमु
खमैंदेरीग्रीवा।वहोमेरेमेंलीगरवांही।मिसहीमिसमोहिलेचल्योग्रहवरहे
अंधियारोमांही।५।मनमे॰।जायओरमिसिदांनको।वतियांनहोमैंपररवे
पाईकरतवसीठीमिलनकी।सनमुखहोमेरेनैंनचलाय।६।मेरोमन॰।ओर
कहारतिवरनिये
रमीदेखिसखीमेरातनकोसाज।मेरोमनमोह्योस्पांमरे।७।रागध
।प्यारेकमलनैंनमनमोहनां.

सैंकै होयप्रतीति १ प्यारे गिरघटियां उठिजोरही मारगरी मेरोरोकतआ
य वहोरिझवां नकसीसतैं मेरीमटकी दे तदुराय २ प्यारे ऐसीतुमहीनव
र जिये लटकिरहतगरवांह प्यारेमीतमितिमईयामुनोंस्यांजीपरतक्नमो
ह ३ प्यारे सैहसतमेंमनमुस्तहो कहिकहिमीठेवोल प्यारे सेंतमीतकोंप
ईये यहगोरसविनमोल ४ प्यारे चत्रभुजप्रभु चितपररव्यो चितवनि
नैंन विसाल रतिओरी मिसिदांनके गिरगोवर्द्धनलाल ५ राग धनाश्रीषे
लतमदनगुपालफागुसुहांवनों ब्रजजुवतिनकोचितचोर अंगलजांवनें १
र सुवलसुवाजश्रीदांमांसरवासंगरे राजेही वजआवजमुरजमुरलीड
फवाजेही २ करिनीकेपिचकाईफेंटअवीरकी वजजांवरिसोंजरीका
वरिकेसरिनीरकी ३ सजिकैसाजसमाजचलेब्रजवनांनकैसुनिमनसा
गईअलिसुनतधुनिकांनकै ४ उततैंजुरीकुंडनिआईब्रजवासिनी तिन
मैंकुंवरिकिसोरीनित्यविलासिनी ५ संगरंगीनासाजलीयेनवनागरी
वरनवरनलीयेंराजतफूलनकी छरी ६ जुरीआईदोऊदोलपोरिब्रजरा

[illegible]
रदिह [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
सतैं [illegible]
वपरर्व [illegible]
रसर [illegible]
१धा [illegible]
१५ [illegible]
गसां॥१६॥ [illegible]
सरवा [illegible]

तरीव्राजतहेकरकंगतारीहो जबवसंतदिनअगटजयोनांचतग्वालम
बग्वालनीहो।२खेलत० व्रजजनसवएकतजयेघोषरायदरवाराहो।३
तवनीनवलकुवारीहो।३खेलत० जुवतीजूथचंद्रावलीश्रापनेजूथ
राधाहो झूमकहेंचेतवगावेहीवादोहैरंगश्रमाधाको।४ वलमोहनए हो
कतजएसुलतकएकोदाहो दोऊदिसखेलमचावहीवढ्योहैमनसि
जमोदाहो।५ चमकिचलीचंद्रावलीसुवलतोकपरधाईहो उतहीको
पियप्यारीराधिकावलीरामंदूलकोंपरिधाई।६ कमलनिमारमचाईयो
मधुमंगलपकरएकठोरीहो वांधिगुदीपरढोलाहो।७ वहोतहसेवलि
मोहनांहसेहैंसकलहूजवासीहो छोराएछूटेनांहीपरिगईगांठिफांसा
ईहो।८ हसतिहसतिसवश्राईयोगावतगारीसोईयोहो सैनांवेनीकरैं
सवैमिलिमोहनपकरेपौईहो।९ वलिजूकीश्रांखिश्रांजियोमुरली
पियाकीछिनाईहो मनजायोफगुवालीयोपाछीजाइवदीनीहो।१०
इहिविधिहोरीखेलहीव्रजवासिनसवसुषपाईहो सवजनकूनमनश्रं १३

मदमयांगाचिदरस्याजसंगरहा॥१॥रागविनाश्री॥होहोहोरीऽतोहेगु
ले: पालपीसरवासमूहे।रतजुवतीजूथमध्यराधागोरी।एवाजततालमृदंगचं
गदरसतपरसतचजंवोरी।जाजकहोत्हरिपोरेआइवैपायेजंघेरीसंकरी
रवोरी।२।केसरिवऊतमगाज्जडाईअवीरवऊतलीनोंजरिकोरी।ललि
ताऊगिचलायेदुऊनकीदृष्टिवचाइगांठिगहिजोरी।३।अंचलखंचोजं
निसकुचीदंपतिहसिहसिनैंहमेरोरी।चतुरसवसखीमिलिहसीहाथदे
पाइहैजांनिदोऊनिकीचोरी।४।फगुवादीयोजुवनेभेंनअजुफेंटगहेयेंगद
कहतकिसोरी।खेलफागअनुरागसींघ्रकरआयेजीतनंदजूकीओरी।५।
राग धनाश्री॥श्रीराधाकुंवरिरसिकनीसोंहरिहोरीखेलोजूजमुनांतीरस
घनकुंजनमेंमिलिजुवतीदलपेलोजूसरसगुलालअबीरअरगजाकि
तकिआंखिनमेंमेलोजू।पतवऊजकेलरिकाघरघरतेंटेरिटेरिकैंबोले
जूआयेहैंअपनेंघोकनिजुरिमानोंगजमदमोकलेखोलेजू।२।जैसेंमन
भायेवागैंलैसवहिनकोंपहरायेजू।तैसेंहीआपनेंकाजेस।वसों

तमगायेजू ।३। पहलैंसवैकनकपिचकारी परममुदितमनदीनीजू तापा
छैंहेरतनजटीतवलेदाऊहूंदीनीजू ।४। केसरकेसररससौंकनककल
सभरिलीनेंजू फैंटनिअबीरगुलालसुरंगभरायेभरेरंगभीनेंजू ।५। चावाभे
दभवादिसारवलेगोरामृगमदघसिघोरीजू चलेलिवायअरगजाकुमकु
मचंदनरोरीजू ।६। भरेगजकआवजमहुवरिडफझांझिताललमुरवङ्चंग
जू वैंनिरवावकिंनरीझालरिवाजतसरसमृदंगाजू ।७। श्रवनसुनतउरवनां
ननंदनी अतिआतुरउठिदौरीजू सखीसकलघेरेचऊदिसतेंनिरखिस्यां
ममनभाईजू ।८। अंचलविविदुरायेंपिचकारीभरिलाईजू तकितकिसुंद
रमुखऊपरिछिरकी औरछिरकाईजू ।९। सवसमाजलैजाइजुरेउरवा
भांनगोपकीपौरीजू तवराधासौंकहैतमुदितनंदजहांतहांदैउठिदौरीजू ।१०।
ललितासमेतसबसखासंगलेमगेतरुणीगनऊपरिधायेजू हाहाकहिपल
सकुसुमरंगभरिभरिकलसनवायेजू ।११। करिविचारमनमैंललितादि
मधुमंगलकीढिगआईजू तेरेपायलागतहौंकैंसौंहूंनंदलालपकराईजू

११॥तवमधुमंगलकह्यौसखिनसौंसुनिकह्नुएकविधिकीजैंजू॥१२॥सबव्र
कओरहोकैंपकराईअपांमकोंदीजेजू॥१३॥लैलैसुरंगगुलालअरुणअं
बरतीहीऔसरकीनैंजू॥देखतआसीजुहोतदिवसमांनेंकोऊनिसिसि
हीनैंजू॥१४॥एकदौरततदसबीसकदौरीलेगईस्यांमअवेंनरतअंकवारी
३= जू॥मुखमांमैनकहेतअवनलीवनीइहांजोरीजू॥१५॥पीतांवरमुरलीक
रतैंलेललितसखालेनाजीजू॥तिहिऔसरपकरेछलवलसोंकरीगहआ
सिखियांअंजाईजुगहरि जू॥१६॥कहोकहाफगुवादेहेतुमसुनोंगोकुल॥
केराईजू॥विनुदीयेंक्योंछुटैनिपैहोस्यांमसखावलिनाईजू॥१७॥रतनजटि
तनूखनरंगरंगकेअंवरवजतमगाएजू॥फगुवादेनकह्योमुखतैंतंवमु
रलीआंनिगहाईजू॥१८॥अनुरागेपागेरससोंफिरिनंदद्वारपैंआईजू॥वा
रिआरतीविविधिनोंतिसौंमातजसोधाकरतवधाईजू॥१९॥खेलतफाग
अनुरागवढ्यौव्रजजनसंगजगाईजू॥सुंदरवदनकमलकपरिरघुवीरवा
रनैंजाईजू॥हरिहोरीखेलेजू॥२०॥रागधनाश्रीखेलोसवेमि

गुसवमिलिकैंभक्तगावोसंगसखाखेलनचलेव्रखभांनगोपकीपोरी
वैंनसुनतसवगोपिकागोऽहैकुवरपैंदोरी॥१सवै॰मोहनराधिकाकार
नेंगहिलीनौंनौसरहार॥हारदेतदरसनभयोसवग्वालनकीनोंजुहार॥
२सवै॰राधाललितासौंकह्योनैंकुहारहाथतैंलेऊ॥चंद्रभगासौंयौंकहे
नैंकईनहीदेवनदेऊ॥३सवै॰वहोतभांतिवीरादियोहोकीनोंवहुतसन
मांन॥राधामुखनिरखेहरिगोपीकरतकमलमधुपांन॥४सवै॰मोहन
करपिचकारियांहोसववसग्वालनिमांनीहार॥ --------------
५सवै॰फगुवाकोपटऐंचतैंमुरलीआईहाथ॥फगुवाकोपटऐंचतैंहो
सुनांहीवनैंसुनिसुनिगोकुलकेनाथ॥६सवै॰मधुमंगलजवटेरियोहोली
नेंसुवलवुलायमुरलीतुमलीयोतुमकोंदेऊगीप्यारीराधाकुंसिरनाये॥
७सवै॰ढोलमुरजडफवाजहीहेऔरमुरलीकीघोर॥किलकितऊतरह
लकरेमांनोंआनंदनिर्रतमोर॥८सवै॰राधामोहनविहरेहीहोसुंदरसुधा
रसरूप॥पहोपव्रष्टिसुरपतिकरेधनिधनिगोकुलकेभूप॥९सवै॰होरी।

खेलतरंगुरसोहोचलेजमुनांजलन्हांन सिंघपौरिगदेहरीदेगोपीवारव
खवारदेहिदांनहो।६।सबैगनरनारीआंनंदजयोहोतनमनमोदवदाय।७
गोकुलनाथप्रतापतैंस्यांमदासबलिजाय।१८।सबैग।राग।धनाश्री।फागुषे
लेराधागोरी।नंदलालउरखजांननंदनीमलीबनीहैजोरी।१।चारूअवीरगु
लाललालतन विचविचराजतरोरी।जाकेकदंबहाररहसिनरकेसरिकु
सुंमकुमघोरी।२।तनसुखचारूछींटछिरकततनउंस्गमीगातनवरोरीहो
प्रंचलपटउरसोमितकुचपरिजपमांश्रीफलकोरीहो।३।स्यांमसुनगके
मअंगपरिराजतनवलकिसोरीहो।नूपुरनतकितकटिमेखलानिरखि
मदनमतिहारीहो।४।रीफिरीफिावतनवललालकोंमृङअंगमुसकिमो
२। प्रेमगांठिपरीपरसरांमकेहेछुटतनांहिकेपोछोरीहो।५।राग।विलावल
धनाश्री।रंगीलेरीछवीलेनैनांरसभरेनांचतमुदितअनेरेखंजरीटम
मत्तदोऊकैसैंहूरहतनघेरे।१।स्यांमरंगरातेरंगरंजितमांनउचि
चितेरे कुंभनदासप्रभुगोवर्द्धनधरस्यांमसुनगतनहेरे

रसिकफागुखेलेनवलनागरीसों रससरस वररितराजकी रितुआई सवन मदनअरविंदऔरकुंदवरसेविमर्दचंदपियनंदसुतसुखदाई १ मधुपटोल मुडलोलसंगसंगडोले पिकनवोलनिरमोलश्रुतिवारगाई रचितरासस विलासजमुनांपुलिनमें सुधतव्रजदीविपुलहरिफूलजाई २ कनकअंग गवरनीसुकरनीविराजे गिरधरनजूराजेगजराई जुवतीहसिगावेंमिलि ले छीतस्वांमिकुणिवेणिपदरेणवडभागपाई ३ राग धनाश्री अरीचलिवे गिछवीलीहरिसौंखेलनजाई निकसेहैंमोहनसांवरोचलिफागुखेलन व्रजमांही १ घुमडयोहै अवीरगुलालगगनमैंमांनोंमाईफूलीहैसांझअरी चलि० वाजततालमृदंगमुरजडफकहीनपरतकछुवात रंगरंगनीनेंव लवालसवमांनोंमाईमदनवरात २ अरीचलि० आईहेजततैंजुरिसुंदरिस व करिकरिआपुनोंगाट खेलतनांहीकोऊकांन्ह कुवरसौंचाहततिहारी वाट ३ अरीचलि० विनराजादलकौनकाजचलितठियेछांडियेएंड अनमग्योहै निधडयोनवलनंदकोंरोकतरावरीमेंडरी चल० ४ जवीहैवि १६

हसिउखञांनकुवारीवरकदीपिचकारीलेत सहतनसकतकोक्रमहासु
नटजैोसुनततमरसंकेता५ अरीचलिग आईहैरूपअंगाधरीवेछविच
रनीनजाई नवलकिसोरअमलचामांनोंमिलिहैचक्रआई६ अरीचलि
रवेलमचौवजिवीथनिमांही अंवरवररवतडेमआंनंद दमकतगुल
लजरेमांनोंजोरकेचंजों औरसंगनिपिचकारीनजरेजरिछिरकतसुरि
नताप्रोकुटिलकिरीटछयेप्रेमरंगअरिजरिजरितपियाकोजाये ८ अरी
चलिग ९ रिमुरिजरनीवचावनीछविसोंवाढ्यो हैरंगअपार जैनमूनी
वोलतडेलतपगनूपुरफुनकार ९ अरीचलिगसिवसनकादिकनार
सारदजैजैजैनंददास अपनेंगकुरकीजीयोवलैयालेहु१० अरीचलि
गिछवीली राग धनाश्री हस्विलेफागपेलनकों सवव्रजकेलरिका
गलीएंजूरवनवसनसवारिदई ए ्तिनिमैसोमितवलिओरस्यामो
इनकेमैसोजाकेधांमा १ सवसमाजलेपजचेमोहनचलेकोटिकांक्र
जिरांमदलले ३ आयजुरेसवव्रजजनमोरश्रीव

बोलि लई ५ सखी एक जब सैन दई तब प्यारी जिय जांनि गई ६ सखी एक
बांह गही उझकी झरोषे झांकि रही ७ जब इत ते चित नंदलाला सीस न
वाय रही ब्रजबाला ८ नरि नरि प्यार पग ये पांन लागी लाल अति आं
नंद सों रंवान ९ खेलन की सब सौंज करी जन जन कौं तुम जाय करौ १०
तब चो आ चंदन कलस भरे अबीर गुलाल देर दरे ११ मोहन कर पिच
कारी लई उत बैसन की मार भई १२ बिबिधि भांति बाजे ज बबाजे बि
च बिच खेल मृग जे जीते १३ मुख सो धिर वात खवाव त पांन करत औ
र मधुर रस पांन १४ खेलत आवत गुरजन मांझ यों बिराजित मोहन
मानें फूली सांझ १५ ज बउरलाय करी अति केलि खिनु खिनु बढी उ
मर स बेलि १६ जो भायो सो फगुवो लीयो जो मन मांन्यो सोई कीयो १७
होरी खेलत ही रंग रह्यौ देखन कौं गोकुल उमह्यौ १८ इही सुख देख
त सुर नर मन लूले भूतल ब र रवत आंनंद फूले १९ देत असीस चली द्र
जबाला चिरजीयो गोकुल प्रतिपाला २० जब हरि लोचन ले चले न हाई

श्रीरघुवरद्वारनेंजा॥२४१॥राग धनाश्री॥नंदकुवरखेलतराधासंग॥ज
मुनांपुलिनसरसरंगहोरी॥स्तव घनस्यांममनोहरराजीतस्यांमसुअ
गदांमिनीगोरी॥१॥केसरिकेरंगकलसभरेवजसकलसाजहलधर
कीजोरी॥हाथनलीयेंकनकपिचकारी॥छिरकतनांचतवजंकीनव
लकिसोरी॥२॥चोवाअबीरउडावतनांचतकटिसोंभीतगुलालकीझो
री॥मगनभईक्रीडतवजिसुंदरिप्रेमसमुद्रतरंगझकझोरी॥३॥बाजत
चंगमृदंगअधोटिपेंहफांझिझालरिमुरघोरी॥तालरबावमुरलिब
वीनामधुरसबदउघटतधुनिथोरी॥४॥अतिअनुरागवढो॥तिहिऔस
रकुलहिलज्यामर्यादातोरी॥मदनगुपाललालसंगविहरतदेहिदस
भूलिगईबोरी॥५॥एकगहैहगफेंटाफगुआकोंदेतगारिमोहनकोंभ
री॥एकजुआंजिकेंनाजतकिसोरीएकविलोकिहसीमुखमोरी॥६॥ए
कनलेइछिडायमुरलीकोदेतवेगारिमोहनकोंभारी॥एकफुलेलअ
रगजाचोवाकुमकुमारसगागरिसिरढोरी॥७॥विविधिभांतिरूल्पारं

ली॰ दावन क्रू जित खट पद औरपि कोरी। निरखि तनें हग्न रि अंखियां चो वा
८ यों चाहत मुख चंद चकोरी। ८ यके देव किंन्नर मुनि गन सब मन मथ मन
नि जु गयो ले जोरी। परमांनंद दास आ सुख क्यों ईजु वि सि रधुनत उ अं को
धनाश्री री। ९ मांनूं मोहन कीया रि गोगूजरी सब ब्रज के दो कैतर है उ रि देखें नंद
ऊधार गोर॰१ ज्यौं हीको ऊ कहै उ ठि वे आ एमांनौं वे मंदन मुरारि रहिन
सके इत उत तैंऊ रि देखत वदन उघारि गोर॰२ धरत पगन ललायें फिरै
नरे दरे अति जाइ की चकरी ति जरंग पोक छूय है जुगति वहराय गोर॰३
तन सुख की सारी लसै वा को कंचन सो तन सुख पीये मांनौं दामिनी की
देह सों रही जो न्ह लपटाये ४ गुर नितंव नि पात रोम खिपाती रो उरज
भार अधिकाय लेहे गोलं कमलन लाल को लच कर लच को जाय ५
कुटिल अलक नैंनां वडे यो प्यो स्यो मुख इंड अरुण अधर मुत्ति कात
सो दीयें ज्ञाल सिंदूर को विंड ६ वार वार पट पलटई नौतन नौतन रंग
तवही तव निस की सी फिरै हटि देखा वती अंग ७ लागी लगनि नंदल

लसोंकरैनिर्वहिनकाज।चढ्योचाकचितवतुरकोंवाकोंजेमहीत्र्यावे
राज।९।लाललरवेलालीचढेसखपतापसीपियारायेयहसंजोगनिवि
हेनीकछूत्र्यरकिवीचहीसुनाथा१०।ज्योंज्योंनरनारीसवैमिलिमिलिच
रतचवाव।सिरोमनिप्रभुदोऊसुनेंवढ्योचैयुनोंचाव।११।रागटोड़ी।
दोहा।होरी।खेलेनंदकोनंदकोनवरंगीलाल।त्र्यवीरजरेजरिकोरी
चकारीनेंनरंगरंगनिवोरीतैसीयेरंगीलीव्रजवाला।१।खेलतगुरत
रतधरेरागरंगगावततांनतोरंग।रंगरागमिलिवैवजावतदेनावैंनिरसालं

।राग का
दरसवमुरवरास।१।खेलत०
नकेजोर।२।खेलत०
री।३।खेलत०।४।कल्लनकीगेंदुकनौलासीकनकलकुटियाहाथ।धा
ईव्रजखोरिराधिकाकोटिकजुवतिनसाथ।४।खेलत०

थे हो हो बोलत ग्वालन सब संग । कांन परी सुनियतु नांही बजवाजत भेरि
मृदंग ४ खेलत० पह लैं सुखि पाई नांही अब घेरे हैं सांकरी खोरि । अब ह
ल धर उलटो काहे तुम धावौ ग्वालन जोर ५ खेलत० भरत घर तजाजैरा
जित गैंडक नौ ला सी मार । बसन रसन छुटत न संभारत तत टूटत मुक्ताहार ६ खे
लत० उडत अबीर गुलाल कुमकुमां जुरि आई सब बांम । परी है गुलाल नैंन
कर मींडत गहि पाये स्यांम ७ खेलत० मोहन पिया अकेले करि पाये
ब्रजदिसते छेरि आई घेरि । बोलो जू अब आय छुडावो बलि लेव लिहीं टेरि
८ खेलत० आजि हमारे बसि परे हो न लेहो तो जाइ छुडाइ कै बलि छूटो आ
पुने हो कै राज सो तीमैं आवो ला ९ खेलत० एक श्रवन मैं कहे कछु गाजत
एक भरत अंकुवार । एक निहारत रूप माधुरी हरि रहे आपो हीहार १० खे
लत० एक बनाव बैंदी देत है वारी कर पल्लव छुवत कपोल । बदन जुवती ब
डभाग निहे हरि बसि कीये बिन मोल ११ खेलत० एक उवीवति वदन चि
बुक गहे हम तन स्यांम निहारि । एक हसैं नैन सैंन मिलवत बैंनन देत है गा

रि।१२खेलत।तवैतुमवसनहरेजतेहमकीनेंअनेकउपाय।अवेंहमहअो
करीतुमछांडैगीतुनगाय।१३।खेलत।अांखिदिखावततोकहातुमक
गीकहारिसाय।हमकरैंहीअापुनीमनभायोछांडैगीतुमहिनचाय।१४।खे
त।एकगहिलीनेंफेंटएकपीतंबरलीयोछिडाय।राधाजूहसतहरिजईग
गदीसैननदेतवताय।१५।खेलत।उडतगुलालअरुनमयअंवरछविछ
ईभांनेसांक।राधाजूकेवेअगमकरेनांहीमुखचंदनीलांवरमांक।१६।खेल
।हरिजूअापुनेंकरसोंघूंघटपटकीयोदूरि।हसतप्रकासहोतचहुंदिस
तेंसुधाकिरनिभरपूर।१७।खेलत।हसिकहतसहतसवहिनीकेअाभूष
नहमेरेदेउ।नासाकोमुक्ताहेंदेहूंपीतांवरमेरेदेउ।१८।कहोंकहाफगुत
देहेतुमवोलोसांचेवोल।केवेंछुटोअापुनेकैदेउसीदीमाकुसोलखे।१९।
खेलत।मुखकीकहतसवैअाैरमनमेंअधिकसयानेंहोकपटकरैंगेव
लिनेयातुमहजानकिनदेउ।२०।खेलत।खेलैफागअनुरागसिंधुवढो
मचीअरगजाकीच।उजनारीकुमुदिनलोंफूलीहरिससिराजितविच

खेलत॰ २१ अपि सिधन व्रनि धिव्रजविप्पनिडोलतघरघरद्वार नवलव
संतवल्लवविहरतवृंदावनलतनलतनकुमडार खेलत २२ सोभा अधिक
निरखिमोहनकी मनमैंयहैविचारि व्रजनारीतैसी क्यों न जईहोकहत सक
लसुरपतिनारि २३ खेलत॰ जुगलकिसोरस्वरनरजजाचें सरसधमार हा
रिगाये मदनमोहनकी याछविऊपरिसूरदासबलिजाय २४ खेलत॰ रा
गा काफी मोहनकेखेलतरंगुरस्योहो प्यारोलालनखेलै फागु खेलमैंचल
तकरमै अतितरकमारतै पियकेपाइ वेलिचलीजोवनमदमांती अधरसु
धारसपानैमाइ १ इतलीयेंकनकलकुटियांउतहरिओडनिसाई
इतहीरंगरंगीलीराधिकाउतहै नंदजूकोलाल २ मोहन॰ वागेसरसदो
ऊ दिसतेसोहतीकंचनमाल फुंडनिजुरीचहूं दिसतेधाई हैं गावतगीतर
साल ३ मोहन॰ मारडिगरजवऊलटिचलीहै वैनीफूरेसवअंग मांनूं इंड
केवदनसुधापरउडिउडिपरतभुवंग ४ मोहन॰ खेलदगोकोऊजिनिक
रोनागरलालकुंलागेगीछोट मोहनमूरतिसांवरीहोंराखोंगीअंचरकी

वोट।५।मोहन॰गाए कजु आई आंन गांवते सुंदरी परम सुजांन।।ह्न्ह न्हा दो आई
कौंन गोप्य को मारत नौंह के वांन।६।मोहन॰ सकल सखी मिलि झ्फन आ
ई जन मैं मोहन राई कौंन।औंगे फिरत पीत पीतांवर मुख मुरली कर वैन।
७।मोहन॰ झांकि जे रिंडनी परवारज और आ वजड फतालमदन मे रिय
रराय गिरगरी विचि विचि वैं निरसाल।८।मोहन॰ जमुनां कूल मूल वंशीव
ट गावत गोपी धमारि।लै लैनांव गांव वरसानों देत परस पर गारि।९।मोह
न॰ फेलै फाग प्रेम सौं मोहन फगुवा दीयो है मंगाय।हरिनारायन प्रभु सो।
ना वादी स्यांम दास वलि जाय।१०।खेलन॰ राग का फी।तुम चलौ सवै मि
लि जां हरि खेलन हो रियां।आपुनी आपुनी सुरंग चूंनरी मोतिन मांग भरो।
रियां।१।थर रहरात अधर पर मोती औं मियां के सरवो रियां।चो आ चंदन अ
गर कुमकुमां भरि भरि दीना कमोरीयां।२।रंग हो रियां।॰ औंग सुहंग गुपा
ल विराजै ते भली वनी है जो रियां।के हरि लंक नितंव विराजत गजगति
चाल चरो रियां।३।रंग हो रियां।॰ पिचकारी मोहन परि डारत वै हसि घूंघ

होली॰ टमरोरियां।बाजैतालमृदंगअघोरीपढिपढिबोलतबोलियां।४।रंगहे
२१ यां॰नैनआंजिमुखमांडतस्यामकेसबमिलिकरतकलोलियां।स्
प्रभुसबसुखकीडतविहरतब्रजकीखोरियां।५।रंगहोरियें॰।राग व
रंगहोहोहोहोहोरियां।इतवनेंकिसोरललनपियउतवनीनवलकि
रियां।१।रंगहो॰एनवलनीलजलदतनसुंदरवेकंचनतनजोरियां।
केअरुनवसनतनराजितउनकेपीतपिछोरियां।२।रंगहो॰फेंटनि
गगुलालविविधिरंगअरगजाभरतकमोरियां।छलबलकरडरसु
लपटावतचंदनवंदनरोरियां।३।रंगहो॰राखीयेकरतडरीयसबन
लिकेसरिकनककटोरियां।सनमुखडटिक्वायधीठकेजायेस्यामस
वैंठोरियां।४।रंगहो॰।बाजततालमृदंगमुरजडफमधुरमुरलीधुनिघो
सां।नांचतगावतकरतकुतहलपरमतचूरअरजोरियां।५।रंगहोरि
एकनिकरिगैंडकुसुमनिकेओरफूलनिकीजेरियां।भाजनिमारति
तपरसपरपरीरनूफककोरियां।६।रंगहो॰प्यादीरसनिवहोनिसबा

वांधिप्रेमकीडोरियां माधुरी हेतकेसुखकारनप्रगटीऋतलजोरियां रंगहोरि

में०१ राग काफी खेलैश्रीराधा बोलेसहोहोहोरी खेलेश्रीराधागोरी स

हेली संगसुहाईवनी सबैएकहीदाई१ बोलेसव० नरे फेटनिगुलाल आए

ग तनंद के लाला २ बोलेसव० सौंधो वक्तनातिमगायो प्यारीजू के अंगलगा

यो ३ बोलेसव० सबै मिलि धाई होई लालनको घेरिकैं ल्याई ४ बोलेसव

ऋरीकेसरिकंमोरी लालनके सीसतैंढोरी ५ बोलेसव० ऋरीरसदृष्टिनिहा

रे छुटी अनुरागकीधारे ६ बोलेसव० बाजेउफताल मृदंगा वीनवांसुरीम

कुरसिंगा ७ बोलेसव० गारीरसभरीगावैं तारीदेदेलालनचांवें ८ बोले

सव० ८ बाजेउपताल मृदंगा वैनिमुखचंगउपंगा ९ बोलेसव० सहेली

कोनैखवनायो माधुरीकेमनकोभायो१० बोलेसव० सवहोहोहोरी

लैश्रीधौरे गोरी रा० काफी बाबृजमेंहोरीरंगवाढ्यो हो सवहिनमेंऊ

लासखेलतमोहनरंगभरेहोनंदरायकीपौर हलधरसुबलश्रीवाऊ

श्रीदांमासवलरकनसंगजोर१ विविधिभांतिकेनैखव

अतिही मुदंग गावतईगावोरीतारीदेदेकिलकत अपनें रंग २ ढोलकढोल
पखावजबीनामांफसंखडफताल भेदरडमडमी अगनितबाजे बिछि
छिवैं निरसाल ३ कुलाहलसुनतसबैब्रजसुंदरिसकलसिंगारसवारि
झुंडनिमिलिगावत आई हो अतिहीपरमपरगारि ४ डंडुंबदिसतें छुटी
पिचकारी घुमड्यो मैं अबीरगुलाल रपटझपटबसनलेधावैंतोडततुरम
निमाल ५ तितिहिछिनचपलचंचलचंद्रावलिहलधरपकरेदौरि आंषिनि
आंजिमुखमीडिकुंमकुमांछाडेहैं रंगनिबोरि ६ पौंछतननैंननिचोल
नीलपटतननांहीबसनसंभार होहोकहिसबग्वालहसतहैबाढ्योहैरंग
अपार ७ तबनंदनंदनफगुवादेनमिसिप्यारीसनमुषआयमृगमदके
सरकुमकुमअरगजाभाजेहैं उरलपटाय ८ तबसकुची गोपीसबमिलि
कनककलकुटीलेहाथ तबयोंधाईछबीलेलालकोंखसितकीनोंपटमा
थ ९ भाजेसकलकोंखसितकीनोंसखीसबसंगकेलीनैंघेरि अछुन
नउवायगईलेपियकोंफिरिचितवतमुखफेरि १० प्यारीधायगहेभुज

लि॰ वेंदन अति आतुर अकुलाये। करत मनोरथ सवही जियके सरस वसर ते अंकुरु छाये। ११। एक सखी सौं धोलपटांत मिलि नावत केसरि नीर पीतांवर सुंधं घवनावत ही राधाजूके चीर। १२। एकक हत वलि वलि जोरी कारत अनुलनवी हिसमां तू वदन निहारत चंद चकोरी अंगन मात है फूलि। १३। एकक पोलपर सिलपटा वत केसरि कुमकुम धोरि। एक नालर चिवेंदी वनावत। हसत सवे मुरव मोरि। १४। एक कहै अलीवनी है सहचरी श्रीराधाजू की जोरा। इहसुनि मुसकि हसत पिय प्यारी चितवत नैंन निमेरोरि। १५। याछवि परतन मनराई लौंन उतारि। चिरजीवो जुग जुग यह जोरी कहत यों अहत हैं अचरा पसारि। १६। हरि संग करत विहार परसपर विविधि विधि रसीक निकछुव रन्यों न हि जाई सुरनर मुनि वेथकित भये हैं रतिपति रहे हैं सिरनाई फुगुवा मन मांन्यों दीयो है तें गावत यहु जन सदास। १७। रागकाफी
री

ली॰ ३

१मोहनसंगडुंडनीउफसहनाईसरसधुनिराजे।विविविधिजुवतीमनमोह
मझवरिमुरलीवाजे।२।स्यांमांसंगमृदंगझांझिआवजअनघातवजावे।किं
रीवेनाआदिवाजेसाजेगनगनतनआवे।३।तवजकुंवरकरलीयेंराजत
तनखचितपिचकाई।उनकरकमलकुसमनवलासीगावतगारिसुहा
धतवमनमोहनजुवतीजूथपरविविधिरंगवरषाए।सुखसौंजफागुको
लीनोंयोनोंनवभावनमांनोंआए।५।तवललिताचंद्रावलीमतोकरसुव
लसैंनदेलीनों।६।लवलककरिगिरधरगहिपाए।वेकोंपहमतोमनकीनों
६सखानेरस्यांरविगिरधरगहिपाए।जयोजुवतीनमनभायो।आंषिआंगि
गूंथिवेंनीमृगनैनीनेखववनाए।७।फगुआकौंरहेंनेमनमोहनमोतिनकी
परिमालउतारी।वंसीफटकलईकुकिप्पारीअधरनविलसंनहारी।८।
दीनेछाजीआपआयकरितवस्यांमसखामेंआए।तवहीआपुनीसमसस
रकरवेकोंवलदाऊकोंपकराई।९।जवहलधरवसपरेजुवतिनकेस
नैवाए।जो।ज्जी।ख्वुढिउपजीजियाकेतिहितिहिभांतिनचाए।१०।कीनोंव

चसुवलश्रीदमोंवलिदाजऔनिछुडाएफगुवादेनकसोमनमायोव्र
जपतिदेरसुनायेः१११तवव्रजराजसववसननूरवनलीएजुवतीजूथढिग
याए।१२देतअसीससकलव्रजसुंदरीरसननैननलरविकोरी।चिरजीवो
मदनमोहनपियास्यामममोनोंगजरस्यामस्यामांजोरी।१३राग काफी।त्रि
भंगीमोहनमनहस्योहो।हस्योमनसकलघोरवसुरवदैन।त्रिभंगी०१हे
ग्रहतैंवनितैंव्रजवनिताचलीहैनंददरवारदेरवतरूपमदनमोहनको
कीनोंहैमदनविस्तार।१त्रिभंगी०तनतनसुरवकीसारीहअतरोटीछ
विदेत।नीलकंचुकीअतिराजतहेदेरवतमनहरिलेत।२त्रिभंगी०वि
भिवांहनमरवमांगविराजतसीसफूलकीजोति।करनोटीओरकरन
फूलमांनोंससिउडगनकीपांति।३त्रिभंगी०मृगमदआडलिलाट
राजितमध्यचंदनकीविंदाकहीनहीजायहिसोभारासीमांनोंराजतई
४त्रिभंगी०नैननिअंजनरवंजनमोहेचंचलतायकीमीनावंक
निमैंअतिमृगमोहेहैंपुतरीकमलआधीन।५।त्रिभंगी०भ्रूत मलप

रिवुकचिहनकैसोदेषियतुहैमधुकरसुतजैसोहोय करिमधुपांनपांनमुषदीनोंरह्योहै
कमलढिगसोयतै

रिमूऊटीराजतमांनऊकांमकेवांन छुटतनांहीआपुवसिकरिराषेहैंम
दाहकीआंन ६ त्रिभंगी॰ नासावेसरिजलसुतराजतउपमाकहीनजाय
मांनोंचंदनिजवंधुजांनिकैंलीयोहैनिकटवुलाय ७ त्रिभंगी॰ अरुनअ
धरमधुरीसीवांनी मुसकतिवररवतफूल दसनदाड्यौंकेवीजवोएहैंमध
सुधाकेफूल ८ त्रिभंगी॰ चारुचारचुरीहरीहरीपहुचीपुंजीउरविराज
सुढार करपल्लवमुदरीविराजैयेढिगवाजूवंधमरेसुपाट ९ त्रिभंगी॰
मुक्तमालचौकीरचंगन्यारीडलरीपोतिकंठपचकरीगनगीतमुरवतोलीय
वाकीजोति १० त्रिभंगी॰ गजगांमिनिजांमिनिअतिअदीपतपगनूपुर
झुनकार मांनोंमरालमंडलीनृत्यतरसरस्योहैरतआकार ११ त्रिभंगी
॰ छुद्रघंटिकाकटितटराजितसपतसुरनकुलवाज आतुरकैआई
धाईसवैमांनऊमित्रगनराज १२ त्रिभंगी॰ सकलसिंगारकीएव्रजवनि
ताउपमाकर[illegible] कोटिरायकेसमांनोंप्रकटहरिआय १४ त्रिभं
गी॰ १५ चढ्यौ [illegible] नेरिव [illegible] मांनोंमुरलीचंगउपंगमदनके

रिअरूरायगिरगरीवाजतढोलमृदंग।२५।त्रिभंगी॰।चोवाचंदनओरअरगजा

सखीजवादिअबीर।नवकेसरिमटकीनरिघोरीनिरमलजमुनांकोनीर।२६।

त्रिभंगी॰।छिरकेजायकैंगोपालग्वालसबबाढ्यामनआनंदनिर्तितहसतकर

तकुतहलराजितश्रीवंदनंद।२७त्रिभंगी॰।राग विहाग॥तालगहिगहे।वरसं

नेकीग्वालनीहो।खेलतफागवसंतसंकनमांनेकाऊकीमातपितासुतकंत।१

वरसा॰।त्वंऽनगाचंऽवलीमधिनायकराजैराधाहो।सहजसरूपसुहांवनैंली

लासिंधुअगाधाहो।२।वरसा॰।सकलसाजसबलेचलीआईवटसंकेतहो।प

वईसखीइकआपुनीनंदकुंवरकेहेतहो।३।वरसा॰।चलीसबैचतुरसिरो

मनिपेलनकोंरसफागुहो।रसिककुंवरिवरवलांनकीतुसोंअतिअनुरा

गहो।४।वरसा॰।चलिमोहनहसियोंकह्यो।सुनऊसखाश्रीदांमाहो।नेह

मपरिआईसबैजुरीउनमतअतिसैनांमांहो।५।वरसां॰।वेगचलोसबैग्वाल

ले।दिखावोआपुनेंहाथहो।जैसैंवजरिनआवहीछाडिआपुनोंसाथहो।६

वरसां॰।अनंतगुलालगुंउउावहीअवीरलेदीयेहैंनिसांनगुराऽहो।वऊत

॰।जैसैंवजरिनआवहीछाडिआपुनेंहाथहो॰

ारी॰ कलसमोंधरेंजरैकुमकुंमपैंजरीपिचकारीहोमेघघटाज्योंवरषैंहो७व
२५ दलवलदमैंदेखिहीकैंसनमुखआईधाइहोमेघघटाज्योंवरखहीअदभुत
गमचाईहो८वरसा॰ कमलनीललेनैंननिवासीकुसुमगेंदकलेमारमु
नागेमनमोहनांहोहोकहैब्रजनारीहो९वरसा॰चंद्रावलीवलजुगहेस
मगहेसुकुमारीहोसखागयेसवनाजिकैंलीएहैंदमांमांछुडाईहो१०वर
संकरखनसौंधैजरेस्यामजरेसुकुमारीहोनैंननिर्मसिसंवारिकैंनेखवन
वुज॰ नारीहो११वरसा॰रसवसजईसुंदरीलीलाकहीयनजायहोवजजुजअ
इनवसिकीएश्रीगोवर्द्धनरायहो१२वरसा॰रा॰ अ॰ णो गावतधमा
आईब्रजकीसुकुमारिनारिचित्रअंकितडफसवारिगिनटकोरअंगुर
धारिवजवतरिफर्वरगवारि१गावत॰सुनैंनिकैसेसुघररावअनेकली
वुलायसंखश्रीगेंचंगउपंगमजवरिवंसुरीसहनाईघुघरूघंटाघण्पा
करेंतालसहतेतारकुंदनीमृदंगधारिसाधिलेगहैतानहोनंदहार२गाव
चोवामृगमदलैमुखमंडितकीएगुलालकेसरिकेंसहतेंनलोकतरहीं

पुनकंचनकरसीसुदार।पिचकाईकरनलाईधाराछूटतसुहाईसहचरीसमी
पलाशीछिरकतसीहारीहारी॥गावत०॥अतिविचित्रवालमिगविहरितस
मिलजुवतीजूथगावतदेसुरसजुतहोरीकेगीतगारीमुरारीदासप्रभुगोपा
लफागुवादीनोसंजारहेआसीसजलदिचलीरूपमाधुरीनिहारी।गावत०
धारा॥सो१७॥मेरेनंदनपाछैंपरयोरीक्योंबच्चेसोसिरवरीहितूसयांनीया
केरंगनराच्यो।एकवस्त्रकरलेडफायहेरीपछिदोऊदोहीउठेगायक्वज
कदेखिनैंननलचांवैनैंननहाहाषाय।मेरेलीनेउगरवगरमेरीआंनि
करैपहचांनि॥वारवारकेआंवनेंऔसखीहोंगईलीयेजियमैंजांनि॥
नांमऔरकोलेसखीएटेरिमोहिसुनावै।होंसमुकोंजोवहकहैसखीकों
ज्योंरहेवतावै॥३॥मोहिदेखिकैंफुकिपरतहेरीगहेलेतऊसौस होंडरपोंजि
यआपुनेंसखीसासननंदकोवासाध।दिगहोयकहिजातहैआवतकेथीं
फागातवकछुवोलीहैनहीसबनरनारीअनुराग॥५॥ज्योंज्योंहोतजनांनों
त्योंत्योंपीडेप्रीतिवारवारकहतांवनैंसखीज्योंग्रीवउहेमुनैंन न

री॰
६

वनीरीवनकछुशंन।८।हेंनसमुफोंजियआपुनेंउतजगनाथसैंगायाने॰
राग सोरठ॥ होंकैसेंकैपनघटजांऊरीमेरीगैलनछाडैसांवरो॥ होंलाजतिड
रपतिरहोंरीमोहिघरेनकोऊहेरी॥१मेरी॰॥जितदेखोंतितदेखियेरसि
यानंदकुवार॥२निवारतिकैसैंजीवोमोहिपलकनकरतजुहार॥२जमु
नांजलगागरिभरोंरीजवसिरधरूंरीउचाय॥सोअंचरकंचुकीउडेरीमे
रोहियरोतकिललचाय॥३मेरी॰॥लकुटीलेआगैंचलेरीमेरोपंथसवा
रतजाय॥मोहिनिहोरोलायकेंवहफिरचितवैमुसिकाय॥४मेरी॰॥गागरि
मारैकांकरीरीएडीछुवावैपायलात॥पनघटपैंगढोरहैमोहिटोकतआ
वतजात॥५मेरी॰॥काहूमिसहाहाकरेरीलंगरमोहिनिहारि॥ओढनके
मिसिओढनीपीतांवरमोपरिवार॥६मेरी॰॥मोतननागुलगैनहीरी॥
वाकोमनललचाय॥तवहरिमेरीछांहसंवेहीछांहछुवावतजाय॥७॥
अवलगुकछुसकुचतरहेरी॥प्रगटकरतअनुराग॥अवकैसेंकरिछूटि
हूंजवसीरपतिरीजोऊंफाग॥८मेरी॰॥घरघरतैंब्रजनारिचलीरीविवस

नईननिनारिमांगीफगुआतीदीओदोऊजोमिलिउरसवडारिरी॥९॥
मेरी॥जोअवजान्लालनमिलियेनांहीरीवांच्योचोंपकोनांचसिरोमनि
प्रभूदोऊहिलिमिलिरहेद्वैकरतमनोरथसांचरी॥२०॥मेरी॥गेल॥रागनट
जुवतीजूथमिलिरवेसंगफागखेलतनंदलालकुंवरहोरीहोहोहोरीवोल
ना॥गावतनटनारायणरागमुदितदेतिचितफागचऊंदिसजुरीगोप्यांदं
द्देलनां॥१॥होरी॥वाजतआवजउपंगवांसुरीसुवैनचंगमदनभेरिभऊ
वरिभफकांझिंदोलनां॥२॥होरी॥चलतसुरअनेकतांलसुघररायश्रीगो
पालवेणुमध्यगपोंनकरतहोरीवोलनां॥३॥पहरेतननानाभांतिनांतिसोभा
कछुकहीनजातअंवरनविविधपटअमोलनां॥४॥गहिकुंमकुमसुरंगछि
रकतपिचकारीभरिभरिपरसपरदेतकुचकुचजकीरवोरिरवोरिदोलनां
॥५॥कारूकोचिवुकचारुपरसैकारूकीवेसरिखुभीकारूकीपकरिहा
रतोरिकंचुकीकेवंधछोरनां॥६॥कारूकोलेतहारतोरिकारूकोगहेनु
जमरोरकारूपकरिआढिदेतकरझंझोरनां॥७॥गोकुल

होरी॰ सौरंगचढ्यौओरचढौसवतनअनुरागउमगपोरसअमोलनोकुंजनव
२७ प्रभुगिरधरपियप्रेमसिंधुप्रगटनयोसुरविमानविथकितभयेदेखि
जकीलोलनोंहोरीहोहोहोरीहोरीबोलनो ० रागधनासरी निकसेमोहन
लषेलनवृजिमेंफागरीरंगहोहोहो घुमडयौहैअवीरगुलालमनोंउनयो
नुरागकी सोभितमदनगुपालकटिवांधेंपटसोहनोंकाछनीकाछेलाल
लनिचोयरंगीमनोंमोरमुकुटछविदेत औनमैनमानोंपेषनोंसवहीको
मोहरिलेतवंकहसनिडगपेषनों इतआईवृजनारिमृगनैनीगजगामिनी
केहैमदनगुपालघनघेर्योजांनूंदामिनी छिरकतपीयनंदनंदतियपटओ
वचांदनीमांनौंघनसन्योंचंदउरहिनिकसिपुनिआंवही वनैहितियनि
अंगछिरकिछविछविहेमकीमांनौंफूलीरंगरंगललितलतागनऊ
कीचढौहैपरस्पररंगउमंगीउमंगिरंगजरनिमेंजवगहिरंगनिजरेमें
नमूरतिसांवरेहरेंहरेंहरिहसिपरेमुनिमनव्हैगयेवावरे नईसरस्वत
मतिवौरेंऔररवेलकहांलौंकहौंरंगभीनेंसांवलगौरनंददासकेहियव

रस्रा [illegible]

हरिनाम [illegible]

रसचा [illegible]

पसव [illegible]

जूकै [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

षिकीनीजू । आवोनिजभौंनविराजोजू । वरसोंनौंसकलनिवाजोजू । अतिकृ
पा अनुग्रहकीजैजू । हमतौ अपनेंकरिलीनेंजू । गुनगनैंनपरतमुखगाथा
जू । ब्रजिकीनोंसकलसनाथाजू । तुमतौसवकेसुषदाईजू । मुषकोजेकौंनब
डाईजू । तुमतौसवकीसुषरासीजू । एसफलकीयेब्रजवासीजू । तुमतौयहनिज
व्रतलीनोंजू । जिनजोईजाच्यौसोईदीनोंजू । यहजगतुम्हरोजसगावैजू । इहसु
खकरिकहावषांनैंजू । जवकरगहिढिगवैगारीजू । गांवैंगारीब्रजनारीजू ।
तुमकोंब्रहैएकवातजू । तुमसांचकहोइकगाथाजू । जवगरगतिहारेआये
जू । वलरामकृस्नगुनगाएजू । मुनिवासुदेवकरिलेषेजू । वसुदेवकहातुमदे
षेजू । यहसुनिसुनिवाततिहारीजू । अचिरजउपजैजियन्नारीजू । औरसंका
जियआवैजू । यहभेदकोऊनहिपावैजू । पतिसाधुपरमतुमपायोजू । यह१
तकहांतैंजायोजू । याकेगुनरूपनिहारेजू । यकुमिलहिनकुलतिहारेजू । ह
मसौंसवलाजनिवारोजू । ऊंचेकैकौंननिहारोजू । कछुकसौहमारोकीजैजू ।
वसिकैंसवकौंसुषदीजैजू । रहियेकछुघौसहमारैजू । हमचलिहैंसकलतिहा

रैजू।तुमहमएकैंकरिजानैंजू।नंदगांवसोईवरसानौंजू।जैसैंकछुनंदहिमांनोजू।
तैसैंहरखभांनहिमांनोंजू।दोऊहैपरमसनेहीजू।येएकप्रांनदैदेहीजू।सुनिसु
निजसुमतिमुसिक्यानीजू।वोलीकछुमधुरीवांनीजू।वसिहैंकछुद्यौंसतिहारै
जू।कीरतिचलिवसऊहमारैजू।तवहसीसकलव्रजिनारीजू।जसुमतिकीओ
रनिहारीजू।व्रजिभयोकुलाहलभारीजू।नांचैदैदैकरतालीजू।यहरसवरसै
वरसानैंजू।विनकुवरिकृपाकोजानैंजू।कीरतिजसुमतिजसुगायोजू।वृजि
वासमाधुरीपायोजू।१२।।विलावलपायामैंउचसमोंदविविगुलालअनी
असीवेलनमनजांमीइसनीउरदेनाल।सांवलानीछो।हउवेसकडीगली
मलैनहूँमैंउमुषपरलांवदारूमाल।संभमदीअंषियांजुलमकरैंदीयांपां
वदीनीइकजंजालनैंनूंदेनालमैंनूंकरतसलांमांजवमुडवेषांकहंदांकी
तानिहाल।रागधनसरी।अतिअलबेलीनाडिलीअलबेल्यकुंजवि
हारीलाल।प्रेमसिंधुअनुरागकीरितिवसंतमंजरीरसमत्त [illegible]
सहचरीजुगलप्रेममदछकीआहिललितपराग [illegible]

हारी॰
२९

गिरहीलपटाय रूषनवजविधिराजही वसनलसनकीअद्भुतजोतिमां
अतिअनुरागसोंकोटिकलानिधिअवनिउद्योत २ अपनेंअपनेंमेल
षेलतदोऊवजविधिफाग गोरीऔरसबसांवरीमांनतहैअपनौंवड
४ चंगउपंगमृदंगतालडफ मधुरमधुरमुरलीघनघोर पिचकारिनव
लावहीपोषतचातिकनैंनचकोर ५ गावतअतिउछाहसौंरूपअनूप
वजकेलि प्रेमसुधासींचीसवै जुगलचंदआनंदकीवेलि ६ फलजहां
हांदेषियैसरसमधुरसुसक्यांनअपार रसिकसवैहितहाथसोंगुहिप
रेअपनेउरहार ७ दंपतिसुषनहिकहिसकौं रोमरोंमरसनाजोहोइ
श्रीरूपलालहितहियरहौ जुगलकेलियहतनमनजोई ८ रा[illegible] सा
होरीयावगरमैंमोंचिरहीहैपनियांभरनकैसेंजांऊं लजलीयेमेरीघूंघ
टपटसौंकिहिविधिनिकसनपांऊं दौरिदौरिरंगभरतपरसपरतिनसें
कहावसाव नागरीकान्हछुवोमोहिजिनि नांवधरैसवगांव १ रा[illegible] प
ज रेषतानकीजियेनिजरमेरिदिलइस्कदीनिगाहै देषैसबषेलवी

छुवोमतिवांहैक्यांरंछनांगुलालकारुमालकीअदांहैलगैगाकलंकफे
रिवनैंगीनिवाहै॥१॥ अथ होलंडोललिष्यते॥ रागधनासरी॥ जमुनांपुलि
नसुहांवनोंरंगभीनोंफूलै।तनमनमोदवढाईयेंडोलसुहांवनोंरंगभीनेंफू
लै।कंचनखंभजटितवनेंरंगभीनेंफूलै देषतमनललचायडेलसुहांव
नोंरंग॥२॥मांनोंजुगससिएकगारंगभीनेंफूलैकुमुदनिफूलीदिगआयडे।
लसुहांवनोंरंग॥३॥यहछविकविकोकहिसकैरंगभीनेंफूलै।चितवनिमृ
ंडमुसिक्यायडेलसुहांवनोंरंग॥४॥च्यारयोंजगचंचलवनेरंगभीनेंफूलैउ
पमाकछुवहरायडेलसुहांवनोंरंग॥५॥मांनूरूपतमालमैंरंगभीनेंफूलै।षेल
तमीनसुहाइडेलसुहांवनोंरंग॥६॥अद्भुतरंगवढ्यौतहांरंगभीनेंफूलै।सार
दवलिवलिजायडेलसुहांवनोंरंगहैभीनेंफूलै॥७॥राग धनासरी॥सा रस्व
लिवलिजाय॥सुरंगगुलालअवीरवंडसंगगनरयो घुमडाइ॥मनुहरउ
पकारनैंरच्योहै वितानवनाइ॥वडभागनिभांमिनी लागतप्रीतमउर॥
धार॥मांनूंसुंदरमेघसों।छवीलीछटालपटायसो

डोल॰ नछिनछविअधिकाय दामोदरहितरसिकजेजीवतसहजसगा ।
३॰ सारंग ॥ झूलतडोलमोहनीमोहनझूलिझूलिवंशीवटछहियां ।
डीगहेंएकभुजराजत ॥ एकभुजादीनेंगरवहियां रितुवसंतकेवसन
रितनरूपछकतचाहतमुखचंदियां सहचरीसुखकुंजनललिता
निरखिहरषिराधेहियमहियां इतिश्रीडोलसंपूर्ण ॥ ॥श्रीरसु

श्रीराधावल्लभायनमः।तिताल।राग अडाणौं।हरिनाजत रहे [illegible]
लिगहिलीनैंचितचोरठरकिगयेपियवाजलतनदिव परे [illegible]
अ१ अपनौंमनलायोकरलईपिर्यकारीकरनमरोरलागरिय [illegible]
गवांधिपीतपटछोर।४।राग अडाणौं।इकताला।जातकि [illegible]
गहोरीहो।कैरहेयाहजवीचिडवहियांआईनवलकिसोरि [illegible]
रचेवजतदिनकहाचावरमैंचोरीहो।नागरछैलहट [illegible]
येसोयोरीहो।५।रागविलगरो।इकतालारंगहोहोहोरी [illegible]
नकीदोमिनिश्रेंगरूपअनिरांमनिस्वांमिनितिय [illegible]
मुदिराकानिसिमुखअयमथेलिआरंनहैहोरी [illegible]
दनरनथंनहे।वाजतडफडंदनीसहनाइंगो [illegible]
गमुखऔसरवरसांनौंतिहिवेरनवस [illegible]
रिहै।अपअपनैंभवननितैंनिकसी [illegible]

री॰ लमनौंचौंरढारैं।वावाआकारलिजतछिनवारेतनअमोलहै।देषीप्रियाजं
३१ आवतउतमनमोहनअतिसुषनैं।सावधांनअयेगोपसिमटिसबवाजिउं
वाजेघनैंडफंदिसिगारिधमारनिकौसुरमिलिमंडपगये।छायकैं।सिरस
धिछूटिगईश्रवनसुनिसुनिमनरहैलुभायकैं।उतनंदनंदनरसिकसिं
मनिइतराधाअनिरांमिनी।उडतअवीरगुलालगगनचढिगईदिवसतैं
मिनी।बृजनारीपिचकारीधारादैरीकिअंचरपांनकौंसुनिसुरिनरनिह
विमैंकोकरिसकैवषांनकौं।रूपलालचीलालवाललकौंजरतहैनियरैं
आयकैंगहिलीनेंघनस्यांमसवनमिलिदामिनिसीदमकायकैं।अंगपर
सिमैंरंगवढ्यौदौऊपरिरंभनिउरफाइकैं नैं।नागरियाजवफिराजितिकैं
वजतचलेसहदांनैं।रागआडाणौ।तिताल।रंगहोहोहोहोरीमची।अगि
तछूटतकरनिपिचकारीडफंदिसिचमकतरतनषची।लालगुलाललये
मुखमींडनिमृगनैंननिकीमौंहनची।उरतगहतफिरकरतमनोरथपदंप
तिअंषियांपीकरची।नागरीदासमिलनककोरनिहोहोवोलनिको

जनवचीरारागञ्रडाऐसैंति तालहारीवेलिगदेदोजकेसरिकीकीचवीच
मोतीवेमुमारपरेहारनिरलकभैंरंगनिवसनिझीजेअंगनिलपटिरहेकरके

ग

पसैनाारागप

परजा

रिनारिनवनित्तिस्यामसुधंगारंगज्जरे

मउमंग। नागरीदासजूई अंषियांनकीनिरषिनिरषिगतिपंग १ रा० प० ज
ति० ल० रंगीलीगलिनविचहोहोहोरी इतनंदनंदनरसिकलाडिलोउततै
रवभांनकिसोरी उडतगुलालकछूनहिसूझतझकझोराझकझोरी नाग
रीदासपरसपरदाउततिनरिझरिकनककमोरी १ रा० प० ज० इकताल गले
विचइस्कपयाजंजाल क्यौंमैंगईदिवानीवेषनिनंदनंदनदाष्याल मुह्गुला
लपूंछणनमेरेलायारिंदरूमाल नागरीदासजूईजिसछिणतैंसवसुषदोहट
नाल १ रा० प० ज० ति० ल० श्रीयहव्रजमंडलपरमसुहावनैंा इहांसदास
हजरसरीति नंदगांवबरसानैंकीअबवजविधिवाढतप्रीति उतैकुवरनं
दरायकोइतश्रीवृखभांनकुमारि लगनलाजउरझेहैंदोऊनांहिसकत
निरवारि गनतरहततदिनफागकेयहआयोसोफाग वौरवौरडफवाज
हीअवदवतनहींअनुराग आजुषेलआरंभहैउमग्पोहीयेउलास येइ
तउततैंआयेदोऊविचसंकेतनिवास गांनरंगगहगडमंच्योहजरसोउ
लाहलछाय उडतअवीरगुलालसैांनउदिनमनिनहिदरसाय छैलछ

लीछिपसंवरे।फिरिचल्यौ१थ्यामरिझाजितवजुवतिनिमिलिगहिल्यो
हृतगतीउंदजीवाजिरे।क्रिदीयेविचकुंजकेरहीठिगस्यामांमतिनागरि
याइहिविधिरहे।नितिवरसंनेजीति।२।रागपरज।तितालै रगवगेवसनगु
लालरंगदोऊछविसौंलगिलपटाय१रे।उतिविंदितनमोजहोजपरहु
टतफंवारेरंगभरे।कुंजमहलरसफागमनोहररूपरीकिजीजिउघरे।ना
गरीनागरवदनचंद्रमैंड्गचकोरपरफिरेनटरे।३।रागपरज।इकताल।उं
उनिमैंत्रागुरहसिरसफाग।तालतांनबंधानगांनधुनि।परजगर
ग।वीनरवावमृदंगमुरजमिलिचल्यौझमकिझंकार।सषिनसहितदंप
गतिलेलैवलिछोउततपिचकार।उडंघातेंत्रावनिउलटनिकीछविवरनी
नहिंत्रावै।त्रलेवेलीसहचरीमैंचहचरिवाचरिचहलमचावै।नूपुर
सुनतविथकितरहेंकोकिलमधुपमराल।उउतगुलालगगनत्रांगन
सवहरितउंजनईलाल।जयेत्ररुनसगवगेवसनतनररगमगेनेह
नवीन।४।रपटायलपटोवेंतिहिछिनुगवरस्यांमरंग

अलकछूटीउरमालागरवहियांमुसकाते नागरियादुसिवसेमहलमैंहोरी
केमदमाते १ राग षं व ति ल आजफागुणसरसांनेवरसानैंसुष
देत आयेश्रीब्रजनंनजूकैनंदगोपराज सुंदरसिंगारेसवबीचवलरामसं
मसोहैसंगरंगनस्योकुवरसमाज १ कीरतिजसोदामिलीजारिनमैंजांकै
झूमिमिलेब्रजराजादोऊकलपटांन होतरसरीतिनिकेबिविधिविनोदतहं
धनघनवरषेमहिंद्वावारब्रजनंन २ गौरगौरवाजेडफगावेब्रजनारिगारि
गहिमहिमीरमईउमग्योऊलास होरीकोसोंहारफिरिमिल्योसमधांनौंत
मैंआनंदकुलाहलकैवीचरनवास ३ नंदकोकुवरब्रजनंनगोदलीये
वैवोलीयेंनंदब्रजनंनकाकुमारि उनंनिकैहाथदेगुलालहीषिलायेज
वनागरियावकृतनिदीनेंदांनवारि ४ राग षं व ति ल रस्योरंगहोल
सरसायये कणदिसपिय आईजवायेकणदिसपियआय गांवैसषीसु
हांवणीसाथेसूंजमुरजसोहैसाज कुंजसदनरैआंगणैरस्यामदनकुमा
ऊवाज फागुणसमैसुहांवणोरवेलैनवलरंगीलाषेल उडिगुलालघम

डिलीपियरसिकविहारीलाल॥९॥राग॥सोर
॥कोन्हो निलजगारिजिनदेरे हीहारीहाहा अवतोसोकुलाजमुरवलेरे

पियनैननिकीनीवोरीकहाकहौं

छिनलगाईहेमुरवकीढोरी॥इननैनकैहाथिविकानीदेरवनको
उठिदौरी॥नागरियाघरवरजितर
वगोरी॥२॥रागसोरठ॥इकताल॥प्यारीजूकेपुलिगयेसोंधे हौजीनेंवार देषि
सखीयहरीतिअनोषीवंधिगयोमनरिजवारफूलिरसोवैनांग्रीवादिग
टूटिरहेउरहार॥नागरियहछविहियेवसीविचमनमधुरंगविहार॥९॥
इकताल॥मोहनवारीवसिकीजै॥हसिलीजैहोरीमैंहोहरिश्रै

व ल दिहारीप्यारेजोचाहैसोलीजै ४ रा सो २ व इकता वोलैरंगहोरीहे
री होरीडोलैरसमत्तगोप ए इंद तामधिनायक ब्रजचंदनंदनंद निकसतज
हांजहांहोत तकेसरिकीकीच करतहै कुलाहलव्रजवीथ्यनिकैबीच जरतहै
निसंकजायतोरिकैंकिवार छाडतमनआयोकरिफागमग्नगवार २ सुनि
सुनिडफडंदनीचिचमुरलिकासाल झुंडनिमिलिझूमिझूमि आईब्रजवा
ल गाइउठीगारिगरजिरूपकीघटा उडिगुलालडउंवोरअटिगईअटा ३
होतविविधिपेलवढ्योसिंधुरसहिलोर गिरिगिरितहांपरतगलिनमांझ
हारडोर नीकेंनिहिंसकतेलषिजिनकेमुषमयंक तिनकौंलालधुंधिरमैं
निसंकजरतअंक ३ छूटिछूटिअंचरगयेषूटषूटवार हारटूटिमगनिपर
तमांनतनहीहार राधेसैंनपायसिमटिधाईसबवाल कहिहोहोहोहोरी
होरीपकरेनंदलाल ४ पैंचतइकर्किकिनीकटिफिरतसंगसंग गेरील
पटातएकलपटतअंगअंग गजरस्यामउरकनिछविवढ्योरंगरंगना
गरियानिरषिनैंनजयेपंगपंग ५ रा सो २ व इकताल रसफागआज

वाजैडफडङ्गीसहनाईकलगारनिधमारनिधुनिगांनरंगछाईधसवरवेल
नकौंउमहेउतकंगतममैनेनांवैहोसाजिकैंचलीहैमांनौंत्र्रनंगसैनांउ
उतमोहनांरंगीलोइतराधेरंगवोरी।इजवीथनिपरसपरमांचीहैरंगहो
री।रुत्र्रांचीहैत्र्रनंगधारा।पिचकारीरंगधारावोहै।छूटतसुहाईजरिगा
जतपकरिलैसिरनावतकमोरी।डऊंत्र्रोरफैरहीहैफकफोरी।पटप्रचु
रउरसरिगेउरहारडोरटूटेकुकिफूलतहैवैनांवरवारपीठछूटेतियदा
मिनीनघेस्यौघनस्यांमरंगभीनौं।कोमलैगईहैवंत्रीपटपीतषेचिलीनौं
वनमालकौंउतारतवनमालहोतप्यारी।यहछविनागरनागरियाटरैनं
जियसौंटारी।९राग़सोरगतिताल।विचइजनास्यौंरैकुंडराधारूपहैरूडो
यीवकुकांयांकेमकनांचेसीसकेसांरेजरूडो।केसरिरंगभीजीसाडीमैंकभ
लकिवस्यौछेरूडो।देषिछक्यापियरसिकविंहारीरह्यौधीरधरिरूडो।
९इजफागुनंत्र्राजसुहायो।त्र्रांनंदरूपधरित्र्रायो।उह्नासहियेनसमावे

दोहा ब्रजवासी रहे रंग भरि मोहन कै अनुराग जुवतीजूथ सनमुष चले मुदि
तमना वृत फाग १ मुदित कै फाग मचावै डफ पुंज गुंज रित आवै नीनें रंग सौं भ्रा
ति भली है मनूं कांम की फौज चली है सवकर तक तहलग वाल मधिनायक
नंदके लाला २ दोहा मधिनायक नंदलाल लौं उत इत राधे सुकुवारि संग छिपा
करि कैं मनौं उडगन सव वृजनारि ३ उडगन सव वृजनारी उमडी आवै गावृ
त गारी मुरवतैं कछु घूंघट टारे सो है सुंदर स्यांम निहारे चली अछनि अलछू
कटाछै मच्यौ नैनन अति आछै ४ दोहा नैन षेल च्याछैं मच्यौ उझं दिसचतुर
षिलार रहे जू इत उत तरी झिकैं गकर स्यांम रिझवार ५ रिझवार स्यांम अरु
गोरी महा मची [illegible] रहारी पिचकारनि [illegible] घनसां वनसो फैर
मायो नयो उडि गुलाल अंधियारो विच फलकत लाल टिपारो दोहा लाल
टिपारो फलकही ढुंधरि मां झगुलाल तिहिं सुषधावत भरन मन हरन तरु
वृजवाल ५ मनहरनि तरुनि वृजवाला मनुषेलत दांमिनि माला इक
हैं चतमुक्का दांमें इक पीति है मुषपांनन इक्क लेत उगार हि आंनन दोहा अ

आंनन लेत उगार इक। घायल वांनन मैंन। तन तद्रोक रसपगे षगे नैंन
किंचनैंनां रंग कत्यौ परत न हिवैंनां। टूटे हार डोर मनि माला। छुटे छवी
लेवार विसाला। फूटी चुरियांनी वीषुरी सी। वादी मैनकी सैंन लुटी सी॥
दोहा। लुटी मैंन की सैंन सी। थकी षेलि रस फाग। जीति लाल कौं लै चली
नरी महा अनुराग।६। अनुराग नरी रंग मांही। दई गउर स्यां मगल वांही। सो
१५ है फाग षेलि वृजोरी मनमोहन संग किसोरी। आये कांमके कुंज निवास।
निसु पदी नैं नागरी दास नि।७। वांदणौं होलीको। प्रथम वीज नैं नव ये मुस
कनि अंकुर जागे री। नेह वेलि रही फूलि कैं भर हो री रंग सौं।१। प्रगट हें नल
गिया रियां व्रज फाग अमल सरसांनों जू। नागरिया उर केनंदी सुर सुवस
वसो वरसांनैं जू।२। वरसांनैं नंदगांव मैं फाग षेल है गरवारी। जीति रही व्र
ज नागरी हारे नर वाज रवारी। षेलौ हो री रंगसौ।३। काफी षेल
तफाग सुहाग नरे अनुराग सौं। दंपति नित्य किसोर रसिक वड भाग सौं। ताल
मृदंग उपंग पखावज वाजहीं। मुरली धुनि सुनि श्रवन मैं न मन लाजहीं। फु

किफुकिफुंडनिफुंडनिसहचरिगावही। लाडलडैतीकैप्रेमछकीडलरांवत
अपनेंअपनेंप्रेमलनीयेंडऊ ओरतें रूपेसुरसनमुषकछुकहतमरोर
चपलासीचमकातचउदिसजोंमिनी। घेरिलीयेघनस्यामकीयेदिनजामि
रंगभरीपिचकारीछुटतहैहेमकी। डरिमुरिभरतलैगावतगारीप्रेमकी
धेभरीकमोरीजोरीलांवही। कुंमकुंममेलिफुलेलमुखेलपटांवही। लि
कपूरपरागफोरीभरिभरिसवै। उडवतअबीरगुलालकहतहोहोसवै
बेंतं फूंमकदैदैनांचतदंपतिलाडिले। निरषतहसतमुखमोरिरूपहितव
गई। १ रा। पर ज। प्यारीलाडिलीवहोरिरंगरछायो। आजुअचांनकघेरिसं
रोरंगनिरंगरंगायो। मनजांवनचांवनसौंकुजभरिभरिउरअंतरलायो
हितअलिरूपअनूपछवीलोछाकनिछकोअपनायो। २। राग धनासरी
वृंदावनसहजसुहावनोंनवनागरिए एरीनवलनवनागरिए नवनागरि
हनिधांनवनांहांहांअवै टेक। होरीषेलनकैमतैनवनागरिए एरीनवलन
निवैवैकरवांननवनागरिए एरीनवल। मांनमनावत२थमहीऐंनवना

एएरीनव॰ दोऊकरनपरस्पर आंनिनवनागरिएएरीनव॰ ऐटिमेटिमिलिपेल
हीनवनागरिएएरीनव॰ हसिदीयेहैंउलहनीपोननवनागरिए एरीनवल॰
नवलनिकुंजविराजहीनवनागएएरीनव॰ रवितनयाकैतीरनवनागरि
एएरीनव॰ मृगविहंगकुलाहलानवनागरिएएरीनव॰ नवनवजुवतिनि
कीजीरिनवनागरिएएरीनव॰ स्यामअोटकीसांवरीनवनागरिएएरीनव॰
गोरीकेगोरेगातवनीनवनागरिएएरीनव॰ उमगिचलीचितचोंपसोंनवना
गरिएएरीनव॰ अपनीअपनीगहिघातनवनागरिए एरीनव॰ सवसषीम
नअनुसारिनवनागरिएएरीनव॰ उनसाजिलईसवसोंजनवनागरिएएरी
नव॰ लालरतनमनिकीकुंडीनवनागरिएएरीनव॰ केसरिकीआजाऔ
जनवनागरिएएरीनव॰ कस्तूरीकरपूरसोंनवनागरिएरीनव॰ साषिकु
मकुमांआदिवनीनवनागरिए
एरीनव॰ घसिगोरामेदजवादिनवनाग.
वनागरिएएरीनव॰ सवमिलेहैंसंचिसुरतालनवनाग

नईमती आवजी नवनागरिए एरी नव॰ वर किंनर कवतालन वनागरिए ए
रीनव॰ गावत चेत सुहांवनीं नवनागरिए एरीनव॰ षेलत मेलि मिलि वांहन
वनागरिए एरी नव॰ वढ्यो है सवनि संकेत नवनागरिए एरी॰ लै लांवनि लागे
कसी नवनागरिए एरी नव॰ वैंनी कटि सौं लपटाय नवनागरिए एरी नव॰ अ
धे कुच कंचुकी कसी नवनागरिए एरी नव॰ अति आनंद उर न समाहि नवन
रिए एरी॰ आगपालै सन मुरव नई नवनागरिए एरी नव॰ इनि दीनी है जुगति
वनाय नवनागरिए एरी नव॰ अरगजा पिचकारी चली नवनागरिए एरी न
व॰ सवै अरत परसपर धाय नवनागरिए एरी नव॰ घोवा के चहले मचे नव
नागरिए एरी नव॰ नए अंवर अरून अवीर नवनागरिए एरी नव॰ हारि
जीति नहि समझि ही नव॰ एरी नव॰ अति मन मगन गंभीर नव॰ नवना॰ फा
ग षिलावत रूलसौं नवनागरिए एरी नव॰ देसै न नहीं संनकारि नव॰ एरी न
व॰ नैंन कमल कञ्ज लन रे नव॰ एरी नव॰ अव मची है कटाछि नमार नव॰
इक कुकि वै वीपी ठिदै नव॰ एरी नव॰ इक मांन निकै मुरव मोरि नव॰ एरी नव॰

एकमनावतदीनक्कैनवनाग॰एरीनव॰इकपाइनपरेंतनिहारिनव॰एरीन
व्र॰४ दिनइलहनिकोहुलसौवसी एरी॰दिनइलहकोंदेगारिनव॰एरीनव॰गाव
तसुषदेसुपलीयोनव॰एरीनव॰मुखचुंबतनरिझंकवारिनव॰एरीनव॰
सौंधेमैंसौंधासवैनव॰एरी॰कोंनपिछांनेंकाहिनव॰एरीनव॰नैंसवैप्रेमर
सरंगरंगीनव॰एरी॰एरहेहैंरसिकसुषचाहिनव॰एरीनव॰मेराकुंजविहारी
कौतुकीनव॰एरीनव॰यहकौतुकरहेहैंलुभायनव॰एरीनव॰मनमनएरसम
धुरीनव॰एरीनव॰रसपीवतसुपदत्रघायनव॰एरीनव॰हारीपेलतरंगर
स्योनव॰एरीनव॰सवगोरीलईहैंवुलायनवनागरिएरीनव॰कोंगोरीके
सांवरीनव॰एरीनव॰स्यांमहेगोरीसवैनव॰एरीनव॰गोरीकेतनम
नस्यांमनव॰एरी॰निरखिवदनतनमनमयेनव॰एरीनव॰योसफलकी
योसवकोंमनवनागरिएएरीनव॰वातनिरहसिविहसिवदीनवनाग
रीनव॰सवइहिविधिपेलतफागनव॰एरीनवनागरिए।
कों॰ नकीरसरीतिंनवनागरिएएरीनव॰अगटकी॥१२॥

ारी॰ एनव॰।सखीसहेलीसहचरीनवनागरिए।एरीनव॰।श्रीहरिवासीरसरासि
२८ नवनागरिए।एरीनव॰।विपुलविहारनिवासकौंनवनागरिए।एरीनव॰ हसि
रीझिदईस्यावासिनवनागरिए।एरीनवनागरिए।२॰।राग।सारंग।ब्रजराजकुं
सी॰ वरवररवेलहिहोरीहैंरीसुनहिडफधुंकार।हजिवौरिपौसीब्रखभांनकीपोर
मांचीहैपिचकारिनमार।ससिवदनीमृगलोचनीनारीसवतनअतिसुकुमारि
तिनमधिश्रीब्रखभांनकिसोरीराजतपरमस्साल्लनुदार।नवनवचीरसुधा
रिनवलतनसोभितपरमसुदार।नईनईगतिनएनेदपरसरगावतमंगल
चार।श्रीं।पिआं।जिमुखमांडिलालकोकीनोंसरससिंगार।हो।होहोहोहोव
हिटेरतवाढ्योहैप्रेमअपार।कीरतितिलककीयोमोहनकेवऊरतननिम
रिघारजैश्रीकमलनैनहितरवेलिचलेहरुपहरेंमीनरसजालपरा।॥
सारंग॥

अथफूलमंडलीनिकेपद॥रागसारंग॥बैठेलालफूलनिकेचौवारे॥कुवी
कवकुलमालतीचंपोकेतुकिनवलनिवारि॥१॥जाइजुहीकेवरे॥कुंजो
रायवेलमहकारे॥मंदसमीरकीरपिककूजितमधुपकरतगुंकारे॥मंदस
मीरकीरपिककूजितमधु॥२॥राधारवनरंगभरिक्रीडतनांचतमोरअरव
रे॥कुंभनदासगिरधरछविऊपरकोटिकमनमथवारे॥३॥रागसारंग
चलोकिनदेखनकुंजकुटी॥सुंदरस्यांममदनमोहनजहांमनमथफौज॥
लुटी॥१॥सुरतिसुरमेलिरतनसखीकीमुक्तालरटूटी॥उरजतेजकंचुकिचु
रकुटगईकटिपटग्रंथिछुटी॥२॥चतुरसीरोमनिरसिकसुरनंदसुत॥लु
नीअधरछुटीपरमानंदग्वालनिगोविंदप्रभुनीकोजोटजुटी [illegible]
ग॥बैठेलालनिवडकुंजस्थलीसकलसिंगारकीयेस्यांम [illegible]
नलली॥चंदनलेपकीयेतनराजीतसोभितकुंद [illegible]
नरंगकुटीपरगुंजतफिरतअली॥२॥विविधिके [illegible]
तिआनंदनमगिचली॥गोविंदप्रभुबलिबलिपहरलोनानि

फूलमं॰ रागसारंग।वैठेलालकालिंदीकेकूल।सघनकुंजचहुंदिसफूले
१ ललितलताकेमूल।२ कुंदमालश्रीकंववनीविचविविधिभांतिकेफ
रुचिरप्रवाहवजतयमुनांमध्यतरुतमालरहेफूल।२ नांचतगावत
वजावतसकलसखालीयेसंग।गोविंदप्रभुकीछविनिरखतिहोत
नैनअनंग।३ रागसारंग।फूलनकीमंडलीमनोहरवैठेश्रीगोवर्द्धनध
और॰ जाजुहीकुंदकेतगीरायवेलिसोसरससंवारी।१ चंपकवकुलगुला
वारोविविधिजांतिकेनिविचसारी।वैठीनिकटरसिकनिराधाफूल
१हरेतनसारीवरनवरनफूलनकेभूखनफूलनपागवनीअतिम
गोविंदप्रभुफूलेअतिसोजितनिरषिफूलीव्रजनागरिनारी।३ रा
रंग।चलिसखीकुंजविगुपालजहां।तेरीसोंमदनमोहनपैंचलिलेजांउ
१ आछेकुसममंदमलयानलऔरकदमकीछांह।तहांनिवासकीयोन
दनचिततेरेतनमांहि।२ औसीवातसुनतवृंतसुंदरितोहिरस्योक्योंन
परमांनंदस्वांमीकेसंगमलागवडेतेपावे।३ रागसारंग।अतिविचित्र

लनिकीचौरवंडी।वैठेतहांरसिकपियप्यारी।रा१वेलिमालतीमधुरीचंप
वकुलगुलावनिवारि।जा३जुहीकेवरीकुंजोकेतुकिसोरनपरमसुखका
रि।पाडरश्रौरसेवती।४मिलिवौलसरीस्वेतचिरसवारिं।नवरसरंगपर
रुपजतवनिहेसंगराधासंकुवारिं।चंनजुजअजुकुसमसेजपरिकरतवि
लासदोऊपियप्यारी।६रागसारंग।कुंजमहलमहलललनारसजरेवैठेसं
गपियप्यारी।रचितचिररवनिकवदनपरमृगमदतिलकसवारी।१घन
रंग चंचिकुरकुसुमनानाविधग्रथितमंडलकरचपलचंपकवकुलगु
वारि।गोविंदपियअजुरसवसकरिलीयेमदनमोहनगिरधारी।२।रा
डी।फूलनिकेमहलफूलनिकीसज्या।फूलेकुंजविहारीफूलीराधा
फूलेदंपतिश्रंगमगनफूलेफूलेगावततानन्यारीन्यारी।१फूलेफूले
लनिलीनेंफूलेश्रानंददहेदोऊसुखकारी।हरिनारायनस्यामदासकेश
नूप्रियातिनपरवारोंफूलेचंपकगुलावनिवारी।२।रागटोडी।वैठेलाल
निकुंजनवननारजनीरुचिरमॉलिकामुकलितत्रिविधि न ं१

फूलमं॰
२

कांमकेलिमनमोहनमदनवन।दृगभंगोहरकरतिकिसोरिकारनकवन
चपलचलितनकीसुधिविसरिसुनतश्रवन।हितहरिवंसमिलेरसलंप
धिकारवन॥२॥इति॥अथफूलमंडलीपदलिष्यते॥फूलतफूलनईअति
निर्मिततरलहिंडोलविटपतरुबृंदाविपुनविहारी॥सकलसषीअतिमुदि
ईविउरंगपहरेंतनसारी॥भृकुटीभंगलावन्यअंगअतिकोटिमदनछवि
अतिसैंगोरराधेग्रीवामैंस्यांमभुजाछविन्यारी॥दामिनिअचलविराजित
नौंस्यांमघटाछविकारी॥वरननकहाकीजियेप्रेमकोरुचिदायकजहं
रीश्रीकृष्णदासहितयहसुषदेषतप्रांनसंपदावारी॥१॥रागविहाग॥फूल
लपियस्यांमादोऊपरमउदारी॥फूलेश्रीराधावल्लभफूलनपदसुरव
संभारीसिरसेहरोफव्योफूलनकोवरनवरनरंगधारी॥फूलनिकेआ
रवनअंगअंगभूषितभुजभुजचारी॥श्रीबृंदावनफूल्योनानाविधिकुसु
मप्रतिछविन्यारी॥सरदवसंततसदाहीतहांजहांराधारवनविहारी॥निर
निरषिफूलतनललितादिकचक्रभुजप्रभुपरिवारी॥फूलेसुरमुनिवर

कुसुमितदेहदसाजु विसारी।। इतिफूलडोलके पद।। अथफूलरचनाकेपद लिष्य
ते।। राग केदारो।। फूलनिकुंजगुलाबकी बनी कबनी अतिसोहै।। फूलनिसौं वे
थियालालतहां छबिजोहै।। फूलचंमेलीपीतकेभूषनभूषितअंगासीसचं
काफुकिरही।। पऊपमालतीसंग।। १।। बसनअरगजारंगरंगे।। तनसुषसनाइ
सी।। महकनिसरससुगंधकी।। लतनिलतनिआवासी।। २।। पांनभरेमुखचंदमा
मृदुमृदुहसनिसुहाई।। किरनिसुप्रकासीविपुनमैं अलिउडगनमैं आई।। ४।। रा
जमायोरायसोसाजसमाजलीयें।। सबसषीमनअनुसारितीरिझवततनमन
दीयें।। ५।। पऊपांजलिकरिवारनै।। निर्तितयुननवीन।। लालरूपहितसहच
निकटसुनावतबीना।। ६।। रागकेदारो।। एफूलफूलेरीवृंदावननवनिकुंजमं
रमैं टेक।। जुगलकुंजनवलमुखकमलविराजत।। गोरवरनसांवरेतन।। सरसपु
लिनसेवतसज्पासषी।। उपजतकोटिमदनमन।। १।। फूलतफूलतप्रेम
रसनस्वासमिलेपवनमहामाधुरीपीवतनैंनन।। रिसहजसनेहीसुषसदन
विहारीदासरसिकनिकीजीवनिसंततिसुषदधनीधन।। २।।

फूलमं
३

फूले फूले फिरत स्यांमा स्यांम फूली कुंजन मांही फूली कुंजन मांही फूल्यै
रहा रहमेल फूली फूली करत केलि हित घन दांमिनि ज्यों लसत दोऊ कीये
हीं फूली ज्यौंन जगमगात ता मैं फूली वदन कांति कुमद कली फूली अल
मन झूलसा ही ४ कहै जगवांन हित रांमराय प्रभु देषि फूल्यौ व्रंदावन प
ष्टि होत जहां जहां चलि जांही ।। पराग केदारो ।। फूलनि की वैंनी गुही फूलनि
अंगिया फूलनि की सारी मांनौं फूली फुलवारी ।। फूलनि की डलरी हमेल
फूलनि के फूलनि की चौकी चारु फूलन के वाजूवंध और गजरारी फूल
के तरौंना कुंडल और फूलनि के फूलनि की किंकनी सरस संवारी ।। फूल
ल मैं फूली है राधिका प्यारी फूल फूले नंददास लेत वलिहारी ।। राग के
फूली फूली डोलै कुंज सदन मैं मदनमोहन रसमांती ।। जिन वसि कीये विह
हार नि मंद मंद मुसिक्यांती ।। किसोर किसोरी वांहां जोरी लटकत चलत
ती लटकाती हरिनारायन स्यांमदास के प्रभु परसुख वरषत आनंद मांती
ग केदारो देषो कुंज की परछांही फूल झरोषा फूल चंदोवा फूल की पि

फूलेफूलप्यारीतनमनदोऊफूलनसेजविछाई॥हरिनारायनस्यामदासकेप्र
भुकीप्यारीवरनौंकहासुछवाई॥राग केदरो॥ कुंजसुखसदनमेंमनमोवनव
निवनिवैठेश्रीराधारवनवरनवरनकुसुमप्रफूलितसमिकीक्रिनिजगम
गाततेसीहीसुषदवहतपवन॥अलिगनपिकमगनगावततिनतिधिआन
दमगनहरिनारायनस्यामदासकेप्रभुकीप्यारीविहारिनउपरिरतिपति
स्यागैहैनवनाय॥रागविहागडो॥दोहा॥फूलेफूलनिकैवदिवअलिवैवेनकुंजे
नदंपतिहितवंदाविपुनवौरेअगनितनैंन॥रंगरंगनपनफूलकेरहेफूल
तनफूलअंतरकीवाहरिमनोंउगटीअंगअंगफूलरवनफूल्यौफूल्यो॥
जुमनुफूलवेमअनिरामसवैकरीफूलनिसफलमिलिकैगोरीस्यामद्वै॥
फूलेफूलेलसतहैंदिसदीयेगरवांहालपिफूलनिनागरिसषीफूलीकुंजनि
मांहि॥रागविहागरो॥ताल्चपक॥फूलेवऊफूलनसौंउपवनसोनादिनता
मैंफूलीराधिकानिसिअतिहविछाईहै धपन
तिफूलनिसौंमिनीमंदपवनसियराई

स्र॰ फूलनिकेफूलनईहियेंलपिफूलीवनराईहै।नागरियामिलिउऊंफूलनिस
४ लकरीजुजधरिअंसफूलिरहेसुषदाईहै॥२॥राग विहागरो इकताल फूलनि
केवेषनवसनवनायलीयेफूलनिकीक्यारीसीकुंवरिअलवेलीहै फूल
निकेभूषनवसनवनांतिफूलनिकेफूलनरीछविनरीहरीयेनवेलीहै अधर
धुरमकरंदलैंनफूलनिकौफूलसौअलिंदस्यांमजुजनिसकेलीहै फूलीहैजु
ईतामैंफूलपंकवनिनकीनिरषैअकेलीकेलीनागरसहेलीहै॥२॥ तालच
का॥राग विहागरो॥ फूलमहलमैंफूलीजोन्हिजगमगी तामैंफूलेकरैंकेलि
मांस्यांमसुषजेलिफूलीनिमरगजीवासरगमगी फूलसरअरसांनैंफूलरंग
येसोहेनागरियामोहेमनरीजनिउगमगी॥३॥ फूलनिकीसैंनी
रा॥गप ररज॥तितालसषीअजुनिरपिसुषपुंजरीतहांमैंनगांनअतिगुंजरीदंपति
हियफूलनिलीयेंवऊफूलनिसौफूलीनवकुंजरी फूलनिकीसैंनीपरदैंनीगर
हीतनफूलनिकेसोहतसिंगाररी फूलनिकीफूहीहलिवरषैलताहैहोततैसी
लनिकीवहतवयाररी फूलीहैजुन्हाईफिरीमदनदुहाईहै॥२॥रहेआरतिगन
घनस्यांमगातरी फूलनिसफलकरीनागरियाआजुहोंजईपरमसलोनीप
गरी॥

॥अथश्रीआचार्यजीकेउछवा।रागजैतस्री।जैजैजैश्रीवल्ल
पदारघनिनकेहाथ।१।मकुमाररा जिनप्रगटकीयोनाम
उधर्यो।२।तकमहरखंडनिरूपेवेदवेमस्नेहकोजानैनेदन
मर्थभुजदंडमायावादकीयोमतखंड।४।परमपुरुसपुरुसो
जनकरतप्रसंसि।५।जाकेनामकरनगुनरूपअनंत।निर्मल
लिसंत।६।सुंदरस्यामकमलदललोचनकृपाकटाछनकृ
कोमनाहरनहरनकोमं।अहनिसजपततुम्हारोनाम।ज
रनकोयाचासगुपालजजैंसुखहोय।९।रागजैतश्रीलीनवल
जविहारीवल्लभतनवनमोरे।अंगअंगविपतिछिपनिघ
फलपालप्रतिदेरे।१।करतप्रवेसविरजकन्हीसंततनिन्तल
पद्मनाभमधुरेसविचारतलछमणभटसुतओरे।२।रागजै

चार्य अघांऊं ॥४॥ श्रीवल्लभतजिअनतनजाऊं । चरनसरोजमूलघरछांऊं ।
१ आनंदफूल्योनसमांऊं ॥५॥ श्रीवल्लभकोजोमननांऊं । जसुमतिसुतकों
लाडलडाऊं ॥६॥ श्रीवल्लभकेसरणरहांऊं । मुकतिमहासुखहोंविसरां
श्रीवल्लभकोदासकहांऊं । रसिकसदायहनेमनिबाहूं ॥७॥ राग[illegible]
वल्लभवरश्रीविठ्ठलसाथे । निजजनपरकरतकृपाधरतहांसमर्थे ॥१॥ दोस
सवैहरिकरतभक्तिभावहियेधरतकाजकबवेकरतसदागावतगुनगाथे
काहेकोंदेहदमतसाधनकरिभूरखवतनविद्यमांनआनंदतजिगेहतवं
उपाथे ॥२॥ रसिकचरणसरणसदारहेतहेवडभागिजनअपनेकरिगो
लपतिजरतसनेहवाथे । असरनसरनभक्तवछलकरुणानिधानकर
कृपाधरतहाथमाथे ॥३॥ रागदेवगंधार । आजवधाईमंगलचारगावत
गीतजुवतिजननवसतसाजसिंगार ॥१॥ मंगलकनककलसमंगलवं
धत[illegible]वंदनवारमंगलमोतिनचौकपुरायेपंचसबदगृहद्वार ॥२॥ घर
रमंगलमहाम[illegible]हैछो श्रीवल्लभअवतारहरजीवनप्रभुयतपुर

श्रीलक्ष्मनन्पकुमार॥३॥रागदेवगंधार॥जयोजगतपरजैजैकार॥प्रगटन्ह
येश्रीवल्लभप्रभुरसोन्नमवदनअग्निअवतार॥१॥धनिमाधौमासएकादसी॥
कृष्णपक्षगुरवार॥श्रीमुखवचनकलेवरसुंदरधरेजगमोहनमार॥२॥श्री
भागवतात्मकश्रंगजेप्रगटकरतअवतार॥कंदनिदेवबजावतगावतसुरव
धूमंगलचार॥३॥पुष्टिप्रकासकरैंगेभुवपरजनहितजगतउपकार॥आनंदउ
मगलोकत्रयऊपरजनगिरधरबलिहार॥४॥रागदेवगंधार॥न्हतलमहा
महोछोआज॥श्रीलक्ष्मनगृहप्रगटभएहैंश्रीवल्लभमहाराज॥१॥आजुर्ई
दयाकरिश्रीहरिपुष्टिप्रगटवेकाज॥कलिमेंजनमउद्धारोतातरविनसूउ

छाडिलोकअपवादैव॥घरघरमंगलबजतबधाईस
प्रेमकीपाजरसिक॥

श्रीलक्ष्मणगृहप्रगटभएहैंश्रीवल्लभसुखदाई
॥मगनभएनगनतकाल्एतीनलोकपरगाजा॥४॥३

वार्य॰ गसकलजनन केपुष्टिनरूप्रगटाई।जसुमतियहनिजसुखदेवेकोंसुखमूरति
प्रगटाई।१।अतिसुंदरविधुवदनविलोकितसकललोकानरहाई।कहतसुन
तसबहिनसोंफूलेआनंदउरनसमाई।२।श्रीनागरतअर्थप्रगटकरनकोंना
गनदईहैदिखाई।नईनकवऊकैहैऐसीअवनिछिपाई।३।सदाविराजोसीस
हमारेयहमूरतिमनभाई।चरनरेनसेवककोसेवकरसिकसदाबलिजाई।४।
राग॥राग कलीनजिकमलतेमृदुनाथचरणदेसकालातितऐसीअंसआगर
नागरश्रीवल्लभजएकरसनं।१।जितमायावादसकलदिसदिसकरिभूतलस्वम
तकरतविस्तारन।षोडसकलामांनूंप्रगटविधुमंडलअवतमधुरोवजतप
हरनं।२।अंगअंगरससिंधुकरनपुटनैनपुटसादरजेरसघूंटभरनं।कहैसगु
नदासबलिजांऊयैमोकिजाहिपरसतगयोज्ञाततवरनं।३।राग विभास॥मातउ
ठिप्रातउठिश्रीवल्लभनिजनामपाहिजनसुकजैपांपढावै।यहरसिकसेतऐ
रनहिआवै।रंगउपरमानोंनवरंगचढावै।१।धीरवलवीरविनुऔरनांहिही
येकछितआवर्णपायनलुढावै।कहेसगुणदासहोंबलिजांऊताकीनाथ

हिनायकहिएसीउदारै॥९॥राग बिलास॥जपतपतीरथवरतनेमधर्मकर्म
श्रीवल्लभप्रभुकोनाम॥सुमरोमनरसनाहेअनिसरटो॥ऽरिदकटेसबरेस
बकाम॥१॥दैवसेजसुदासुतकरिलीलासहितसदासुखधाम॥रसिककहेनि
करोनितसाधनतजिमजो॥आगेजोमन॥२॥रागसारंग॥श्रीवल्लभसुदिएक
ऋ॰ धरोति॥प्रगटेहेहरिकरुणाकरिसाधनविनुजीवसवउधारे॥आज्ञादई
वल्लभकोंब्रह्मसंबंधकिसवहिनकेजीवदेहपंचदोसनिवारे॥सेवाकर
वायअअपनीजनकेकरजोजनकरिअधरामृतजूठिदेकेपरमफलदिचा
॥रसिकचरनसरनआसरहतहैनिसदिनपासदासनिकेदासतेऊजलनि
रे॥२॥रागसारंग॥श्रीवृंदावनविधुप्रगटेआएश्रीवल्लभनंदगेहअ
तिकोमलपुटैनकिततनसुरितरसाचखिलीलानिजजनपरवरखेनीरह
पतिपदनेह॥१॥अतिनांगूढश्रुतिविचारविसदकरिनवंदितवरकोटिम
नसुंदरवरआएद्विजदेह॥यज्ञपुरसकविजनकहेववारवारस्तुतिकरे
सेगोविंदजियमेंवसोश्रीगोकुलपतिआएह॥३॥राग

सेम रचै सारवे श्रीवल्लभ महरिजनम लिया श्रीवैलछमननंदनत्रिभुवनवं
नअकूमारगजिनप्रगटकिया टे प्रगटकीयाजिनिभक्तमारगवध्र्ज
वजीवद्धिडाईया अनैदोन निसान महला वितजिनहरिकों दिया २ गोप
लदास अनंतलीलाप्रगटश्रीवल्लभनया ३ दाताजुगताऔरनद्दूजासां
चात्रिभुवनराई विरहनिवारनभवजलतारनदेखतउपजिचाँईई टेव
देखतहरिकोंचाहउपजीसकलउरवनसावई जाकोनांमलीयेफरैपातिग
करजोरेंनिगमपुकारही २ पतितपावनविरदजाको सोवमाधोकरिदय
गोपालदास अनंतलीलाप्रगटश्रीवल्लभनया ३ राग विलावल एहजवा
सियांगोपगुवालियां एगोकुलकेलोगांरेहां एकनक्रीडाविहसिमुख रव
क्रीडाहरिसेवारसनेगारेहां टेक रसजोगऔरसंजोगमिलियो हियेअं
दरिरमिरह्या लवालचरित्रअनंतक्रीडावाहिमाधोगुनकह्या तेरीनलं
मूरतिदेखिविसूरतिराधिकाअंदरिगईगोपालदास अनंतलीलाप्रगटश्री
वल्लभनया ३ राग विलावल एनउल्लसनातमाधोकलिकेसोअवता

जिन्हैंसोदेख्योतिनतैसोपेख्यो॥नरूपांनआधार॥श्रीवल्लभहीयेअंतरा
खियेरांमकृष्णमुकंदमाधोसदाजिभ्यारखिये।गोपीनाथअनाथबंधवे
दसंकरुणामया।गोपालदासअनंतलीलाप्रगटश्रीवल्लभतनया॥४॥राग
धनासरी॥आनंदमयश्रीलछिमननंदकुमार॥भुवपरप्रगटभएसुरनपु
रसोत्तमजिनकीयेउधार॥प्रकारनसाधनदृढहोइकैंकीयेजुअंगीकार
कृष्णदासप्रभुश्रीहरिकीलीलाजांनैंजाननहार॥५॥रागधनासरी॥मा
गनभूतलवल्लभआये।करिकरुनालछिमनघरकलिमेंद्विजपतिप्रग
टकराये।॥चिंतातजौमनजौइनकेपदमहापदारथपाउंदासजननके
सकलमनोरथसबैंगेमनभाये॥साधनकरिजिनदेहदुखपाएफल
रूपवताएरहोसरनपरिसबदृढकरिमनअबआनंदबधाए॥तनम
नधननौछावरिइनपरिकरिजिनदेउडाएरसिकसदाबड़भागतेईजि
नश्रीवल्लभगुनगाए॥६॥रागधनासरी॥श्रीवल्लभअपनोंदासदीनजे
निकैंजिनबिसारो॥करुनाकरिबडधएकमेरीदिसनिहारो॥हमा

चा॰

अपराधदोसकोईजिनविचारो॥ कियोजुअंगीकारसोईचितधारो॥१॥ चरन
कमलवांधितुमछांडिजिनविसारो॥ कहवाएतेरेअवसुनेकोपुकारो॥२॥ रा
ग॥ आसावरी॥ प्रीतिवंधीश्रीवल्लभपदसौंऔरनमनमेंआवैहो॥ पुष्टिपथं
नषट्दरसननिकेजोकोउकछूवतावैहो॥१॥ जवतेअंगीकारकस्योहैमेरे
तवतेंकछुनसुहावैहो॥ पायोमहारसकोनमूढमतिजहांतहांचितनटका
वैहो॥ नंदनंदनकोनिकोनिजुसेवककहदकरिवांहगहावैहो॥२॥ जिनको
उकरैनूलिमनसंसैनिश्चैकरिश्रुतिगावैहो॥ रसिकसदाफलरूपजांनिले
उछंगझलरावैहो॥४॥ राग॥ आसावरी॥ श्रीवल्लभसुवनसुजानश्रीविठलन
घरहोजैसेमरनसंतगहेमेरेहाथ॥१॥ पत्योआरतहैंपुकारौभवसमुद्रकेपा
घरसिकवीनतीकरेरारवोचरनकमलसना॥२॥ आषातीजकेपदलि
ष्यते॥ राग॥ सारंग॥ अदेवतियाअक्तलीलानवरंगगिरधरपहरेचंदनवां
मजागहूरवजोनमंदनी विचविचचित्रदेतनवबंदन॥१॥ तनसुखछिरई
जारवनिकरिपीतउपरनांविरहनिकंदनउपरउदारवनमालमलिव

नागन
हलिमै
रनसाई
नवेहो॥

सुभगपागजुवतिमनफंदनी॥नखसिखरतनअलंकृतभूखनआव
दन्नमारगजनरंजनकृष्णदासप्रभुरसिकमुकटमनिलोचनचपलखं
जन॥३॥रागसारंग॥आजुवनेनंदनंदनरी॥नवचंदनकोतनलेपकिये॥
तामैंचित्रवनेंकेसरकेराजतहैसखिसुभगहिये॥पुतनसुखकोकटिवन्यों
पिछोरावादेहेकरकमललिये॥उरवनमालपीतउपरनांऐनंननैनसरसे
पिये॥२॥करनफूलअतिविंवकपोलनमृगमदतिलकलिलाटदिये॥चत्र
भुजप्रभुगिरधरनलालसंगटेढीपागरहिभृकुटिछिये॥३॥रागसारंग॥देख
सखीगोविंदकैनवचंदनसोंचितसांवरअंगनानाभांतिविचित्रकीयेता
मैंकेसरअधिकसुबांधअंग॥१॥कंठमालपियरोउपरनावनीश्यारपचरं
ग॥कांननकरनफूलभृकुटीगतिमोहितकोटिअनंग॥२॥मृगमदतिलक
कमलदललोचनसीसपागअधरंग॥चत्रभुजप्रभुगिरधरनसंगछिनुछि
नछविकेउठततरंग॥३॥रागसारंग॥कोन्हमनोहरमीठेवोलमोहनमू
तिकवदेखोंतोसरसरजचंचलडोल॥ऐसोंमसुभगतनच

नी रेपीतनिचोल॥ हीरालालकं ठमनिमालानंदलीयेवजमोल॥२॥ परमानं
स्वांमीसुखसागरवालदसागुनलोल॥ खेलतफिरतसकैवीथनिमैंग्वालल
येसंगबोल॥३॥ राग सारंग॥ आछोलालउपरनांकीनौं॥ तनसुखस्वातिसुदे
अंगपरवजवअरगजाजीनौं॥१॥ अतिसुगंधसितलओरचंदनसुंदरखरनं
कीनौ॥ रहीधसिभृकुटीपरपागउपेचीकोटिमदनछविछीनी॥२॥ सूथनवनि
जरकसीसोभितगतिगयंदकीलीनी॥ परमांनंदप्रभुचतुरसिरोमनिब्रजव
नितारतिदीनी॥३॥ राग नट॥ वागोवन्योंवांवनचंदनको चंपकलीकीपागवि
राजतन्नालतिलकचंदनको॥१॥ सूथनिकीछविकहतनआवैपांतिकांति
दनको॥ परमांनंदआनंदतहांमुखनिरखतनंदनंदनको॥२॥ राग सारंग॥
रिवरीदेखिरसिकनंदनंदन॥ लटपटीपागसुजगआचेसिररहिहैंजुरकीक
छुवंदन॥१॥ मृगमदतिलककुसुचिरवनमालातनचरचितनवचंदनको चि
तवनचारुकमलदललोचनजुवतीजनमनफंदनको॥२॥ कवजक
हजवजावततारीसारंगकरमुरलीसुरमंदन॥ चतुर्भुजप्रभुसुखराखि

कल अंग गिरधर विहरनिकंदन ।२। नृसिंघजी के पद । सारंग । हो नरहर प्रगट
भए खंभ फारि किलकारी भक्त हित हरिनकस्यप विदारए ।१। जाजे देव तेज तेडर
न = पे श्री रुद्र छांडि दिये । गिरि धावते प्रल्हाद भक्त हढ हरिजू के सरन गए ।२। राग सारंग
प्रभु तुम जन को प्रन प्रतिपाल्यौ । कहा अहि या हि मैं है यह सुनत सभा खंभ फा
ल्यौ ।१। लागि रह्यौ कछु न खन में लसों जब तुम उदर विदार्यौ । कहत भये व
हग ये कहा है जो अब ही मैं मार्यौ ।२। कमला डर पि रही विधि जा जो रूप न ज
त बिचार्यौ । महा विकराल नैन रिस राते तेज न जात सह्यौ ।३। प्रल्हाद हि चुंबत
और चाटत सूंघत वदन निहार्यौ । सूरदास प्रभु गोवर्द्धन धर नरहरि तव व
पु धार्यौ ।४। राग सारंग । अपनो जन प्रल्हाद उवार्यौ । खंभ विचते प्रगटे न
रहर हिरनकस्यप उर नख नि विदार्यौ ।१। वरखत कुसुम सब देवन मैं प्रभु कन
सुरन मिलि कैं कौतिक निहार्यौ । कमला हरि के निकट न आवे [illegible]
प कब हू न हि धार्यौ ।२। दीनो राज भक्त अपने कौं [illegible]
धार्यौ । सूरदास बलि जाय दरस की भक्त विरोध [illegible]

तौलौं हौं वैकुंठ न जैहूं। सुनि प्रल्हाद प्रतंग्या मेरी। तौलौं तौ सिर सैं छत्र पन धरिहौं। मन क्रम वचन जो निज प्रिय अपने जन हित जहां जहां तहां तित हित है हौं। निर्गुण सगुण हरि सब देख्यो। तो सो जन कहूं नहीं पैहो। २। मो देखत मेरो दास दुखित भयो यह कलंक अब ही जु चुके हौ। ऊदैक दिन पारखान है मेरो अवहा दीन दयाल कहेहैं। ३। हितनु हरिन कश्यप को फारयौ उदर फारि नख रुधिर वहे हो। यह सुनि वात तात अब सुर या कृत को फल तुरत चुके है। ४। सारंग। जाकों तुम अंगीकार कीयो है तिन के कोटि विघन हरि टरे अभै प्रताप दियो है। खंभ जनमा न दियो प्रल्हाद सब हि निसंक जियो। निकसे खंभ फारि के नरहरि आपुन राखि लीयो। २। डरवासा अंबरीस संताप्यो। सो पुनि सरन गयो। प्रतंग्या राखी मदन मोहन जन नहीं पैपरयो। ३। मृत्युकन येह रिस वैजि वाये ह्र्जज्ञ अमृत पीयो। परमानंद जन कृष्ण कृपाल केवो उपमा कौन वियो। ४। इति श्री रस्तां नयाक पदरा टाटी करत गुपाल जमुना जलक्रीडा। सुर नर असुर थकित भए देखत तूलि गई तन मन जात्री डा

ध्मृगमदमलयजमकुमांकेसरिअगरकपूरवासवजतजुरकतिकुचजुजग
गगाननिजगननंदनंदनकोमलपानिपरस्परछिरकति॥२॥निर्मलसरदकाल
निजसोभाकृतवररवतस्वातिबूंदजलमोती॥परमानंदकनकठविगोपीमर
कतमनिगोविंदतनजोती॥३॥रागटोडी॥ज्येष्टसुदिपूर्न्योज्येष्टानक्षत्रकरत
स्नानगोवर्द्धनधारी॥सीतलजलहाटकघटजरिनिरितजनीतैंअधिवासत
सुरवकारी॥१॥विविधिसुगंधपजपकीमालाउलसीदललेसरससवारि॥
करलेसंरवन्हवावतिहरिकोश्रीवीठलश्चुकीवलिहारी॥२॥तैसेईनिगम
पढतद्विजआगेंतैसीयेगांनकरतव्रजनारी॥जेसैंत्राक्षचरूंदिसधेरदे॥इहि
विधिसुरवदररवतगिरधारी॥३॥करसिंगारपरमरुचिकारी॥सीतलभोग
धरतजरिधारीदेवीराआरतीउतारतगोविंदतनमनधनवलिहारी॥४॥रा
गटोडी॥गोविंदछिरकतछींटेअनूपा॥इतरवजांननंदनीराजतउतधन

जलवसनसो

वृंदसखलापेलि।गोविंदपियआनंदसिंधुमैंरहीमगनमनझेलि।२।अथ
रथयात्राकेपदलिष्यते।रा॰ नट।मैयाहोरथचढिजेलोंगो।घरघरतेंबैसंग।
खेलनकों।गोपसखानिको।१।मोहीगढाईदेअतिसुंदरसगरोसाजबनाईक
रसिंगारताऊपरमोकूंराधासंगहैवैगाई।१।घरघरऽतिहोंजैहोंखेलनसं
गलैहोंव्रजबाल।मेवावज्रतमगायऔरदेफलअतिबडेरसाल।२।सुनि
कैंवचनसुनतनंदरांनी।फूलीअंगनमात।सबविधिसजीहरिरथवैगरे
देखिरसिकवलिजात।४।रा॰ नट।तुमकूलैरथवैठिरीमैया।उततुहीलैरथ
कीओरवैठीहैराधा।इतकीओरबलभैया।१।गोपसखासबसंगचलैंगे
औरगांवैंगेगीत।मेरेरथकीसोभादेखतसुखपांवैंगेमीत।२।व्रजजनझ
वृंनभवनअतिगाढीदेखनकोंमेरीगाडी।आरतीलेकैंउतारिहैंमोपरकै
हैमारगआडी।३।सुनतवचनआनंदसिंधुमैंमगनभईजसुमतिमाई।रसि
कमनोरथपूरणगोविंदप्रभुवैकुंठतजिव्रजआई।४।रा॰ नट।रथचढि
चलतजसोदाआंगन।विविधिसिंगारसकलअंगसोभितमोहतकोटिअ

नंग॥५॥वाललीलाभावजनारतकिलकिहसतनंदनंदन।गरेविराजतहार
कुसमकेचलितेत्वोवाचंदन।२।अपनेंअपनेंगृहपदयुवतसदमिलिट
जजुवतीजन।हरखितअतिअरपितसरवसुअसवारतिहैतनमनधन।३।
सवव्रजदेसुरवआवतघरकौंकरतआरतीततछिन।रसिकसदाहरिकीयह
लीलावसौहमारेईमन।४॥रागमलार।देखोमाईरथवैठेगिरधारी।वांमअं
गराधिका।विराजतपहरिकसूंनीसारी।१।तैसेईघनउतचउदिसतेगरजत
४= हे।तिनारी।तैसेईदाडरमोरकरतरवितैसेंयेंभूमहरियारी।२।तालपखावू
जवेंनिबांसुरीवाजतपरमसुहाए।परमांनंददाससंगविहरतगोपसखा
संगलीये।३।रागमलार।आजमाईरथवैठेगिरधारी।वांमभागवृखभांन
नंदनीपहरेंकसूंनीसारी।१।तैसोईघनउनयोचहुंदिसतेगरजतहेअति
भारी।तैसेईदादरकरतरटतैसियेभूमिहरियारी।२।सीतलमंदवहतमल
यानललागतहैसुखकारी।नंदनंदनकीयाछविनिकपरगोविंदजनव
लिहारी।३।रागमलार।तुमदेखोमाईरथवैठेनंदलाल।अति:

है

रेपटझीनौंउरसोहै वनमाल ॥ १ ॥ सुंदररथमैंनिजरचितमनोहरसुंदरतुरंगचल
तधरणिपरररह्योघोषसवगाज ॥ २ ॥ तालपरवावजवीनिवांसुरीवाजतपरमरस
लागोविंदप्रभुपियपैंलेडारतविविधकुसमव्रजवाल ॥ ३ ॥ राग सारंग ॥ रथच
ढिआंवनआजुनई अलिनमनोरथपंथमैंलालनसोंलडकाई आईप्यारि
हयवागलई एकहीओरकरूंचरननकीफुलवनिमैंफुलई वहनगरसिक ॥
हरीफेरतहसिहेरनिमतिफुलई ॥ १ ॥ राग सारंग ॥ रथपरिसोहतहैदोऊवीर दे
रवनछविजुवतीजुरिआईसांवलगौरसरीर चितवतहीमनहरेसवनकेकौ
ऊधरैनधीर लषमीदासहितनंदलाडिलेमेटनकोमनपीर ॥ १ ॥ राग सारंग ॥
राग मलार देषोमाईरथवैठेगोपाल अतिपवित्रपहरेंपटझीनौंउरसोहतवनमा
ल ॥ १ ॥ सुंदररथमनिरखचितमनोहरसुंदरहैसवसाज चंचलतुरंगचलतधरनीपु
रि रह्यो घोरवसवगाजि ॥ २ ॥ तालपरवावजवीनिवांसुरी
दप्रभुपरलैलैवारतविविधिकुसुमव्रजवाल ॥ ३ ॥ राग मलार देखोमाईहरिजू
केरथकीसोभा प्रातसमैमांनौंउगटन्योरवि निरखिनैंनमनलोभा ॥ १ ॥

मयजदित्तरथसाजसहितसवा।छ्ज्ञाचमररचिसोत्ना।मदनमोहनपियमध्यविरा
जतमनिषजनमकीसोत्ना।ख्वंचलतरंगचवतधरनिपरैकहाकहोयहश्रोना।श्रं
नंदसिंधुमोनोंमकरक्रीडतमदनमुचिततनश्रोत्ना।यपदविधिवनीप्रतिनीथ
निमहियादेषिसकलश्रीनंदागोविंदश्रनुपियसदावसोजियवृंदावनकेचंदा।
३।रागमलार।। ।जैजैजगन्नाथहरिदेवारथवैठेप्रभुअधिकविराजतकरत्तन
कसेवाश्रंस्नामहादेवइंद्रादिकसनकादिकमुनिआयेअपनीअपनीकेरसवनै
हरषितमंगलगाये।धुजापताकाछत्रचवरमनिरवोडसचक्रवनाये।श्रसा
दसुदिद्वितीयापुस्पनिछुतप्रभुदितश्रसवलगायेरथारूढितद्विजावनंदहरि
परियहिविधिरथहिचलायेसूरदासगोवर्द्धनधारीनगरडडीमाश्रायेॱ४॥

अथ दांनलीला लिष्यते। राग बिलावल ताल। तुम नंद महरि के लाल मोहन जांन
दे। श्रीगोवर्द्धन सिखर ते मोहन दीनी टेरि। अति तरंग सौं कहत हैं सो ग्वालन सिर
खो घेरि। ग्वालनि घेरी नांर है ग्वाल रहे सब हारि। अहो गिरधारी दे रियो सो क
ह्यो न मांनै ग्वारि। २। नागरि दांन दै०। चली जात गोरस मांती मनौं सुनी नहि कांन।
दे रि आय मन भांवते सो रोकी है अंचल तांन। ३। ना०। एक भुजा कंकन गहे एक
भुजा सौं चीर। दांन लेन गढ़े नये सो गहवर कुंज कुटीर। ४। ना०। बजत दिनां तुम च
लि गई दांन हमारो मारि। अब हों लै हौं आपुनौं सो दिनां दिनां को सन्नारि। ५। मो०।
रस निधांन नव नागरी निरखि बचन मृदु बोलि। क्यों मुरि गढे होत हो घूंघट प
ट मुख खोल। ६। ना०। हरखि हीये हरि करि खके मुख ते नील निचोल। ररन ध्रग
ड्यो दे रिव्हि कै सो चंद्र घटा की ओलि। ७। मो०। ललित बचन मारुत नये नेत नेत नये बै
न। उर आनंद मन अति रह्यौ सफल नये मिलि नैंन। ८। ना०। इह मारग हम नित्ति
गई कब जु सुन्यौं नहि कांन। कहा आजु नई होत है सो मांगत गोरस दांन। ९। मो०। तुम
नवीन हम ग्वालनी भूखन नौतन अंग। नयो दांन हम मांगनैं सो नयो बन्यो यह रंग।
१०। ना०। चंचल नैन निहारिये चंचल बोले बैन। करन हि चंचल की जिये चंचल
अचल नैंन। ११। मो०। सुंदरता सब अंग की बसन निरा खौ गोय निरखि निरखि छ

लाडिलीसोमनआकर्षितहोय।२।ना॰अलकुटिलीयेंगढेरहो।जहांसांकरीषोरिमुस
दि।क्योरीलाइकैंसोसकतिलईरतिजोरि।३।मो॰लैंकसरिगढेरहो।कछूऔरसकु॰
चाइ।कहाकीयोमनभांवतेसोअंचलपीकलगाय।४।ना॰केहानयोअंचलमलगी
पीकहमारीजाय।याकेवदलैंहोंग्वालिनीमोनैंनापीकलगाय।५।ना॰स्वधेक्यसोंमां
गियेलालनगोरसदांन।जोहनमैंदजनाइकैंसोकहतआंनकीआंन।६।मो॰जेसै
हमकछुकहततहैंऐसीसोकहिलेज।मनमांनैंसोकीजियेदांनहमारोदेउ।७।ना॰
कहाअरेहमजातहैंदांनजुमांगतलाल।लईऔंवारयरजांनदैउरसोंछाडिअट
पटीवात।८।मो॰अरेजातहोश्रीफलकंचनकदलवसनमैंदाकि।दांनजुलाग
तताहिकोसोदेकरिजाउनिसंक।९।ना॰इतनीविनतीमांनियेसोमांनतआ॰
लीआडिगोरसकोरसचारिवियेसोलालनअंचलछाडि।१०।मो॰संगसखीस
वफिरिगईसुनिहेकीरतिमाइ।पीतिहीयेहीराषियेसोप्रगटभयोरसजाय।११।
दूरव॰कालिहिवजरिहमआयहैंगोरसलेसवग्वालिनीकीजांतिचरवायहैंसो
जीवनहौंवलिहारि।१२।नंद॰सुनिराधेनवनागरीहमनकरैंविसवास।क्योंकरको
अमृतछाडिकैंकरैंकालिकीआस।१३।दूरव॰तेरोगोरसचाषिकैंमेरोमन॰
ललचाइ।सूरनससिकरपाइसोचकोरनधीरजधराइ।१४।मो॰मोहनकंच

ली॰

त्रु

कुंवारि।२५।अमङिजनगहेंलालजूश्रीकरदेतदुराय।अमिनतईचलिकुं
जमैंसोनैंकपलोटेंपाय।२६।नं॰जानतहौएकौनहैएतीढिठोदेतश्रीवृ
खजांनकुंवारिहैसोताहिवीचिकौंलेत।२७।उख॰गोरेश्रीनंदरायजू।अ
असरांनीजसुमतिमैयतुमयाहीतेसांवरेसोऐसोलछिनपाय।२८।नंद
मनहमारोतारनवसेऔरअंजनकीरेखचोरवीशीतिहियेवेधपोसोय
तेसांवरेनेरख।२९।उख॰आपुचालसोचालियेयहैवडेकीरीति।ऐस
कबऊनकीजियेसोहसिहैलोकविपरीति।३०।नंद॰लेवूलेफिरतहौऔर
कछूनहिकांम।घाटवाटमेरोकीयोसोआंननसोआंननमांनतस्यांम
३१।उ॰यहीहमारोराजहैव्रजमंडलसववौर।यहीहमारीकुमदनीसोव
दनकमलकीवौर।३२।नं॰ऐसेमैंकोऊआयहै
सवैनंदलालजूप्रगटहोतहैप्रीति।३३।उ॰श्रीवृंदावनगिरनदीपसुपं
जेसंग।इनसौंकौनडरावहैसोप्यारीमेरोअंग।३४।नंद॰अंसुवाजधरिले
चलेप्यारीवरननिहारिनिरखतलीलारसिकजूसोजहांदांनकीवोर।३
उखजांनलडैतीदांनदै।।इतिदांनलीलासंपूर्ण।।१।। ।।श्रीरस्तु।।

१ पियाविनि	ग न	
१ प्यारात	२ ग तञ्श	४ न
१ तका न	प्यारोग	४ उादरदन
१ न रव	कप	५ नालल
१ मेरोतन	२ कत	५ अ सजन
१ हो न	३ मकीछाह	५
२ यह	४ जा यार	५ लगनला
२ वे मा	४ नेनायू	५ पी
२ न सुर	४ कहाकतह	५
क	४ पालपिया	६ अ मे न
त	४ लालर	६ जान
वृदावनमग	४ मीता	६ च कुवर
		६

६	कठिनलगन०		जाकोवेद्र०	१०	नीदभरीअषियां०
७	रेकन्हैयानै०	८	अणीसिरधुं०	१०	राधेतेरेनैंन०
७	वंशीवाजेका०	९	रहेदोऊव०	१०	होकांन्हजी०
७	सुनिमुरली०	९	वनरोरंगी०	११	प्यारीकेच०
७	लालतेरीमु०	९	मोरेसा वे पांवसोरिति०	११	हमारेमाई०
७	जयतिश्रीकुं०	९	आयाहृज०	११	फूलतलाड०
७	अवहोसर०	९	मांन्हींनांन्हीं०	११	करि कि यार मतेवारागटो०
७	सवडषगेह०	९	होघनगाजे०	११	कैसेकैजांऊपा०
८	मुरलियाको०	१०	नांन्हींनांन्हीं०	०	नैं[illegible]हीं०
८	इनसोतिस०	१०	गढेदोऊस०	११	देखिवदरिया०
८	वंसीधुनिम०	१०	दोऊजनमी०	१२	गलेविच०
८	सुनिरीसषी०	१०	नवलरंग०	[illegible]	ससरच्यो

१२	हमारेई ८०	१५	कानूथारीवा०	१७	वंसीमनमोह०
१२	जनमसुनत०	१६	वेञीकादोहा०	१८	वैनवाजेजे०
१२	रमकिरमकि०	१६	वनमालिया०	१८	हेलीहेमोहन०
१२	कुंजमहल०	१६	गहरेगहरे०	१८	मुरलियाको०
१२	तुमघनसेहो०	१६	दईयाआवे०	१८	साडीयारीवे०
१२	कार्तिकमास०	१६	हेलीमुरली०	१८	मोकोगयो०
१४	आजिम्हारे०	१७	कान्हवांसुरी०	१८	जरदडपटा०
१४	जागोजागो०	१७	मुरलिया०	१९	क[redacted]लगन०
१५	अलेजागेहो०	१७	गईकरवी०	१८	वनवाजेहे०
१५	मेरीस्वांमिनी०	१७	सुनिरीआई०	१९	कन्है[illegible]०
[illegible]	री०	१७	[illegible] ०	१९	ता० [illegible] गा०
	[illegible]	१७	[illegible]	१९	चलेजातग०
	[illegible] ०	१	[illegible]	१९	[illegible] ०

गरीरा
२

२४ बे पावरनी कीनी

१९	कदमकी छांह	२२	नैनासोहनेरं०	२४	मंगलभ्राजस०
				२५	हो बनजारी
१९	वीरीषेव०	२२	मीजमा हारी चुनरी	२५	मतहारारा०
१९	कवलकेपा०	२२	वलेमीलना०	२५	होवालिमजो०
१९	फुकरहो०	२२	खुलवहिका०	२५	घेलतफागहै०
२०	कौन नहीं दीलेम	२२	लडै नीय है नैनाव		
२०	श्रीरामवड०	२३	मुधरषीलार०	२५	फुलोपालने०
२०	मेहरिपतित०	२३	नटकलवल०	२६	माई हीमीवेहरि०
०	निपटबिकट०	२३	रसीयालैरेका०	२५	बुजरीनाहोसुन०
२०	नयोवेरमो०	२३	वनवारीके०	२५	श्रवहीनेकपो०
२०	मोहनव०	२३	होरीकादोरा०	२६	नंदगोपराज०
		२३	कुंजमहल		
२१	आदिनीरज०	२४	अयोरंगसर होरी	२७	नंदमहरकोला०
२१	किसोरीरसरास				
२१	आरतीजुगल०	२४	धामावाकर०	२६	नंदजीरवालो०
				२६	कोन पटीत
२१	थेईताल०	२४	फागलीयारो०	२६	सांवरियावीत०
२२	होजमुनांजल०	२४	पीयाप्यारप्यारी०	२६	चले मिलना०
२२	अलीहुं कोकरजे				

२६	कन्हैयानी०	२९	अरीकुंवाहिर०	०	नईरीस्पांम०
२६	काकरीकोन०	२९	आजनवनवसे०	३१	तरवरछाह०
२७	तमिनवालहैन				
२७	फुरमटलोगो०	२९	अबसुनि०	३१	व्रजकेलोग०
२७	चोपडचतुर०	३०	आजसषी०	३१	व्रजकेप्रेमसें०
२७	सांवरेकोरंग०	३०	नयादेषिपी०	३२	जैतश्रीकृष्ण०
२७	नेईकोनयह०	३०	भुलिगयेमो०	३१	होरीवगर०
२८	मरदकादोहा०	३०	प्यारीनीहारी०	३२	फूलनगरयह०
२८	सषी ⁝ सुनिवा०	३०	नेणानीद०	३२	ईतमनईकुस०
२८	आतुरवेन०	३०	दीलीनथ०	३२	पनियानजाकरी०
२८	बोलततथेई०	३०	वहघरीकोन०	३२	अवतोस्याम०
२८	दोकमिलि०	३१	रीझोरैटेलीरंग०	३२	देषिसषीदप०
२९	आवरीदेषि०	३१	दोकमीलिक०	३३	मोहिकोनपी०
२९	दोसनीलपीत	३१	यहोलालकृ०	३३	हुवाहेईस्क०

१०

३३	देषामनमोह०	३६	सुरंगीसेजारंग०	३८	डगनरिनीरघुरीजोरी
३३	मनमोहना०	३६	ब्रजबीजव्हशामी	३८	पटडारोसैलोनेमोहन
३३	प्यारीनीहारि०	३६	मोहनजीमहार	३८	औजेदेवदीवाकर
३३	रहेदोषपाय				
३४	ऐसेकृष्णको०	३६	रतनालीहोप्यारी	३८	आदितूहीदेवदेवसा
३४	प्यारीजीकामा०	३७	अणीदाछेजीरा	३९	दरसनपायेतुम्हारे
३४	कुंजपधारोजी०	३७	हेवीरतालीतेंतो	३९	दरसदिषाघूरमोर
३४	मंगलमीनी०	३७	होरमीलीवाजी	३९	मोलघुमाइहोतेंडी
३५	फूलेफूलेल०	३७	आयोघनघोरम	३९	उज्जलम-हलपरव
३५	फूलनसोचैनी०	३७	प्यारीकोमनलषि	३९	एकादशीआवन
३५	फूलमहलफू०	३७	कितेदीनछेजुग	३९	एकादशी
३५	प्यारीजीमेरे०	३८	प्रीतमप्यारीराज	३९	कनकपचीनामोहत
३५	तुमरंगनीने०	३८	मनआयेरीमनमा	४०	पवित्राउछवकोदिन
३६	नवलनिकेसी				
३६	आजरंगहेमाको०	३८	हीन्डरमांवरोजुत	४०	ववईयाजानेवरसन

३३ [illegible]

४०	मधुवननीकटगा	४२	आजराजदशरथ	२	होतोसोजारेपिजुमा
४०	आछेआछेदोतुम	४२	आवोनकेसरिया	२	वैवेहैहीगोरवीच
४०	विद्यावयोपाकवि	४२	परगरनैननआमी	२	मखीसावरीगोरीयेकू
४०	विद्याकवितापढि	४२	मनकीपीरआनो	२	उतरेफूलेतैसोनासि
४०	प्रथमपंचमीवेत	४२	मनउरकेसुरझना	४	नितिगरजिगरजिगा
४१	मंगलनिधदूजरा	४२	रघुकुलमंडनक	४	सुंदरनंदकुवारफूल
४१	राधेराधेराधेराधेकुं	४४	अरोरंगफूल्योहै	४	फूलतरगहीडोरैन
४१	वशिनादवातीजति	४४	सुहोघनोलागत	४	फूलतहैदोऊसपी
४१	स्त्रिदेवदिवाकर	४५	वादवधाईवाजेरे	५	वालविनोदीमेरेही
४१	मेकरगिरजापति	४५	वाजतआजवधाई	५	इतिसंपूर्णः
४१	गाईयेगाईयेगाई		इतिसंपूर्णः	६	नंदजमेरैमनआनंद
४२	वनीहैनीकीमोरधी	३	रागमलारलिष	६	हवजमागनेभ्रजज
४२	मेरेघरमीतोमोहन	३	येहेलालफूलिये	६	म

१	फलेगोयम्वालब्रजरा			
२	रावरकैकहैगोपस्मा			
२	नंदवधाईदीजेग्वाल			
२	लालकोजनमदीव			
२	रजउरघंघरस्नातिग्रा			
	इति॰			

रागमलार ॥श्रीगोपीजनवल्लभायनमः

१	आयेमाईवरषाके॰	२	वृंदाबनकनकभूमि॰	४	झूलतस्यामपियासँ॰
१	स्यामसुनीनीरेआ॰	२	अवहीरंगराच्योमुर॰	४	झूलतलालवृंदावन
१	लालमेरीसुरंगचुन॰	२	हिंडोरामाईझूलनके॰	४	माईरीझूलतरंगहि॰
१	राधेरूपकीघटा	२	छबीलेलालकेसंगि॰	४	रमकिरमकिझूलनमें
१	सोभामाईअवदेष॰	३	हिंडोरनायोपियरम॰	५	सोसांवनआयोहे॰
१	दोऊजननीजतअट	३	झूलनआईब्रजनारी	५	झूलततेरेनैनहिंडोरे
१	लाडिलोलडायतु॰	३	राधामोहनझूलत॰	५	तूराषिलैरीझेरातरल॰
१	कुवरिवलहोआगे॰	३	रंगमच्योसिंघद्वारे॰	५	आजिलालझूलतरं॰
१	गावतरसिकरायगो॰	३	तैसोईवृंदावनतैसीही	५	राधिकेसंगसुभगगि॰
१	अलापतचोषीतान॰	३	राधाकेसंगिसुभग॰	५	लालमुनिनिकेकुंज॰
२	स्यामहिंदेषिनांचेमु॰	३	हिंडोरेअवझूलतहे	६	झूलतदोऊलालगिर॰
२	आईजूस्यामदलघटा	४	आईसकलब्रजनारी	६	नवललालकेसंगिजू॰
२	पावसनटनट्यो॰	४	रमकिझमकिझूले	६	

६	फूलतसांवरेसंगगो	९	फूलोसुरंगहिंडोरें	१	आलीरीफूलतनंद
६	प्यारोप्यारीफूलतसु	९	सुंदरगोवर्धनपरवत		सजैवृंदावनमधुरी
६	बिहारीजीनारीफूमा·	९	हिंडोरैफूलतलालगो	२	फूलतदोऊसुंदरं
६	नवलरायगोवर्ध	९	फूलहिकवरिगोपराय	२	माईरीफूलतनवल
७	हिंडोरेफूलतमो·	१०	हरिफूलतव्रजनारी	२	गोकुलरायकीपोरि
७	फूलतदोऊकुंज·	१०	फूलनआईव्रजिकीना·	२	चलीहेवडडीफूले
७	पियप्यारीरसफूलि	१०	तैसोहीवृंदावनतैसोहरि·	३	नवलाहिंडोराहोफू
७	अपनेप्यारेकेसंग	१०	फूलतरंगाहिंमरेहो·	३	माईरी
७	प्यरंगमच्योसिंघु	१०	स्यामास्यामवरावरिवैठे	३	देपियेवनसोभारा
७	स्यामकुंगोपीकुला		॥श्रीराधावल्लभोजयति	४	फूलतकुंवरिगोपरा
८	फूलनकोहिंडोरो	१	फूलतवेनवलकिसोर·	४	सुभगहिंडोरनांमा
८	हिंडोलेफूलतनव	१	हिंडोरैवेफूलनआई·	४	तराबिलेरीफूला
८	छबीलोसुपालफू	१	हिंडोरनांमाईफूलतगो·	५	रमकिझमकिफूले

५ ३ ०२ राषीकपद

|३ मलारस्तं० |२ स्पंघपेरिगदमाहन

१ श्रीगापीजनवल्लेजौ० |२

१ जमनांतटस्योम |१ |२

|१ |१

|१

जोपैंकोऊसांचीखी० |१

२ |घरादा |१

२ |१

|आयोआगनरेसन्द

२ |स्यामसु

२ |प्यारीकेचिन्हविथ

३

श्रीगोपीजनवल्लभायनमः॥

१ श्रीकृष्णजन्मोत्सवके	५ गोद्ग्वालनैमंगल	९ लालमाईपाल
१ प्रथमहीआदौमास	६ मंगलगावतीहैव्रज	९ पालनैझूलो
२ बालामैंजोगजसगा	६ झूलोएकनईवातसु०	९ नंदकोबालह
४ रानीजूआपुनमंगल	६ जनमलीयोसुभलग०	९ झूलोपालनैमे
४ जसोधारानीपुवर्णफु	६ यहधनधर्महीतैपायो	९ अपनेबालगो
४ आजनंदरायकेआनं	६ रानीतिहारोघरसुवस	१० सांवरोसुषपन
४ आजिआगननंदकेद०	६ नंदजूमेरेमनआनंद०	१० झूलीचा
४ आजिमहामंगलमह	७ वृजिमेंअद्भुतढाढीआ	१० करपदगहिअं
४ सबग्वालगावैगोपी०	७ हौंघरकोढाढियोति०	१० जसुमतिमंद
५ आजिवधाईकोदिन०	८ लालपरवारनेकीनी	१० हालरोमेरेबारे
५ तुमजोमनावतीसोदिन	८ ढाढिनीनाचैरंगभरी	११ तुमव्रजरानीके
५ घरिग्वालदेतहैंहेरी०	८ मंगलद्योसछठीको	११ माईकमलनै
५ नंदवधाईबांटतठाढे	९ चौकतैंउठिनंदरानी	१२ प

॥श्रीगणेशायनमः॥ वंदौं श्रीरघुनाथज्‍नूपायागुरूजगतेस तासकृपाकरि॥ कहतहों परमप्रीतिउपदेस १ क्याहिपरोजनकारजो होमकनागतमांहि व्यतीपातमावसग्रहन तुलादानमखमांहि २ सतीज्‍यसुतजन्मको नौतन वधूविवाहि कंकनकोरनचढनको हरिजनलेतनताहि ३ सतीजन्म ग्रां नदेउकोचढौजतस्यौनारिफेरियोदान मूलशांतिसंक्रांतिको ग्रांनउचिष्ट ग्रमांन ४ कलप्योकवारेहातको विमुखसावनकोभोज इनसैंजोग्रनुर क्तहैतौजायजनकोषोज ५ निंदे निंदकनींचधन जईयानृतफरेस पीर सीरणीबाइकै खोवैसुकृतलेस ६ नांविस्वासीगुरुविमुख ग्रधीनपासी ग्रंन्न कुदृष्टदृष्टीयेतकोलेतनकवजग्रनंन्न ७ जइनकोलेत उष्टबुद्धिहोइजनमैं कवजनग्रावैचेत ८ सुनौं छिनएकहे ग्रपलछिनचालीस इनैंटारिपदधारिहै सोपावैपदईस जैसैंकांजीदुधमैं परतहूंदहीग्राय हरिविमुखनिकेग्रन्नतै लाय ९ चागिगकीसीहतिधरैकरैग्रंन्नग्रनपांन

सबजलधारसमांन ११ जोरघुनाथकोदासहै सोचालै इहिमाग सो
धूजननिमैं ताहिकहैकउमाग १२ सीतारामशरणांमशरणांमकरि अप
नदीयेचताय अन्यसाधद्विजकूरमैं सबहीमेंलपाय १३ परमउपदे

१२	हहनिस्यनेमज॰	२५	तदेषिसुताव्रखमें	२८	
१२	कूलतपालनेन	२५	वरसानेबृखजांनमे		

वरसानेवरसरोवर

३ ३ १८ दादनिहजरांनीजूकी

१९

१८

१३	जनमलीयाहरव	१६	आजिराव लिमैजे॰	१९	लडतीपालनेकूले॰
१४	प्रगटीनागरिहू	१७	नईवृखचांनकेसु॰		श्रीराधावल्लभायनमः
१४	श्रीवृषभांनराय	१७	राधाजूकोजनमसु॰	१	श्रीकृस्नवधाईलिष्यते
१५	जबतेराधिकाजू	१७	गोकुलतेयाँजतवा	१	आनंदआजनंदकेद्वारे
१५	आयेनादोकीउ	१७	प्रगटनईराधाजू॰	१	आजनंदकेद्वारेभीर
१५	आजिवरसाने	१७	आजिरावलमेंजे॰	१	राजेसववराजनिमनि
१५	चलोवरखांन	१७	मेंदेषीसुतावृखभा	१	वाजनलागेआनीवाजे

२	आजवधावोमाईरी	९	माईलालपालनेंझूला	१४	मंदिरवृजैवृषभानके
२	मिलिआवोरीसजनी	९	व्रजजरानीकेगोप॰	१४	नाचतगावतढाढनीके
२	मैंनमरिदेख्योनंदक॰	९	झूलीचायनजलसव	१४	जउवेंसीजजमान
३	सुंदरव्रजकोवाला॰	९	आजपीयाजूकीवधाई	१४	होव्रजवासीनकोमंगा
३	व्रजनयोमहरकेसुत	१०	चलोवृषभानगोपके	१४	रानीमांगनहोआयो
५	गोकुलराजकेधाम	१०	आजवधाईहैवरसानै	१६	अथराधाजीकीव
५	चलोमईयावोनंदम॰	१०	श्रीवरसानैंआजसो	१६	वरसानेगिरवरसुषद
५	आजवधावोव्रजरा॰	११	वरसानैंतैदोरीनारी	१७	रंगवरसैहेली
६	आजकहांतैयागो॰	११	प्रगटीश्रीवृषभानक॰	१७	लडैतीपालनैंझूलै
६	नवनव्रजराजके॰	११	मैयाआजरावलवज	१७	अपनीकवरकीमोरी
६	वरनोंचाहतकछू॰	१२	प्रगटीश्रीवृषभानकी	१७	दीपमालकीहटडीकोप
६	विमलजसवरननक	१२	हेरीहेरीमैयामलो	१७	दीपदानदेहटडीवैठे
७	झूलतपालनैंगोविंद	१२	रावलपतिरावलमें॰	१८	व्रजमैअस्तुतढाटीआयो

७ ९

		अथबावनद्वादशी॰	३	
जलजात्राकेपदलि	१	अथदानलीलाकेपद	३	
	१		३	
	१	ख्येदानकोह्नहीले	३	मधीरीहोंजगदथधिवे
	१	गोरसकद्दादीपावन	४	करतकितकमलनन
	२		४	दानमागतकबरके॰
	१		४	
			४	नेकरहाटाटादही
			४	माभाजज्ञानदेह
			४	
	२			
	२		५	
	३		५	

श्रीगोपीजनवल्लभायनमः

५	आनंनदैकछांडोमे	८	८	अथमांझीकेपदलि
५	कोपैटोटानेननवा		८	अपनोनलकंतीगाइये
५	अहोनोसोलाछिले		८	मनविरिम्यांडपहरी
६	छांकोमेरीमटुकी			
६	अजकोषारसांकरी			
६	कवदोनदीनोयाहा			
६	इंहिवागेंलरीऔमो			
६	अथवावनजीकीब			
६	प्रगटश्रीवावनअ			
६	वलिकेद्वारेठाटेवा॰			
७	हमरेक्योंआयेवि॰			
७	राजाएकपंडितपो॰			
७	देषिहरिजिवंपनव॰			

श्रीगोपीजनवल्लभायनमः

१	अथदसराक्षपद	३	जवककृत्याहनुमान
१	आजदसहरायेदीन	३	रासकेपदलिमते
१	वीजदसमीआजप	३	मानलागोगीरधरगावे
१	कजरआजिमोहा	३	गंचतअरवनांनकुवर
१	आजदसराश्रमदीन	४	देखोदेखोरीनागसट
१	वीजेदशमीओरवी	४	आजुनंदनंदनगोविंद
१	माहीकहतहेललि	४	चलेजराधिकेसुजान
२	वृवामेवहतरहेहो	५	अक्षुनागरीकीसोरन
२	आजपयानेकादी	५	वन्मारासमंडलममाध
२	आजदसराश्रमदीन	५	वृंदगोबिंदगोपीतारा
२	सलमजरतवीजदश	५	अपनानंनदनीनाचत
३	दविहोकतरथुना	५	वन्मारासमंडलएवुन

६	ललनतनैयालौर	८	ललथेइथेईकरत		
६	एरीइहांवृंदावन	९	बिर्लमानलामनी		
६	आजुवननीकोरा	९	सुनिधुनिमुरली		
६	नागरीनटनसाधव	९	पाईरूपमुरलि		
७	रासविलासरंगम	९	पियकोनचवत०		
७	रासमंडलमेवन	९	लाडलीबमानेवा		
७	अलागलामकुर	१०	अथधनतेरसकेप०		
७	नांचतरासमेंगोपा				
८	गोपवधूमंडलम				
८	कमलनलतनया				
८	गोपवृंदसंगनवल				
८	रासमेंरसिकमोह				

॥श्रीगोपीजनवल्लभायनमः॥

अथ	दिवारीकेनूरणथवे·	३	गोकुलगोधनपूज	४	चिरंजीवोलाल
१	बलिन्हायेतेसेंही	३	फूलेगोपग्वालध	५	करिहैमङ्गलव
१	न्हातबलिदाऊक	३	आगुरीगहेनंदबा	६	आनाधोजूराबे
१	आजिन्हातमेरे	४	गोधनपूजनसब	६	महाबलकोनं
	दिवारी	४	गोवर्द्धनपूजनक	६	राजेगिरराजआ
१	दीपदाननेहहटरीवे	४	गोवर्द्धनपूजोगोप	६	नंदादिकहूज
१	दीपदानब्रजराज	४	गोविंदगोकुलकी	७	जननीचापत्तु
२	पूजाकरिदेवगोव	४	बरषनदेहैयाबरषे	७	मेरेसांवरेमेव
२	घरभैतैवाहरितवि	४	गोकुलकोकुल·	७	नंदकरतपूजा
२	गोवर्द्धनपूजनआ	४		७	छिबछिबछि
२	लीलालालगोवर्द्ध	४	राधिलेक्ष	८	हहब
		४	बलिहारी॥	८	करतनद

८	आजिअमावसदीप	११	स्यांमधरिकेहारे	१३	कहोमेरेबारेकोलाल
८	आजिकहूंकीराति	११	नीकैषेलिगोपलकी	१४	अपनेअपनेटोलक॰
९	दीपदानदेस्यांममनो	११	लालगिरवरपूजो॰	१५	देषोमाईवादरकोक्र॰
९	देषोइनदीपककीछ॰	११	हमरेदेवगोवर्द्धनपर्व॰	१५	वारीमेरेकांन्हरप्यारे
९	कांनजगांवनचलेकू	१२	वडेरेनकोआगेदेगि॰	१५	जैजैलालगोवर्द्धन
९	गोवर्द्धनपूजाकेदिन॰	१२	गोवर्द्धनपूजाकरिगो॰	१५	जयतिजयतिश्रीहरि
९	टेरिटेरिबोलतनंद॰	१२	षेलनकोंभोरीअकु॰	१६	नंदलालगोवर्द्धन
१०	दीपदानदेहटरीबैठेनंद	१२	षेलिवजषेलिगांगावु॰	१६	सुरराजआयपायन
१०	सुरभीकांनजगाव॰	१२	गुरुवोंरंभाधवासुद्धा	१६	इंद्रकोपतेहजजन
१०	दीपदानदेहटरीबैठेब्रह्मो॰	१३	गोधनपूजिकेंघरआ		
१०	दीपदानदेकांनजगाये	१३	तारोतारोह्रजजनलो॰		
११	बारबारहरिसिखवन	१३	वदरांनअंवरछायो		
११	गोधनपूजेगोधनगाव	१३	गिरवरनीकोधस्यो॰		


॥श्रीगोपीजनवल्लभायनमः॥


१	गोचारनकेपद	३	आज्ञिप्रबोधनीपरमभो
१	खेलतवनहिचले	३	
१	डुमचदिकान्हटेरत		
१	टेरतऊंचीटेरगोपाल		
१	प्रथमगोचारनचले		
२	प्रथमगोचारनकोदि		
२	गायचरावनकोदिन	३	बलदेवजीकेपद
२	मैयाहूंनचरायहोंगा	३	बलदाऊकीवरसगां
२	मैयामैंकैसीगायचरा	४	प्रथमनलिजा
२	गोविंदचलतदेखिय	४	रेमनश्रीहरिवसन
२	गोविंदचलेचरावन	४	वस्त्राभरणकेपद
॥		४	[illegible]
३		४	मादनहमहार

॥श्रीराधावल्लभायनमः॥

	खेलतमोहनरंगभ्र	२७ निकसेमोहनलालखे
१३	२० मोहनकेखेलतरंग	
	२१ तुमचलोसबजोही	२८ अतिसरसस्योंबरसो
	२१ रंगहोहोहोहोहोरीया	२९
१५	२२	
१६	२२ याब्रजमेहोरीरंगकदो	२९ होरीत्र्प्राजवगरमेमाचि
रंगीलेरीछबीलेनेनो	२३ होहोरीखेलतब्रजनाथ	२९ नकीजियेनजिरनरि
१६		नमु
१६		
१९	२४	
	२६ मेरेनंदनपाछेपस्योरी ए	

३१	रंगहोहोहोरीषेले	३४	कोन्हां निलजगारीजि॰		
३१	रंगहोहोहोहोहोरी	३४	प्यारीजी केषुलिगयेसौं		
३२	होरीषेलिगदेदोऊ	३४	मोहनवारीवसिकीजे		
३२	चलेमिलिगांवतेर	३४	वोलैरंगहोरीहोरीहोरी		
३२	आजिहोरीषेलत	३४	रसफागआजिवाजै		
३२	होरीषेलैमोहनी	३५	वृजनारयांरैकुंडराधा		
३२	गलेविचहस्कप	३५	[illegible]षेलतफागसुह		
३२	आरीयहवजिमंड	३६	प्यारीलाडिलीवजरि॰		
३३	लैरगवगेवसन	३६	श्रीवृंदावनमहजसुहां॰		
३३	डजनिमेआजिर	३७	वृजराजकुंवरषेलैहो॰		
३३	आजिफागुसुष				
३३	रह्योरंगहोली॰				
३४	होपियनैननि॰				






॥राधावल्लभोजयति॥

श्री	रामजनमवधाईके	२	आजिमहामंगलके	
१	चदिगहगडवेगहर	३	देषोअद्भुतअवमति	
१	उदधिअवधेस			
१	अवधिपुरीधामआर			
१	भयोहैआजिअवधि			
१	रामजनमद्दसरथघ			
१	चलिरीआजिमंगल			
१	अवधिपुरवाजतआ			
श्री	गोपीजनवल्लभनायक			
२	आजिसषीरघुनंदन			
२	आजिअयोध्याप्रगटे			
२	माईप्रगटभयेहैरांम			
२	सुंदररामपालनेझू			

॥	ज	॥	चांदिनीकेपद	॥	अथचंदनरचनाकेपद
		४	राजतमोंनौराधानि	४	चंदनचित्रविचित्रविराजै
		४	निकसिकुंजतैंगाढे	४	हरिकेअंगकोंचंदनलपटाउ
				४	चंदनवंदनकीतनसोभा
				४	चंदनचित्रविचित्रअंग



अथदानकेपद॥रागगूजरी॥पिछोंडीबांदनदेहोनालखेमनमुमले
गुसांइरावरूमेरोमानो॥१॥मारगरोकिरहेमनमोहनसवगुनरू
निधांन॥वदनमोरिमुसकायनेंमिनींनेंठवांनसेधात॥२॥नंदरा
केकुंवरिलाडिलेसवकेजीवनप्रांन॥परमानंदस्वामीनागरहोतु
मतेंकोंनसुजांन॥३॥२॥मोहनतुमकेसेहोदांनी॥मखेरहोगेहें
नीपतितुम्हेंरेजीयकीजानी॥१॥हमगुजरीगवारिनारितुम
रंगपांनी॥मटुकीलइतनारिसीसतेंसुंदरीअधिकलजांनी॥२॥
गादिचीरकहाएंचतहोबोलतचतुरसयांनी॥सूरदासप्रभुमांप
नकेमिसप्रेमप्रीतिचितवांनी॥३॥३॥रागदेवगंधार॥सखेदानकादे
नहीलेत॥औरअटपटीछांडिनंदसुतेकहाकपावतवेत॥१॥वृंदा
वनमेंवीथनिविथनिफिरतहेग्वालसमेत॥इनवातनकेसेम
नमांनेंऔरनकरतअचेत॥२॥रवकिरवकि ठ
रपचलनदेत॥अपनेमनकीकाहे

३॥ अब कान्ह सुख जाव नंद दो आवि वन्यों संकेत सूरदास प्रभु
रंग रहस्य मे देव चलेन खेरे त॥४॥५॥ राग देवगंधार॥ गोरस कवा दि
खावन आइ॥ इत नोक राव पान दत्त के दोटा बुद्लो लहं मेरी माइ
॥ जेसी कीनी तुम दी कन्ह स्यां मंदिर तें उ बिधाई॥ पांसत्र खी मिलि
देत उराह नो इहते री कोन बुडाई॥२॥ सुंदर कान्ह छबीलो नागर इ
हि मिस देख न आई॥ परमानंद स्वामी को मिलि कें रहसि बली मु
सिकाई॥३॥२॥ मटूकी या मेरी मोह नदी ते जो कछु दधि चारवन को
चा वो तो स्वक पात करि पीजे॥१॥ उने आए घन अटक मोरहि वन
तम नें लत सारी नी जे॥ रंगु वढ़ गो अवार मोहि के देकहा कह दो
जो घर को करवी जे॥२॥ चतुर्भुज प्रभु दो का लि आय दे सांची वा तपु
नीजे॥ गिरिधर लाल तयो पगातुम्हारे दांनु आनु मति हनकीजे
॥३॥३॥ संवक वार खनं दरी दह्यो आदे तुन स्वाद सुन्यो कि तुम ओपनी दि
नें परत रह्यो॥१॥ ज्यों ज्यों कर अंबु तन उर परदां पत स्यों म रस लह्यो

नेवकुमारछबीलोदोरॆंश्रवणाथाग्रना [illegible]
रमांतेदस्मदमेंवोहनमस्त्रो॥ऽनवरणं [illegible]
हो॥३॥धा॥कहेकिनकीनोदानुद्दीकोप्रदयामं [illegible]
येदमारगतिनद्दीको॥५॥नाजनद्दीपंभनमीपं [illegible]
हीको।एसोकवल्लुमुन्योनदेखा।नपा।दपा।३ [illegible]
ननपनमुसकायमेदहसिश्रेवरपकर्णा।न [illegible]
नमहुगिरिवरमनचोदिजीपंनवद्दीक॥ [illegible]
नेदेखइहिवटियारीकतम्याप्रप्पप्पनपं [illegible]
दिबदीयां।पस्रोरनहूरकंनुकी।फलनमंता।नि [illegible]
करनवाहमरेप्रनंदमुतगादिफोप्रनदोां [illegible]
मभ्रुकवदानलीनोंऽनवानमम्रहेदी।पं [illegible]
जिपेतुम्हरंजपननदासवगानीपां॥३॥ [illegible]
रजनाथछोडकलॉरकाईनिनरमधीनिम

कुरकरतकमवरियाई॥१॥करगहिवांदनाहअपनेंस्योंहटकि
करीमारगमेंगाढी॥कवकूंछूवतलरकववकूंतोरतहारकवहूंम
हतकंचुकीअतिगाढी॥२॥एतेनेंनरोरवमेंनांमिनिजांनदेऊमो
हिनंदढुहाई॥परमांनंदस्वामीरतिनायकप्रेमवचनकहिवलो
मनाई॥३॥५॥रागधनाश्री॥गोरसवेचवेमेंजांति॥कमलनेंनविन
कोउनलेटकाहकोंमथुरांजाति॥१॥हृयदहीकेदमकादेहेंछूव
तकहाइतरात॥परमानंदग्वालिसयानीमोलकरतमुसकात
२॥१॥माईरीनागरनंदमहरकोकालकीकांनिअंतिनहिंमां
नतलरिकाअपनीअरिको॥१॥मटुकीफोरिकंचुकीवंदतोरेओ
रकंकनालायोकरको॥खलदासअनुमनहीमकुचनईमोहि
डरअपनेंहीघरको॥२॥१॥मुधेकिनवोलोहोकहाइतरानेंह
जनेंकोंनतेकोवडोनाहिनेंरायतुरानें॥१॥कोनदेवतुम्हरीदिन
प्रतिकीताकतअंगविरानें॥जेइजेइकमेंकीयेकहिदेहोंअग्रस्वा

थरपीयजत्तिनजिकंचुकीकपाट॥३॥४॥रागटोडी॥

।जोकछूक

।गंगा

टोडी॥ छांडोमेरोअंचराजिनिगहो।वोहतवचतवावाकोमोहअब अनवोलेंहीरहो॥१॥तेफिरतचोरकेंधोरवेंकूवोसांचीमोकहो॥ जिनिवेंलियातेनहींवीवनविपनविहारीफलचहो॥२॥राग आसा वरी॥ मटकीलेजुगतारिधरी।हनमोहनमेरोअंचलपकस्योतवदेंग्र पडरी॥१॥मेपेंटांनसांवरोमांगेलनेंहाथछूरी।मोहिजुतुमगहिरहेस गकीगईसगरी॥२॥पेंम्रालागिकरतहोंवानती हूकंकरजोरिखरी परमांनंदप्रभुदधिवेचनदेवरीयाजातिटरी॥३॥रागटोडी॥ सखी रीहेंजुगईदधिवेचनटजमेंउलटीआंएविकांनारी॥विनगथमो ललहनंदनंदनसर्वसुलपदिआईरी॥१॥सांवरवरनकमलदललो चनपीतांवरकटिफेंटारी॥जिनवेआंवतमोकरीखोरीनईअवान कनेटारी॥२॥कोनकोंनेंकोनकुलवधूमधुरेंमधुरेंहसिवोलेरी॥मकु विरहीमाहितनतनआवततलकरिघूंघटखोलेरी॥३॥सासुननद नपचारिकरियचिहारेंकाहूमरमनपायोरी॥करगहिवेदटटोरिर॥

मोहिचिंतारोगवयोरी॥४॥जादिनतेंमोहिसुरतिसमारीगइआंगनांपि
॥पिवतवत्त्वलतसोवतउविजागतयहध्यानमेरेंआगेरी॥५॥नी
मनिमुकतावलिमोहे।मोहिस्यामकोऊमिलावेरी॥कहिमाधोचिंता
सेरेविनचिंतामनिपाएरी॥६॥रागआसावरी॥करतकितकाम
लनेंनसोकगरो॥दांनदेघरजाहुमयानीछांडिदेकांनअंचगरो॥१॥तोले
परोमेंनमिलायोओटिजमायोसगरो॥नंकहूवनंदराजकुंवरकों
हूंनलेहेसगरो॥२॥मोहननालगोवर्द्धनधारीअवलनमांफनवलरो
परमांनंदप्रभुवतरसअरस्कीन(लिगयोहजडगरो॥३॥रागआसावरी॥
दांनमंगतकुंवरकन्हाई॥वारवारचोरीदधिवेमोरीदधिवेचोअव
कीविरमेंजांनपाई॥१॥जामेंयतिलरीमगनेंनीतिनदीसवानीवानलर
दिनकेजांननदेहोंवृजराजकन्हाई॥२॥मोहन
धनधारीहरिनागरवातनऊरकन्हाई॥परमांनं
पोओरडगरवताई॥३॥१०

देगुजरेटी चोहतदिनांचोरी दधिबेचो आजअचानकमेटी ॥१॥ अतिसत
रातकेसेंछूटेगोवेडेगोपकीवेटी ॥ कुंभनदासप्रभुगोवर्द्धनधारी भुजअोटनी
लपेटी ॥२॥ रागटोडीरेसी ॥ नेकरहोंनेंकरदोढोटादेहो ॥ जांनिहूकिवप
रावतहोकतकरिकरितामममेहू ॥१॥ कोनहानकायेगोरसकेवलहूं
दिखाऊंगेहूं ॥ परमांनंदप्रभुप्रगटकोपोचाहतग्वालनिगुपतसेनेहू
॥२॥ राग आसावरी ॥ माधोजूजांनदेहूवलीबाटकमलनेंनकाहेकोरो
कतजमुनाघाट ॥१॥ अोरसरवादेखेंगेकोकगहतसीसतेंमाट ॥ तुमतोका
हूअोरमरततनहींनीयरेगोधनठाट ॥२॥ क्यों विकायगोगोरसमेरोकर
तमोरहींनांट ॥ परमांनंदवंशावलसखीकतिदिनप्रतियहीहेडांट ॥३॥
राग आसावरी ॥ कहिदधिमोलआजदोंलेहों ॥ यहजमोतीहारकंठतें
वंशावलीगुपततोहिदेहों ॥१॥ पांनियांनिगहिवादीकानींमांकवाटवा
म्होहेकगरो ॥ बाबाकीसोंजांनन देहोंगिरधरलालहवीलोअवगरो ॥२॥
लोनदिखावायश्रीतिम्जोकीजेनांहिनेंबातभलीसवफाकी ॥ परमांनंद

प्रभुजानिमहातमजो॥हरिभजेचतुरसोईनीकी॥३॥राग ष्टरवी॥ ॥छा
डकलालहमारीवाटा॥अतिसेमुनरअरेकिनदेखनुसिरऊपरगोरस
केमांटा॥१॥रनवातनकेसेमनमांनेंजायवरावरुगोधनकेवाटा॥पर
मांनंदप्रभुनेरुसुदरीयाप्रातसमेंकीनाजहनाटा॥२॥राग ष्टरवी॥चा
लनिमीवीतेरीछाछिकहा॥धमेंमालिजमायोसाचिकहोमेरीमा॥छि॥
१॥औरेभांतिचितेवोतेरोओरहस्यलतिहैआछि॥एसोदकुन्कुकहूंनें
तंजु

श्रीगौडी॥ मैंतोसोकेतीवारकह्यो॥हिमारगसुंदरिदोटाबूरेवट
निरखतनेंकनपरतरह्यो॥१॥लोचनसफ

२ मारवौ॥

नलालनहोतहेंअवार॥घरतेंनिकसेंआजवडीवारमेमोहिसुंदरनंद
कुमार॥१॥कालिंदीजमायनलीनोंतिसोंतुमकोंलायदोंवडीवार॥कुं
भनदासप्रभुगिरिधरधरतुमरहोवेविरहीपायहेविचार॥२॥रागगोडी
फिरिफिरिकहाहेरतहैमार्ग॥कोपीतमपाछेंआवतहैं॥मांनहूनंदनं
कोकुंवरकनाई॥१॥गोरसवेचनचलीरीमधुपुरीपावपरतनहींआगें॥
एसीठगोरीमेलीथोंकोंनेमनतरसततालीलागे॥२॥देखिस्वरूपवोहदि
खितलारेपेपनांहीकेहाथविकानों॥परमांनंदस्वामीतिहिएसीकहांरंक
कहारानों॥३॥रागकान्हरो॥ कापरढोटानेंननचावतहेकोकतिं
हारेंतुवाकीचोरी॥होंदधिवेचनजातमधुपुरीआयअचानकवनमेंघे
री॥१॥मेंननिमेंसबसरवावुलाएवातनिवातसमस्याफेरीजायपुका
रूंगीनंदजूकेंआगेंजिनिकोउ छूवरूमटुकीयामेरी॥२॥गोकुलवसतु
महीछूनएहीवाहतकोंनिकरतहोतेरी॥परमांनंदप्रभुरसिकमुकट
मनिवलिवलिजांकेंस्यांमघनतेरी॥३॥रागकान्हरो॥ अहोतोसोंनंद

लाडिलेऊगरूरी॥मेरेसंगकीहूरिझातपर [illegible]
नेरहीवाटीकतकरीमोकुंतुमजां [illegible]
तुम्हरेसंगसखानदीदेखतऋवंदीन [illegible]
हकिनमोपेंग्रोरकहाकछुयापप [illegible]
ववातनिठघरूंगी॥३॥रागकांन्हरे॥ [illegible]
कोनकेरंगरूपंगचेकोनकेसख [illegible]
डारि॥पाकहकेदिनछोमवारवां [illegible]
सिधोधीकेप्रभुनंदरदवतीन [illegible]
गारि॥४॥रागकांन्हरे॥ [illegible]
नकहोंवाजनिठवेयवा [illegible]
जेतेप्रभुगाडवकोंकी॥ [illegible]
कोमेंघांकरी [illegible]
न्हरो॥ [illegible]

१ जात अब कछु तुहे यह नस्वताई ॥१॥ जो पें जानन देहो तो चलो राउल दि
सवन इन्हें तो सबे क ब तिं करत जो मन नांई गोबिंद प्रभु के नेंन नि सों नेंना
मिलैत वस कु चि च ल निं क मुरि म सकाई ॥२॥ राग कांन्हरो ॥ इहिं वागे ले
री अनोखे दांनी ॥ चले जा हु अपने रस ढोटा हम सों कोन चतुर इ स्वांनी ॥१॥
कोन हाल का ये हरि मि रे फी रिकी रिक हत अटपटी बांनी ॥ एवातें सब ब्य
रिक हुं गवि विजाज हां ज सो दा रांनी ॥२॥ अंतरगति हरि कों संग ना वे देख हु
ग्वालिनी मुख हि रि सांनी ॥ प्रान बसत तेरे कमलनें नमें जा यकाज न पर
मांनंद जांनी ॥३॥ श्री कृष्णाय नमः ॥ अथ वांवनजी के पद ॥ राग
देवगंधार ॥ प्रगटे श्री वामन अवतार ॥ निरखि अदिती मुख करत अ
संसा जग जीवन आधार ॥१॥ तन घन स्याम पीतपट राजत सोभित हे
भुज चार ॥ कुंडल मुकट कौस्तुभ मणि नस अंगुरे खासार ॥२॥ देखि वदन
आनंदित सुर मुनि करत निगम उचार ॥ गोविंद प्रभु वटु वांमन के के
वादे वलि के दार ॥३॥ राग धनाश्री ॥ वलि के द्वारें ठाढे वावन ॥ श्रवन

सुनतहीश्रानंदभयोकहेंजोतेरेश्रावन॥१॥चरणधोयचरणोदक
लीनोंकहोविप्रमनभावन॥तीनपेंडधरतीहोंमांग्योंपरमकुटीएकछा
वन॥२॥याकोविप्रकहातुममांग्योदेहुद्वीपरत्नवसुगांवन॥परमानंदप्र
भुवचननपलट्योलाग्योपीठमपावन॥३॥रागधनाश्री॥॥हमपैंको
आएविप्रवामन॥सुनतवेदहरदेरुचिवादीकेपंडुनयोन्हांआवन॥१॥च
रणधोयचरणोदकलीनोंमनवेश्राएमनभावन॥तीनपेंडधरतीहोंमां
गोपरमकुटीएकछावन॥२॥याकोविप्रकहातुममांग्योदेवरतन
देउंगांवन॥सूरदासप्रभुपेंइतनोंमांग्योचरननपीठदेपावन॥३॥रा
गधनाश्री॥राजाएकपंडितपोरितिहारी॥ [illegible]
अपहेवामनवपुधारी॥१॥ [illegible]
री॥ [illegible]
राजप्रविधाएश्राहवकुलविसारी॥ [illegible]
नोदंडोकुठारी॥३॥ [illegible]

जो मां गो सो दइ तुरत ही ही रा रत्न भंडारी ॥४॥ रहो रहो राजा अधिक न व
दीये इस न लागे नारी ॥ तीन पेंड वसुधा हों मांग्यो तव हरि धर्म सारी ॥५॥ सु
क कहें सुनि बलि राजा अमि कों दान निवारी ॥ यह तो विप्र न होय आपुन
आए छलन मुरारी ॥६॥ कयो कहा जगत गुरु जाके आपुन आए भिखारी
करि संकल्प उदक जल दीनों विप्र न दे हय सारी ॥७॥ जेजे सब्द न पो त्रि
भि मां पत है पेंड भई सारी ॥ एक पेंड दे [illegible] बचनो सत कारी
॥ सत न हारूं परम गुरु मेरे मां यो पी बिसारी ॥ सूरदास प्रभु सर बसु
लीनों पायो राज पसारी ॥९॥ राग मारू ॥ देखि द्विज बांमन बलि अति
आनंद करि लीनों ॥ सुर नर मुनि जन मिलि के अति आदर कीनों ॥१॥ हा
टक मनि जटित कनक आसन ले दीनों ॥ पखारि प्रेम सहित चरण
हु कीनों ॥२॥ [illegible] बिनती उ बिके हों जो जो तुम जावो
द्विज सो सो हों दे हों ॥३॥ हो बलि राजा अधिक न कहे हों तीन चरन धर
नी हों बसि बके ले हों ॥४॥ हय गज रथ क्यों इन्हीं ले हों नो ही बिना त्रि

रवें उमड्यो डिकह्यो महो॥५॥ तुमतो वलि समर्थ देवेक्यों ही राजा॥ द्विजकों मंतो रव धर्म धन कों कहा काजा॥६॥ सुक्र कहे राजा एसी क्यों करिहें देवन को काज आय सर्व सतेरो हरिहें॥७॥ सुन रु सुक्र अरु तवचनको छून हीं मा रवें॥ सुनज सुक्र भयो मन धर्मरा दृ॥८॥ वं ध्या वा लि अ्रतिप विन जल लेकें आई॥ द्विज वर के पद परवारि अ्रति आनंद पाई॥९॥ जब राजा भ्रमि दान जल कर में डास्यो॥ तब वामन निज स्वरूप विस्वरूप धास्यो॥१०॥ जय जय करि इ जगत भयो सुरपति मन हरषे॥ ब्रह्म रुद्र आदि सब यों हम न मेवरर वें॥११॥ सरव सुतल राजा को सुतल राज दीनों॥ निज जन जीय वानि द्वार पाल होम रव दीनों॥१२॥ नंद कहे तव धरि स्वरूप लीला प्रगटाई॥ अ्रति आनंद देषे ममगन गो विंद यह गाई॥१३॥ अथ सांभी के पद॥ राग गोडी॥ देरवा नों लड़ेती गाई ये कीरत कुल मंडन वालहे॥ साने की सीवे ठ हें प्यारी वं षे की सी माल है॥१॥ हंसगवनी मृग लोचनी हो सो भित सहज सिंगार हे॥ चमकत वंचल

चीकनेहो सिसमटकारेवारहो ॥२॥ घूंघरवारेबारनऊपरसोहतसुंदर
सारहो ॥ चंदकेफंदपरेअरहा नंदनंदनकेकंचनजारहो ॥३॥ अवलसव
नेहगात्रतिगाढोदरियाई अंगीयांपीतहो उरजसुमटकंचनकाव
नसजिआएरतिरणजीतहो ॥४॥ कसकटिकेहरिदेखिडरेहरिजेहर
तेहरिपायपहो गजगचलीकवनीअपवीरवनीरतिलेनवुलायहो ॥५॥
कस्तूरीलालकेफलकेपलकेंनलगेंछबिदेखिहो अंग सुरानमुद
रीपरूंधीगजराबाजूबंदविसेषहो ॥६॥ चंपकलीचोकीचमकेदु
लरीपीयपोतिहो चितकोलेतचुराय अलकछबिवदनचंदकी
जोतिहो ॥७॥ असनअधरदमकतदसनावलिचौपचपलताचारु
हो ॥ कमलकोसमेंवैठीपंकतिसोभितनंकुगकुमारहो ॥८॥ वेसर
कौमोतीलटकेमटकेरवटकेपीयप्राणको ॥ सुवनवनीरुविमनीक
नकंकीननकतरुकलीकांनरो ॥९॥ पीयत्रखमोरवनरतिरसमो
चनवंकेलोचनचारुहो ॥ कुंवरकिसोरखकोरवेंटुवापटतवंदक्स

रहे॥१०॥अलिकुलगंजनरतिरसरंजननैननअंजनदीनहे॥कीउत्त
मुधासरोवरमहियांमनोंमनसीजकेमीनहे॥११॥भमरसदाईकनद
रसनाईकसायकघायकनैनहे॥कीरकुरंगमुरंगकवलकोनेनसें
वेनतवेनहे॥१२॥कारीऊपकारीअतिआरीकुनावैनैनेकविकों
नहे॥मोहेंमुविमोहेंमोहामनहावभावकेनोंनहे॥१३॥ ॥ ॥१॥
॥मुनविरीयाऊपहरी।यांकेरूलकीवेंदीदीनीलालहे॥ईंदव
धूमांनोंकमलचंदकोंआईमिलीपीयवालहे॥१४॥सीसफूलोंसें
मोहेंमोहेंवनीतनककनिककीआडहे॥विवुकवारुमुमिक्याईह
मतजवपरसकपोलगिगाडहे॥१५॥ईहविधछवीअगाधासद्विराधा
मखीयनमांकहे॥विटयावजतऊगेयिनकीसंगरवेलनमांमांसें
सांकहे॥१६॥गोधूलकविरियांटीरीयाकूलनजमुनाकूलनिस्यामं
हो॥कूलनतोरतलनहीमरोर

लेलावृतलतितापटकीअटकीकटिसौं॥ हो॥ रसकिकसकिपल्ल
वनवांईबाटीवीनतीफूलसवीनहो॥ १९॥ फूदिकुंदकरनीकोमल
निवारीनिरवालवैलहो॥ ललितलवंगलतावृनितापररहेंहेफूमि
काफेलहो॥ २०॥ नारीनूहीकेतुकीनिवारोचंवेलीअफवेलहो॥
फूलनकीकरिगेंहूकवालावनमेंरवेलतरवेलहो॥ २१॥ बालसरीके
फूलनकीगकफूलीवनावतिहो॥ स्यांमाअतिरामासुरवधांमारवे
लतरवेलअनेकहो॥ २२॥ तिहछिनकुंजविहारीजूदेरवतकुंजन
कीओरहो॥ रहेहेंचित्रकेसेजुचितेरेलगेहेंडगनकीचोटहो॥ २३॥
कीयोसरवीकोरूपलालनरिलेगुलाबदलगोदहो॥ त्रीयारूपध
रदरसनपायोमननमेंमाननमोदहो॥ २४॥ निरखिनिरखिहूंपसो
ननंदनीबोलीवचनरसालहो॥ सबसिंगारमेंहमोहेंतूकोहेरीन
ववालहो॥ २५॥ तूकोंफिरतअकेलीहेलीइहवनजमुनांकूलहो॥
नंदगांमबरसाकीकोंडूवीननआईफूलहो॥ २६॥ उनकंवितरा

खतांननंदनी कंम्रुजाउरमेली हे॥ म्रानम्रवारजड पांची कं नमे
गहमोरे खेलि हे॥ ७॥ सखीसबबोलिबोलिगारंनन बुनिफुनां छांन
हे॥ वडीवारघरजेंदेंते खीजतदेंबाबावृखतांन हे॥ ८॥ चंद नागारं
डुाबलीचंचलनेंनीचलीपेधाम हे॥ वदोतफुलवीनंद म्रुपांनम
नकेकाम हे॥ ९॥ कमलफिरावतिगीनतम्रावतिम्रावनंघर
जबाल हे॥ फुलनकीकरगेंडुफलनकीपांफु [illegible]
१०॥ माईबाईउरलाडलडेकीरवतपर [illegible]
ईसबनीतम्रापुम्रारतीकीनहे॥ ११॥ [illegible]
मांजलीपीनीतहे॥ कांमवेंत [illegible]
हे॥ १२॥ धूपदीपधरिनेंप [illegible]
नगीतपुनीतकिमोरी [illegible]
संगखेलनचलीम्रपनें [illegible]
खीसुखन [illegible] [illegible]

मांपतिसुघरसुजांनहो॥रसिकरूपअरकेलकलीसुखसागरआंण-
तीआंणहो॥३५॥सरदनिसासुखईहविधिराधामाधोजनितविहा
रहो॥सोलापरवलतांईस्यांमघनअवलोकनसुखसारहो॥३६॥

अथ दसारहजके पद॥ राग सारंग॥ आजु दसहरा यह दिन नीको या
यतो पूजो देयगोपाल॥ ब्रजरानी ब्रजराजकुवर कों करहु सिंगार
परम रसाल॥१॥ वदन सुनंद फूफू राम देगावत मंगलचला इथा
ला तिलक करत और जो तरसत आरती बारतिदेजीजीव तुला
ला॥२॥ तब ब्रजराज अरु सिंगारे तापर चढे गिरिधर लाल॥ रसि
क प्रभु पीय चले देखें कुन्दावन जहां वेवी ब्रवनांन की वाला॥३॥ अथ
विजेदसमी आज परम सुहाई गोधन अरू आदी पोपगई गोप
सकल वे वे हें अपांड कुसरम नावत सुनदिननाई॥१॥ ब्रजरानी
ब्रजराजकुवर सहित की रति ललिता त्योति पवाई॥ आज दस
रं बडो परब है तुम सब जेवन आयो कांई॥२॥ करत सिंगार गिरि
धरन चंद को चंडावली परम सुखदाई॥ मथत पीतसे तवागो भु
ल्यो लाल पगा पर जो थदराई॥३॥ काज र आति तिनो दस टूक देति
वुतोर आर लेत बलाई रसि   वृरवेनांन

मदनजहांकुवरमनभाई ॥५॥२॥ आजदसहराकुनंदिकुनिकोविने
करोपीयप्यारीयें आजु ॥ इननीवानसुननंदनंदनविहसिउठेद
लकीनेमाल ॥१॥ रसिकअनुपीयरतिपतिजीमोनूपुरकिंकिनीर
नतुरबाज ॥२॥३॥ विजेदसमीओरविजयमहुरतश्रीविठ्ठलगिरि
धरपेंआवत । करसिंगारविचित्रभांतिकोनिरखिनिरखिनेंनति
मुखपावत ॥१॥ मृगनलालओरसेतचोलनांकलहीजरकसी
हेमतनावत । विविधिभांतिअंगभूखनसोभितसिरकेकपिछु
जापदरावत ॥२॥ साजिकनककीथारहाथलेकुंकुमतिलककलि
लाटबनावत ॥ अछतदेत्योअंकुरसिरपरधरतनिरखिनिरखि
मनमोदबढावत ॥३॥ बाढतओगवीराओगेधरिहृतिनांमिनीमि
लिमंगलगावत ॥ नीराजनवारिश्रीमुखपरगोविंदहरखिउरधा
रत ॥४॥४॥ राग सारंग ॥ माईकदतहेंललितानातरसेविजेकरन
कुंआओगेकबे ॥ सजिसिंगारनवनागरिआपुनसोधोसेनसजि

।सुनिमृडवचनमंदतमोदतर्ईअंबोन्नतद्यैसिद्‌मित्र
रागसारंग॥ चोत्रमेंचन्द्रतिरिद्हेस्वात्न कदं
नाएकतेएकसुभूरवारवनारीतुमतो
केमनत्नांवन॥२॥कत्मोगकरलीनोंदमिए
छमिमोंहीयेंगतांवत थोंथीकंअनुभवी
॥नजा।तिथ्रवीन्ना३समुफांवन
॥जारिव्जिवेवेबरसोदीरवात
॥कुत्वान॥पालीयेंगोदगिरथ
॥कनकथारमेंगलसमाज
॥स्नामेंटेरलग्योहेंथकोदतनंदको
॥रिहजवात
॥तिानंददमक
॥

।२। आजपधानेकोदिननीको ॥ कुसललालऔरकीरतहोई ॥ पूजबेम
नोरथजीको ॥१॥ आनुलनबलअनुलनमेनामें हनुमानकोटीको
जांबुवांनसुग्रीवनीलनलअंगदवालिबलीको ॥२॥ विजैदसमी
औरसिंधुदाहनेंबांधोघरजोगिनको ॥ दिसासलमारतपुनिपाछे
रावनमरनसदीको ॥३॥ मीमीरिषिमुनिरिष्किरनहेंजोगकर
नकोटीको ॥ अगृस्वामीकारजसबसरिहैंठनेरनारसदीको ॥४॥
॥५॥ राग आसावरी ॥ आजदसहरासुनदिननीकेगिरिधरलाल
जवारेपहरनवन्यौहैंनालकुमकुमकोटीको ॥१॥ देहअमीसस
कलगोपीजननिरजीयोकुवरनांवनोजीको ॥ प्रेमदासप्रभुको
मुखनिरखनत्रिभुवनकोसुखलागत ॥१॥२॥ रागकांनरो ॥ सुन
महूरतविजैदसमीकोनीकोप्रथमसमागमपीयहूलाससहती
विनयकरतप्यारीसोंवेगिपधारोपीयकेपास ॥१॥ मंजनकरि
आभूषनधारोकनकअंगपटचीरसुवास ॥ धीरजधरि वृषभा

मारीपुरनकरीप्रीतमकीआस।२।नवनागरसंगनवलना
संगमबरनतहेंदास।श्रीवल्लभपदरजकृपापात्रकृंनि
नवलह्नदेसकास।३।९।राग मारू।देषीहोकंतरघुनाथआयो
प्योमसिमरअतीचारचक्रतनयोघुरमेंघुरआकासछायो ।
नवनमोन्योकहोआपनेंमदरहोदेहकेंगर्तअभिमानवाढो
नीबदोकंतअबकहीनतयोछूटिबोगहेंकरवीसकंकार
।१।सिंघुगंभीरदलछाडिदेसुगधवलतेंनकरीयाकजांटे
।बेचेकोडबतेंमाकलागयो।धकालसीनावदोटूकफाटी।२।
सुनीतुगेन्योपंछिनमेंआनीयाचरजपरआनीखेलो।अ
बरहेबातहनुमांनपेंसुवजनबजानकीनाथमेलो।धा९अ
ककुघ्योहनुमानउदधिजांनकीसुधीलेनकोंदेपनदक
पनेंनाथकोंसुखदेनकों।४। लाचली।
नीतमकहीया।मोगीरदसजोतन ।

३. धरनी धसि गई पताल नार परे लाग्यो ॥ सेसकु केम सिरजाइ कमठ
पीठ लाग्यो ॥३॥ अपन बदन सेन मदन बडो पीत गात है उतरोते
दछन मानों मेरु ह्वो जात है ॥४॥ रामचंद पद सकता पजग मगे नसुन
को ॥ नंददास सुर नर मुनि कोति कजूले ताको ॥५॥१॥ श्रीकृष्णाय
नमः ॥ अथ रास के कीर्तन ॥ राग भैरव ॥ मान लाग्यो गिरधर गावे
तत थेई तत थेई तत ता थेई तेरों राग मिलि मुरली बजावे ॥१॥ नाच
तन बहु भांत उजारी ॥ अब घर गति उपजावे ॥ नूपुर कनित कुनि
त कटि मेखल जुवती सब दमन मोद बढावे ॥२॥ सुरत दे न मानों म
न मधु पगान एक तालीस बके जीय जावे ॥ गिरधर पीय प्यारी की
पदरज कृष्णदास न्योछावर पावे ॥३॥ नाचति ब्रज कन्यांन कुंवरि द
ससुता पुलिन मधि हंस हंसनी मयुर मंडली बनी ॥ गावत गोपाल
लाल मिल बतक पताल चाल लजित अति मत मदन कामिनी अ
नी ॥१॥ पदिक लाल कंठमाल तरनि तिलक फलक ताल श्रवन

फूलवरहुफूलनासिकामनी॥१॥नीलकंचुकीसुदेसचंपक-
लीगलितकेसमुकलितबरदामबामकटिसुकाछनी॥२॥म
करतमनिबलयराचमुरखरखुपुरसुनावजावकजुतिचरनन
खचंद्रिकाबनी॥अंगनिबासजुबविलासदासरास्सवूरसुधंग
अलगलागलेतसुघरराधिकायुनी॥३॥कामसिधकितोबंधरी
फरदेचरनगदेसाधुसाधुकहतरहतराधिकाधनी॥नेटनगहि
वाद्मुलउरत्तपरसनडफूलव्यासबचबजांनफूलरसिकत्त
वुनी॥४॥रागरामकली॥देखोदेखोरीनागरनटनिर्तनकालिं
दितटगोपिनकेमधिराजेमुकटलटककाछनीकिंकिनीक
टिपीतांबरकीचटककुंडलकिरनरबिरथकीअटका॥ततथे
इततथेइसबदसकलघटउरपतिरपपरेंपगकीपटकरास

तनियांतिकटअधरमुरलीधरी॥सुनतसुरअवननतिनवनअन-
सुंदरीआतिआकासहूसुवनबरखाकरी॥५॥धेनऔरवछरख
गमृगवधूसुतिसबेरदेंधरध्याननदीचरतत्रनुमुखपरी॥मूलग्री
तिकूलजलअनिलथकेतासमेसिलाद्रिवद्रिवतरजनीसुग
तिमतिहरी॥२॥सकलद्रुमबेलाप्रफुल्लितमुदितअवरनरयुं
जमधुपानमधुकरतसुनतासमघरी॥नाथवारजबदनमदन
मादनहूवरमोहेकोटिकमदनहरवनअघत्रिदरी॥३॥राग वि
वला॥चलोकुलाधिकेसुजानतेरेहितसुखनिधानरासरमोका
हूतटकलिंदनंदिनी॥निर्मलतनुवतिसमहलागरंगअतिकोमृ
दुलबालतनरससुलसुरतिकाअनंदनी॥१॥वंसीवटनिकटतह
परमरमनभूमिनहांसकलसुखदमलयवहेंबायमंदनी॥
जातीइखदविकासकाननअतिसदेसुबासराकानिसरस
रमासविमलचांदिनी॥२॥कृस्नदासप्रभुविहारलोचनअ

रागटो

डी॥

नूपुरकूजे।कनककुंजकचवीविपसीनाममनोहरमो।लिनपू
जेयराद्रिमलतातमालश्रवलंवितसीकमल्लिकाफूली कुचिन

केसबीचअरुझानेमनोअलिमालफूली॥४॥सरदबिमलनिस
चंदबिराजतक्रीडतयमुनाकूले॥परमानंदस्वामीकोतहलदे
खतसुरनरमुले॥५॥राग॥चंदगोविंदगोपीतारागनचन्योरासमें
बनवारी॥सुरवसकासरंजितवृंदाबनतनवलजुवतीननसुकवा
री॥१॥कवलनैनकवनीयमनोहरमनुहरनीगोकुलनारी॥हस्त
कमलबरगलितकुसमदलनिर्तमानप्रीतमप्यारी॥२॥स्रमें
सिकनीतामिनअतिरसालबनबिहारी॥कृस्नदाससप्रभुरसिक
मुकटमनिरसिकरायगिरवरधारी॥३॥रागअसावरी॥व्रषभा
ननंदनीनाचनरासरंगनरी॥उरपतिरपलागडाटठघटतसौगी
सहनलथेईथेईथेईबोलततगनवंदनी॥१॥नाचतसुगतता
लमृदंगलेतजुवतीअतिसुगंधकोककलानिपुनसरसकाम
कंदनीरीझवारदेतप्रानप्रभुमुकुंदअतिसुजानमोहेकलगा
नत्रियेप्रेमफंदनी॥२॥रागमारु॥नच्योरासमंडलएयुवतीजूथ

श्वनीश्री
रीकृकिावैं

।अंगअंग चित्रकीएमोरचंदामाथेदीनेकाछनीकाछेपी
चतुरविहारीप्यारीपरवारोंतनमनधनयहछवि

ट्रमिलीनवरंगबरकपम

रीगमपधनीअलापकरतरसउपजततानतरंग॥१॥निर्ततअति
जतलेतअअततकिटथेमकथिलागथोंत्रनमृदंमगोविंदअनूकेअं
गअंगपरवारोकोटिअनंग॥२॥राग गन २॥आजुबननीकोरासबना
यो॥फुलनपविति सुनगजमुनातटमोहनबेनुबजायो॥१॥कलकि
किनीकंकनपगनूपुरधुनिसुनिखगमृगसचपायो॥जुवतिनमं
डलमधिस्यामघनसारंगरागजमायो॥२॥तालमृदंगउपंगमुरज
डफमिलरसमिसहबदायो॥बिबिधिबिसदवृषभानुनंदिनीअंगसु
अंगदिखायो॥३॥अभिनयनिपुनलटकटलेलोचनभ्रकुटीअनंग
नचायो॥ततथेईततथेईधरतनूतनगतिपतिब्रजराजरिझायो॥४॥
सकलउदाररसिकचूडामनिसुखबारधबरषायो॥परिरंभनचुंब
नआलिंगनउचततुवतिजनपायो॥५॥बरषतकुसममुदितन
गनायकइंद्रविमानबजायो॥हितहरिबंसरसिकराधापतिज
सुबितानजगछायो॥६॥राग नट॥नागरीनटनरागजमायो॥ताननमा

वि

॥३॥ अन्यनिपू

॥सकलत्रियनमेंसदृजचातुरीअंग

॥राग मालव॥रासविलासरंगनरिनाचतनवलकिसोरनवल

॥

नधरसुरतकेलकंचुकीछोर ॥३॥ राग माल व ॥ रासमंडलमेंवनतनांच
तपीयकेसंगछितमप्यारी ॥ गावतसरसमजातमिलावतचपलकु
टिलसुवेसनियारी ॥१॥ मालवराग अलापतनांमतिलेतउरपत
गरनारी ॥ प्यारीकेरसवेनुवजावतसुघरराइगिरवरधारी ॥२॥ कल
दमसरसुसौनगरीबासबजुवतीनमेंसुकवारी ॥ जोरीअनुतमग
टतनतलकेलकलारसमनुहारी ॥३॥ अलागलागनउरपतिर
पगतिनटवतत्रृतललनारासे ॥ उघरततराहूतनथेइथेइततथेस्र
गनेंतीइखदहासे ॥१॥ चपलछंदजनावतगावतबाधतमदनमोह
पासे ॥ चलतउरनपटकंकनकुंडलश्रमजलकनसोभितआसे ॥२
नूपुरस्ननितकुनितकटिमेखलकटितटिकाछनीलवासे ॥ अवघर
तानमानवंधानसोमोहतविस्वचरन्योपे ॥२॥ मोहनलालगोवरध
नधारीविफ्कवतछैलसुघरलासे ॥ अपनेकंवकीपीपश्रमजलमि
तिमालादेतकुलदासे ॥४॥ राग सनावतरासमेंगोपालसंगमुदित

घोषनारी॥ तकतमालस्यामलालकनकवेलप्यारी॥१॥ चलनितं
वनूपुरकटिलोलवंकग्रीवा॥ राग तोनमानसहितबेंनगानसीवा
२॥ अमलजलकलरितसुजगेंनरंगमोदे चक्रुतसगुमिरिवरध
रजनविततमोदे॥३॥ गोपवधूमंडलमधिनायकगोपाललाल
रुचिराअरुनवीवाधरमुरिकाधरे॥ अकृतनटवरविचित्रभेखरेख
गतिमुदेसकनककपिसकाछसिखीसखंडसेखरे॥४॥ क्रूकृ
कर्फकनकिटथूंगथूंगगतकिटधिकटथुमकिटततथेइतुघटतरा
सेरंगभरे॥ जेजेगिरराजधरनजेकोटिमदनमनहरनहरिजीवन
लिवलिअजपुरपुलंदरे॥५॥ रा॥ टोडी॥ कुलतरनतनयातीररास
डलरच्यो अधरकरमधुरसुरबेंनुबाजे॥ जुवतिजनजुसंग
नेकगतिनिरखिअमिमानतजिकामलाजे॥१॥ स्मा को
सेवपदनखनसुजचंद्रकासकलजुवतिमरजाजे॥ ज
सजूवधनकलोचनचपलचितवनीमदनजसुवा

रकरमंजीरकटिकिंकनीकुनितरबचनगंभीरजानोमेघगाजे द
मकुंजनननाथहरिदासवपधरिनरवसिखसरूपअद्भुतबिराजे
३॥श्रीराग॥मेपवृंदसंगनृतनरंग॥सरिगमपधनीआलापकरत
रमउपजतिओघरतानतरंग॥१॥तालकाछनीकटिपीतदिपा
रेछबिबनजविचित्रसोदेसंग॥गोविंदप्रभुत्रैलोकविमोहनवा
रिफेरिडारोंकोटिअनंग॥२॥रासमेंरसिकमोहनबनेभामिनीसु
भगपांवनपुलिनसरमोरचंद्रननमनमधुपकरतिकरवद
कीजामिनी॥१॥त्रिविधरोचकपवनतापदिनमनदवनतहांवाढे
खनसंगमनकामिनी॥तालवीनामृदंगसरसनाचतमुरगंधगए
कतेएकसंगीतकीस्वामिनी॥२॥रागरागिनजमीविपनवरषत
अमीअधरबिंबनरमीमुरलीअतिरमनी॥लागकटउरपमग
सुरसोंसुलपलेतसुंदरसुघरराधिकाभामिनी॥३॥तततथेईथे
ईकरतगतिनौतनधरपलटपगमेंनेघरतगजगामिनीधाय

नवरंगधरीउरमराजलतरखरी॥अनेकलदंसद्रिबंसघनदामि
नी॥धारासनिर्त्तमाननांमिनीगुपालसंग तरुनतनपापुलनवि
मलविकसतजातीसुवास॥४॥लेतसुलफउरपतिरपदरसत
वरईखदहास॥वदनजोतीतुछीकृतमोदितउडपतिअका
स॥स्यानीलपाटकाछकंचुकीउतंगमधविलास॥गोवरधनधरख
लालविकवतअनुकूलदास॥६॥रागकेदारो॥सुनधुवमुरलीब
नवाजेहरिरासरच्यो कुंतकुंतकुसमबेलीसफुलितमंडलकंच
नमननखच्यो॥१॥निर्तनजुगलकिसोरजुवतिजनमनमिल
रागकेदारोमच्यो॥हरदासकेस्वामीस्यामाकुंजविहारीनीके
आजगुपालनच्यो॥२॥वृषभानुनंदनीनाचतलालनगिरधर
नसंगडाटउरपतिरपरासरंगराच्यो॥जुवतीजथसंगमिलेगा
वतकेदारोरागअवघरअरसुघरतानगानरंगरच्यो॥३॥रास॥
पा

गकुलासरंगराख्यो॥ वनितामंलकृष्णपपीयननिरषिथको सघन
वंदवलिहारीकृष्णदासप्रभुजसरंगराख्यो॥२॥ सूरतमधुरतमधुरबे
नरसाल चारुधुनवेसुवनश्रवनविमोहीहजवाल॥ सुनिथ
केसुरनरपवनपसुरवगसुधिनहीतिहिकाल॥ निरखकेतिक
चंदन्नल्योतजीपछमचाल॥२॥ राजरितगोवरधनतटस्यामरास
गोपाल॥ दासकुंभनप्रभुहसोफननगोवरधनधरलाल॥३॥ राग
बिहागरो॥ पियकोनचवतासिषवतप्यारी॥ वृंदाबनमेरासर
च्योहेसरदरैनउजियारी॥१॥ तानमध्येगउपंगवजावतस्यामतिश्या
वीनललितारी॥ रूपनरीगुनराधछरीलीमेंदरपतिला
बिहारी॥२॥ बेनवीनन्पुरधुनिकाननरवमगाबुद्धिबिसारी
व्यासस्वामीनीकीछविनिरषतरीफदेतकरतारी॥३॥ बिहागरो॥
लाडलीनमानेंलालन्ज्ञापपावधारिये जेसेप्यारीमानतजेसे
जतनविचारो॥ वातितोवनायकहीजेतीमतिमेरी नेंकहूनमं

लालएसीत्रियमतेरी॥१॥अपनीचोंपकेंकाजेसखीजेखकीनों
भनबसनसाजवीनाकरलीनो॥२॥उतनेंआवतदेखिचकत
बिहारीकोनगावबमतहोरूपउजियारी॥३॥णांमतोहेनंदगांम
निमेरीप्यारीनावतोदेनवलसखीतोहिवोलनआईकरसो
करजोरप्यारीनिकटवेगाउ॥समसुरनमिलफुलपकजा॥४॥
कमोतिहारचारुउरपहिराबे॥हमारोभावरोजदूएसेंबुरजा
॥५॥जोउजोउचाहेसोउमागवलिलीजेपदेदांनमेमागेसाव
सोमानतकीजे॥६॥मुखमैंमुषजोरप्यारीदर्पनदिषावे॥नि
षिछवीलीछविप्रतिबिंबलजावे॥७॥छंदमउमुरिआपोद
॥धारिलिराधाप्यारीआकोनरिलीनी॥८॥अ
थनतेर कैपद॥रागदेसांधार॥आजमाईधनथोवंतनंदरांनी
तिकबदितेरसदिनउक्तिमागावतमंगलवांणी॥१॥नवसत
जिसिंगारअनूपमआपकरतमनमांनी ला